

+२ स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम योजना नविन सुधारीत पाठ्यक्रमाप्रमाणे शासकीय, अशासकीय अनुदानित व अशासकीय कायम विना अनुदानित संस्थातील अभ्यासक्रम निश्चिती करून प्रशासकीय आदेश काढणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन  
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग  
शासन निर्णय क्र.क्हीओसी २०१५/प्र.क्र. १०९/व्यशि ४  
मंत्रालय (विस्तार), खोली क्र. ४३५,  
महात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२  
दिनांक :- ०४/०७/२०१५

संदर्भ :- १) उच्च व तंत्र शिक्षण शासन निर्णय क्र. क्हीओसी-२०१४/१२८/प्र.क्र.३५, व्यशि-४ दि.२७.३.२०१४

- २) म.रा. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे यांचे मा.अवर सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय यांना अग्रेषित केले पत्र क्र.रा.म./पापुई-७/२४७४, दि.२२.०४.२०१५
- ३) संचालक(व्यवसाय शिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४/क्हीओसी /२२०३/२०१५/४५ दि. २९/०५/२०१५ व ४/क्हीओसी /२२०३/२०१५/५५ दि. १६/०६/२०१५

#### प्रस्तावना :-

केंद्र शासनाच्या १९८६ च्या नविन शैक्षणिक धोरणानुसार + २ स्तरावरील व्यवसाय अभ्यासक्रमाचे शिक्षण देऊन जास्तीत जास्त युवकांना रोजगार/स्वयंरोजगार करण्यास प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीने राज्यात १९८८-८९ पासून ७०% व्यवसाय शिक्षण व ३०% सामान्य शिक्षण अंतर्भूत असलेले किमान कौशल्यावर आधारित व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आले. हे अभ्यासक्रम प्रात्यक्षिकाभिमुख असल्याने विद्यार्थना संबंधित व्यवसायाशी निगडीत किमान कौशल्य प्राप्त करून स्वतःचा उद्योग सुरु करावा अथवा औद्योगिक आस्थापनामध्ये नोकरी करावी आणि उच्च शिक्षणाकडे जाणारा लोंडा कमी व्हावा हा या योजनेचा उद्देश आहे. या अभ्यासक्रमाचे किमान कौशल्यावर आधारीत अभ्यासक्रम हे नाव संदर्भाकीत अनु क्र. च्या शासन निर्णयान्वये बदलण्यात आले असून ते उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम (H.S.C.Vocational) असे करण्यात आले आहे. हे उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम ६ गटामध्ये विभागण्यात आले असून सद्यःस्थितीत एकूण ३० अभ्यासक्रम राबविण्यात येत आहेत.

सदर अभ्यासक्रमांची औद्योगिक क्षेत्राच्या गरजेनुसार व आधुनिक उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित पुनर्रचना करण्याचे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे यांचे राज्यस्तरीय बैठकीत चर्चा करून ठरविण्यात आले. त्यास अनुसरून + २ स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम योजनेतील सत्र २०१४-१५ सुरु असलेले जुने ३० व्यवसाय अभ्यासक्रम

रुपांतरीत नविन २० अभ्यासक्रमात करण्याचे उक्त संदर्भित शासन निर्णय दि. २७.३.२०१४ नुसार मान्यता देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे यांनी नविन अभ्यासक्रम तयार करून शासन मान्यतेसाठी शासनास सादर केलेले आहे. त्यास अनुसरून संस्थानिहाय जुने अभ्यासक्रम रुपांतरीत नविन अभ्यासक्रम करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

### शासन निर्णय :-

राज्यातील +२ स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमाची योजना राबविणा-या शासकीय, अशासकीय अनुदानित व अशासकीय कायम विना अनुदानित संस्थामध्ये जुने अभ्यासक्रम रुपांतरीत नविन अभ्यासक्रम करून प्रवेश सत्र २०१५-१६ पासून नविन पाठ्यक्रमाप्रमाणे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. संस्थानिहाय जुन्या व रुपांतरित अभ्यासक्रमांची यादी सोबतच्या प्रपत्र अ, ब व क नुसार जोडली आहे.

- १) नविन पाठ्यक्रमाप्रमाणे अभ्यासक्रम सर्व शासकीय, अशासकीय अनुदानित व अशासकीय कायम विना अनुदानित संस्थामध्ये सत्र २०१५-१६ पासून सुरु करण्यात यावेत.
- २) सध्या सुरु असलेले जुने अभ्यासक्रम व २०१५ पासून सुरु करावयाचे नविन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम यांच्या नावात काही तफावत असल्यास ते दुरुस्त करण्याचे अधिकार संचालक(व्यवसाय शिक्षण) यांना देण्यात येत आहेत.
- ३) जुने अभ्यासक्रमाएवजी वेगळ्या नविन अभ्यासक्रम घ्यावयाची परवानगी शासन मान्यतेने देण्यात येतील.
- ४) सदर नविन अभ्यासक्रमाप्रमाणे सुधारित पाठ्यपुस्तके व आवश्यक बाबी उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था संचालक (व्यवसाय शिक्षण) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे स्तरावरून घेण्याची दक्षता घ्यावी.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्र. २०१५०७०४१२३०४९९०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(रा.गो. जाधव)  
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १) संचालक (व्यवसाय शिक्षण) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई१
- २) अध्यक्ष /सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे .

- ३) शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
- ४) मा. मंत्री (उ व तं.शि) यांचे खाजगी सचिव यांना माहितीसाठी सादर.
- ५) मा. राज्यमंत्री (उ व तं.शि) यांचे खाजगी सचिव यांना माहितीसाठी सादर.
- ६) मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक.
- ७) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक.
- ८) सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई /नाशिक/ पुणे/औरंगाबाद. (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालया मार्फत.)
- ९) संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालया मार्फत.)
- १०) संबंधित अशासकीय संस्था (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालया मार्फत.)
- ११) सह सचिव (व्यशि), उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक.
- १२) निवड नस्ती (व्यशि-४)

प्रपत्र अ  
**शासकीय तांत्रिक विद्यालयात सुरु असलेले उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम**

विभाग	जिल्हा	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	नवीन सुधारित व्यवसाय अभ्यासक्रम
१	२	३	४	६
मुंबई	मुंबई शहर	१ शासकीय तांत्रिक विद्यालय, दादर, मुंबई-२८	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
			कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
			मेंटेनन्स अँन्ड रिपेअर्स ऑफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी
	मुंबई उपनगर	२ शासकीय तांत्रिक विद्यालय, विलेपाले, मुंबई-५६	मेंटेनन्स अँन्ड रिपेअर्स ऑफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी
			ऑटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
			कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
			बिल्डिंग मेंटेनन्स	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
	ठाणे	३ शासकीय तांत्रिक विद्यालय, मुंबई-८१	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
			ऑटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
			कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
			इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
	रायगड	४ र.वा.माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, खार, मुंबई-५२	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
			मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी
			मेंटेनन्स अँन्ड रिपेअर्स ऑफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी
			बिल्डिंग मेंटेनन्स	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
	५	५ शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, ठाणे	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
			बिल्डिंग मेंटेनन्स	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
			ऑटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
			मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी
	६	६ शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, उल्हासनगर, ठाणे	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
			बिल्डिंग मेंटेनन्स	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
			ऑटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
			मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी
	७	७ शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, पेण	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
			ऑटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
			इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
			मेंटेनन्स अँन्ड रिपेअर्स ऑफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी
	८	८ शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, महाड	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
			ऑटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
			मेंटेनन्स अँन्ड रिपेअर्स ऑफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी

१	२	३	४	५
मुंबई	रत्नागिरी	शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, रत्नागिरी	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी
			मेटेन्नस अँन्ड रिपेअर्स ॲफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी
			कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	सिंधुदुर्ग	टोपीवाला मेमोरियल तांत्रिक विद्यालय, सावंतवाडी	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
			इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
			ॲटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	ॲटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
पुणे	पुणे	शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, पुणे	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
			मेटेन्नस अँन्ड रिपेअर्स ॲफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी
			ॲटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	ॲटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
	सातारा	शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, सातारा	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
			ॲटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	ॲटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
			बिल्डिंग मेटेन्नस	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
	सांगली	शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, कवठेमहांकाळ	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी
			मेटेन्नस अँन्ड रिपेअर्स ॲफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी
			ॲटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	ॲटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
सोलापूर	सोलापूर	महाराष्ट्र तांत्रिक प्रशाला, सोलापूर	बिल्डिंग मेटेन्नस	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
			ॲटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	ॲटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
			मेटेन्नस अँन्ड रिपेअर्स ॲफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी
			बिल्डिंग मेटेन्नस	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
	कोल्हापूर	शिवाजी तांत्रिक विद्यालय, कोल्हापूर	ॲटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	ॲटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
			मेटेन्नस अँन्ड रिपेअर्स ॲफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी
			मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी
नाशिक	नाशिक	शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, नाशिक	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
			मेटेन्नस अँन्ड रिपेअर्स ॲफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी
			ॲटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	ॲटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी

१	२	३	४	५
नाशिक	नाशिक	१८	शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, मालेरांव	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी मेटेनन्स अँन्ड रिपेअर्स ऑफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस
			धुळे	कॉम्प्युटर टेक्निक्स मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
			नंदूरबार	ऑटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मेटेनन्स अँन्ड रिपेअर्स ऑफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस बिल्डिंग मेटेनन्स
	जळगांव	२०	शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, नंदूरबार	ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
			जळगांव	कॉम्प्युटर टेक्निक्स मेटेनन्स अँन्ड रिपेअर्स ऑफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस मेक्निकल टेक्नॉलॉजी
		२२	शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, भुसावळ	कॉम्प्युटर टेक्निक्स मेटेनन्स अँन्ड रिपेअर्स ऑफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस ऑटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन
		२३	शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, जामनेर	मेटेनन्स अँन्ड रिपेअर्स ऑफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस मेक्निकल टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स
	अहमदनगर	२४	शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, वरणगांव	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स ऑटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन
			अहमदनगर	मेटेनन्स अँन्ड रिपेअर्स ऑफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस ऑटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मेक्निकल टेक्नॉलॉजी
औरंगाबाद	औरंगाबाद	२६	शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, औरंगाबाद	मेटेनन्स अँन्ड रिपेअर्स ऑफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मेटेनन्स

१	२	३	४	६
औरंगाबाद	औरंगाबाद	२७	शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, पैठण	मेंटेनन्स अँन्ड रिपेअर्स ऑफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस
				ऑटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन
				मेक्निकल टेक्नॉलॉजी
	२८		शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, वैजापूर	मेंटेनन्स अँन्ड रिपेअर्स ऑफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस
				ऑटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन
				बिल्डिंग मेंटेनन्स
	परभणी	२९	शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, परभणी	ऑटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन
				बिल्डिंग मेंटेनन्स
				मेंटेनन्स अँन्ड रिपेअर्स ऑफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस
	हिंगोली	३०	शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, कळमनुरी	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी
				बिल्डिंग मेंटेनन्स
				मेंटेनन्स अँन्ड रिपेअर्स ऑफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस
नांदेड	३१		शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, देगलूर	ऑटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन
				कॉम्प्युटर टेक्निक्स
				मेंटेनन्स अँन्ड रिपेअर्स ऑफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस
	३२		शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, हदगांव	कॉम्प्युटर टेक्निक्स
				कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
				ऑटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन
बीड	३४		शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, बीड	बिल्डिंग मेंटेनन्स
				मेंटेनन्स अँन्ड रिपेअर्स ऑफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस
				ऑटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन
	३५		शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, आंबेजोगाई	मेंटेनन्स अँन्ड रिपेअर्स ऑफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस
				ऑटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन
				इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी

१	२	३	४	५
ओरंगाबाद	लातूर	३६	शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, लातूर	मैटेनन्स अँन्ड रिपेअर्स ऑफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस मेक्निकल टेक्नॉलॉजी ऑटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन
		३७	शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, निलंगा	मैटेनन्स अँन्ड रिपेअर्स ऑफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस मेक्निकल टेक्नॉलॉजी ऑटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन
		३८		बिल्डिंग मैटेनन्स मैटेनन्स अँन्ड रिपेअर्स ऑफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
	उस्मानाबाद	३९	शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, उस्मानाबाद	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		४०		मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मैटेनन्स अँन्ड रिपेअर्स ऑफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस
		४१	शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, बुलढाणा	कॉम्प्युटर टेक्निक्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी
	बुलढाणा	४२		मैटेनन्स अँन्ड रिपेअर्स ऑफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस मेक्निकल टेक्नॉलॉजी ऑटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन
		४३	शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, यवतमाळ	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मैटेनन्स ऑटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन
		४४		मेक्निकल टेक्नॉलॉजी मैटेनन्स अँन्ड रिपेअर्स ऑफ इलेक्ट्रीकल डोमेस्टीक अप्लायन्सेस इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी



प्र प त्र -ब  
2 स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम संस्थांचा डाटा बेस  
अनुदानित संस्थांची संस्थानिहाय व अभ्यासक्रमाची माहिती

विभाग	जिल्हा	अ.क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेला अभ्यासक्रम	नवीन रूपांतरीत अभ्यासक्रम
1	2	3	4	5	6
मुंबई विभाग	मुंबई शहर	1	डॉ.जी.रुपारेल, कॉलेज, माटुंगा	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
				एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		2	के.एम.एस.शिरोडकर, परेल, मुंबई-12	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
				बेकरी व कन्फेक्शनरी	फुड प्रॉडक्शन
				मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन
		3	शारदाश्रम विद्यामंदिर तांत्रिक विद्यालय, दादर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
				एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
				बॉकिंग	बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
				मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी
		4	एम.पी.शाहा महिला कॉलेज, माटुंगा	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
				बेकरी व कन्फेक्शनरी	फुड प्रॉडक्शन
				क्रेच अण्ड प्री स्कूल मॅनेजमेंट	चाईल्ड, ओल्ड ऐज अण्ड हेल्थ के अर सर्क्स
				अकॉर्टिंग अण्ड ऑफीटिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
		5	भाऊसाहेब हिरे विद्यालय, मुंबई-34	बॉकिंग	बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
				अकॉर्टिंग अण्ड ऑफीटिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
				मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन
		6	डॉ.आंबेडकर कॉलेज, वडाळा, मुंबई	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
				एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
				टुरिझम अण्ड ट्रॉक्स टेक्निशियन	टुरिझम अण्ड हॉस्पिटलिटी मॅनेजमेंट
		7	महार्षि दयानंद कॉलेज, परेल, मुंबई-12	अकॉर्टिंग अण्ड ऑफीटिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
				फिशरी	फिशरी टेक्नॉलॉजी
				मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन
				इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		8	महात्मा फुले ज्यु.कॉलेज, परेल, मुंबई	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
				मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी
				मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन
		9	गुरुनानक खालसा कॉलेज, माटुंगा, मुंबई 19	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
				बॉकिंग	बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
				अॉफीस मॅनेजमेंट	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
		10	नवीहंद ज्युनिअर कॉलेज, शिंदेवाडी, दादर पूर्व, मुंबई 14	अकॉर्टिंग अण्ड ऑफीटिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
				बंद	
एकूण मुंबई शहर जिल्हा	11				

1	2	3	4	5	6
	मुंबई उपनगर	1	स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय , इंग्रजी माध्यम, सिंधी सोसायटी, चैंबूर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. कुकरी मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग बॉकिंग दुरिझम अँण्ड ट्रक्हल टेक्निशियन एक्स- रे- टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी फुड प्रॉडक्शन मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स दुरिझम अँण्ड हॉस्पिटॉलिटी मॅनेजमेंट रेडिओलॉजी टेक्निशियन
	2		व्ही. एस. गुरुकुल टेक्निकल हायस्कूल व ज्यु. कॉलेज, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई - 77	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनेशन आर.एम.आर.ई.एम. मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी
	3		पाटुक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, वाकोला ब्रिजजवळ, सांताकुळ (पूर्व)	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. मेडिकल लॉबरेटरी टेक्निशियन अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग बिल्डिंग मेन्टेनेशन मेक्निकल टेक्नॉलॉजी दुरिझम अँण्ड ट्रक्हल टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॉबरेटरी टेक्निशियन कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी दुरिझम अँण्ड हॉस्पिटॉलिटी मॅनेजमेंट
	4		मिठीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स कॉलेज	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. मेडिकल लॉबरेटरी टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॉबरेटरी टेक्निशियन
	5		शिवाजी शिक्षण संस्थेचे मल्टीप्रॅज टेक्निकल हायस्कूल व ज्यु.कॉलेज, पतंनगर, घाटकोपर(पू), मुंबई	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
	6		रिझवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स,सायन्स व कॉमर्स, रिझवी कॉम्प्लेक्स, वांद्रे(प),	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कुकरी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी फुड प्रॉडक्शन
	7		बांद्रा उद्योगस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, एस.व्ही.रोड, वांद्रे(प), मुंबई 50	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किंपिंग मेडिकल लॉबरेटरी टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी लॉजिस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट मेडिकल लॉबरेटरी टेक्निशियन
	8		साठे कनिष्ठ महाविद्यालय,एम.सी.व्ही.सी.विभाग, दिक्षीत मार्ग, विलेपार्ल (पू), मुंबई-57	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग आफीस मॅनेजमेंट बॉकिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
	9		नरशी मोनजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँण्डइकॉनोमिक्स ज्यु.कॉलेज, विलेपार्ल	दुरिझम अँण्ड ट्रक्हल टेक्निशियन अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	दुरिझम अँण्ड हॉस्पिटॉलिटी मॅनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट
	10		उपनगर शिक्षण मंडळाचे विद्यानिधी कमला रहेजा ज्यु. कॉलेज ऑफ व्हाकेशन्स स्टडीज जह मुंबई ब्रजलाल	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मेन्टेनेशन एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी

1	2	3	4	5	6
		11	स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय , हिंदौ माध्यम, सिंधी सोसायटी, चैबूर	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन बिल्डिंग मेन्टेनन्स पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किंपिग क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मैनेजमेंट	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट चाईल्ड, ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ के अर सर्किंस
		12	श्रीमती टी.एस.बाफना कनिष्ठ महाविद्यालय, मालाड (प)	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप ऑफीस मैनेजमेंट बॉकिंग क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मैनेजमेंट	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स चाईल्ड, ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ के अर सर्किंस
		13	योजना कनिष्ठ महाविद्यालय, जनरल अरेण्कुमार बैंड नगर, टाटा पाँवर हाउस जवल	बिल्डिंग मेन्टेनन्स मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन
		14	एस.के.सोमव्या विनयमंदिर कनिष्ठ महाविद्यालय, विद्याविहार	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप बॉकिंग अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		15	के.जे. सोमव्या विनयमंदिर कनिष्ठ महाविद्यालय, विद्याविहार	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		16	चतना हजारीमल सोमणा क.महाविद्यालय, वांद्रे(पूर्व)	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप बॉकिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स
		17	सरस्वती विद्यामंदिर अँण्ड ज्युनिअर कॉलेज, भांडूप (प), मुंबई -78	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		18	फादर फ्रैंसल तात्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, वांद्रे (प), मुंबई	एम.आर.ई.डि.ए. मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी
		19	नॅशनल कनिष्ठ महाविद्यालय कॉर्मर्स आर्ट्स अँण्डसायन्स, भांडूप(प), मुंबई	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
एकूण मुंबई उपनगर		19			
	ठाणे	1	मो.ह.विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, ठाणे	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन
		2	रयत शिक्षण संस्थेचे कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज, वाशी मॉडन कॉलेज, वाशी,	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन बिल्डिंग मेन्टेनन्स मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		3	राधिकाबाई मेघे कनिष्ठ महाविद्यालय, ऐरोली	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बॉकिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स
		4	टिळक एज्युकेशन सोसाचे इंग्लिश हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, नवी मुंबई	ऑफीस मैनेजमेंट	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		5	महात्मा गांधी मिशनचे प्रा. व सेकंडरी स्कूल, नेस्ल, जि.ठाणे	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एक्स- रे- टेक्निशियन	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी रेडिओलॉजी टेक्निशियन

1	2	3	4	5	6
		6	बिला कॉलेज ऑफ आर्ट्स सायन्स अँड कॉमर्स, बिला कॉलेज रोड, ता.कल्याण	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन
		7	जनरल एज्यु.सासा.चे हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, सुभेदर वाडा, गांधी चौक, ता.कल्याण	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		8	नेशनल उद्यू हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, आग्रा रोड, ता.कल्याण	एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		9	हिंदी ज्यु.कॉलेज, जोशीबाग, ता.कल्याण,	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन
		10	मातोश्री सरलाबाई फ्लात्रे विद्यालय, पाथर्ली, डॉविली	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन
		11	भिवंडी निजामपूर नगरपालिका कॉलेज, भिवंडी	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बॉकिंग	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
		12	एस.एच.ए.रईस हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, ता.भिवंडी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन
		13	थांमस बाटीस्टा कनिष्ठ महाविद्यालय, वसई-पापडी, ता.वसई	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		14	अण्णासाहेब वर्तक वसईरोड, वसई (पश्चिम)	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट लॉजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		15	सोनोपंत दांडेकर ज्यु.कॉलेज, खारेकुरण रोड, ता.पालघर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग हॉटीकल्चर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट हॉटीकल्चर
		16	सेवाश्रम शिक्षण संस्थेचे तांत्रिक कनिष्ठ महाविद्यालय, मुंबई,	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट लॉजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट ओटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		17	जनसेवा शिक्षण मंडळाचे विद्यामंदिर व कनिष्ठ महाविद्यालय, शिवळे, ता.मुरबाड	हॉटीकल्चर एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	हॉटीकल्चर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		18	महात्मा गांधी विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, धसई, ता.मुरबाड 952564-244177	आर.एम.आर.ई.एम. पोल्ट्री प्रॉडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड डे अरी टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		19	रयत शिक्षण संस्थेचे कला व वाणिज्य महाविद्यालय, मोराडा, जि.ठाणे	एम.आर.ई.डि.ए. पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी लॉजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		20	गोदरेज टेक्निकल हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, मु.पो.बोर्डी,ता.डहाणू	एम.आर.ई.डि.ए. मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी
		21	बाबुभाई पोंदा कनिष्ठ महाविद्यालय, ता.डहाणू, जि.ठाणे	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग एम.आर.ई.डि.ए.	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट लॉजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
एकूण ठाणे जिल्हा	21				

1	2	3	4	5	6
रायगढ		1	डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज महाड	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप टुरिझम अँण्ड ट्रॅक्हल टेक्निशियन	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट टुरिझम अँण्ड हॉस्पिटीलिटी मैनेजमेंट
		2	महात्मा फुले कॉलेज पनवेल	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए.	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		3	ग.रा.मेथा कॉलेज निजामपूर	मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए.	मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		4	एकलव्य आदिवासी मुलोद्योग प्रशाला बावळोली	बिल्डिंग मेनेन्स हॉटीकल्चर एम.आर.ई.डि.ए.	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		5	एच.एस.सी.कोकेशनल ज्यूनियर कॉलेज जोहे,ता.पेण जिल्ह रायगड	बिल्डिंग मेनेन्स एम.आर.ई.डि.ए.	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		6	कोलाड हायस्कूल कोलाड	एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		7	ना.ना.पाटील हायस्कूल पोयनाड	बॉकिंग बिल्डिंग मेनेन्स आर.एम.आर.ई.एम.	बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		8	इंडस्ट्रीयल ज्यूनियर कॉलेज अलिबाग	अॉफीस मैनेजमेंट अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग बॉकिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
		9	जा.र.ह.कन्याशाळा अलिबाग	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग बॉकिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
		10	महेदळे हायस्कूल व ज्यून.कॉ. रोहा	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		11	स.रा.तेंडुलकर हायस्कूल रेवंडा	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग ऑफीस मैनेजमेंट	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		12	अभिनव ज्ञानमंदीर कर्जत	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग बॉकिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
		13	सर एस.ए.हायस्कूल मुरुड-जंजिरा	बॉकिंग	बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
एकूण रायगड जिल्हा					
रत्नगिरी		13			
		1	ए. जी. हायस्कूल, दापोली	क्रॉप सायन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	क्रॉप सायन्स अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		2	श्रीराम विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेज, वेरवली, ता. लांजा	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन
		3	शिरगांव माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, शिरगांव, ता. चिपळून	मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए.	मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		4	न्यु इंडिश स्कूल अँण्ड ज्युनिअर कॉलेज, सावर्डे, ता. चिपळून	मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी बॉकिंग हॉटीकल्चर	मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स हॉटीकल्चर

1	2	3	4	5	6
		5	मंदार एज्युकेशन सोसायटी पेढांबे, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी	अकॉर्टिंग अॅण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अॅण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अॅण्ड स्टोअर किपिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉंजीस्टीक अॅण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		6	अभ्यंकर कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालय, रत्नागिरी	मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन अकॉर्टिंग अॅण्ड ऑडीटींग पर्चेसिंग अॅण्ड स्टोअर किपिंग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट लॉंजीस्टीक अॅण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		7	माध्यमिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, आबलोली, ता. गुहागर	मार्केटिंग अॅण्ड सेल्समनशिप अकॉर्टिंग अॅण्ड ऑडीटींग	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		8	श्रीमती र. पा. पालशेतकर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुहागर, ता. गुहागर	अकॉर्टिंग अॅण्ड ऑडीटींग हॉटीकल्चर	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट हॉटीकल्चर
		9	रा. ब. उ. श्री. देसाई माध्यमिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, कुंभवडे, ता. राजापूर	अकॉर्टिंग अॅण्ड ऑडीटींग पर्चेसिंग अॅण्ड स्टोअर किपिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट लॉंजीस्टीक अॅण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		10	महात्मा गांधी विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय साखरपा,	मार्केटिंग अॅण्ड सेल्समनशिप एम.आर.ई.डि.ए.	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		11	आठल्ये, सप्रे कनिष्ठ महाविद्यालय, देवरूख, ता. संगमेश्वर	बॉकिंग ऑफीस मैनेजमेंट	बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
एकूण रत्नागिरी जिल्हा	11				
सिंधुदुर्ग	1	खेमराज मेमोरिअल इंग्लिश स्कूल बांदा ता. सावंतवाडी	अकॉर्टिंग अॅण्ड ऑडीटींग एम.आर.ई.डि.ए. हॉटीकल्चर	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर
	2	आर.पी.डी.हायस्कूल सावंतवाडी ता. सावंतवाडी	बिल्डिंग मेन्टेनन्स मार्केटिंग अॅण्ड सेल्समनशिप	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
	3	बी.एम.गोगटे कॉलेज वेंगुर्ला ता. वेंगुर्ला	अकॉर्टिंग अॅण्ड ऑडीटींग एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	बॉकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन
	4	आर.के.पाटकर हायस्कूल वेंगुर्ला ता. वेंगुर्ला	बॉकिंग अकॉर्टिंग अॅण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अॅण्ड सेल्समनशिप	बॉकिंग अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट	बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
	5	बै.बाळासाहेब खड्केर कॉलेज वेंगुर्ला ता. वेंगुर्ला	अकॉर्टिंग अॅण्ड ऑडीटींग हॉटीकल्चर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	हॉटीकल्चर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट हॉटीकल्चर
	6	श्री. वासुदेवानंद सरस्वती विद्यालय माणगांव ता. कुडाळ	अकॉर्टिंग अॅण्ड ऑडीटींग एम.आर.ई.डि.ए.	अकॉर्टिंग अॅण्ड ऑडीटींग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
	7	कुडाळ हायस्कूल कुडाळ ता. कुडाळ	अकॉर्टिंग अॅण्ड ऑडीटींग ऑफीस मैनेजमेंट	अकॉर्टिंग अॅण्ड ऑडीटींग अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
	8	कणकवली कॉलेज कणकवली ता. कणकवली	अकॉर्टिंग अॅण्ड ऑडीटींग पर्चेसिंग अॅण्ड स्टोअर किपिंग टुरिझम अॅण्ड ट्रॉहल टेक्निशियन ऑफीस मैनेजमेंट	पर्चेसिंग अॅण्ड स्टोअर किपिंग टुरिझम अॅण्ड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट ऑफीस मैनेजमेंट	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट लॉंजीस्टीक अॅण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट टुरिझम अॅण्ड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
	9	एस.एम.हायस्कूल कणकवली ता. कणकवली	एम.आर.ई.डि.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मेन्टेनन्स आर.एम.आर.ई.एम. बॉकिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बॉकिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स

1	2	3	4	5	6
		10	न्यु. इंगिलिश स्कूल फोडाघाट ता. कणकवली	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट लॉंजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		11	शेठ नविनचंद्र मफतलाल विद्यालय खारेपाटण ता कणकवली	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		12	ए.एस.डी.टोपिवाला हायस्कूल मालवण ता. मालवण	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग बॉकिंग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप इन्शुरन्स	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
		13	आर.पी. बागवे हायस्कूल मसुरे ता. मालवण	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		14	श्रीराम मोरेश्वर गोगटे माध्यमिक विद्यामंदिर जामसंडे ता. देवगड.	एम.आर.ई.डि.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
एकूण सिद्धुरुंग जिल्हा	14				
एकूण मुंबई विभाग	89				
नाशिक विभाग	नाशिक	1	जनता विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेज, सातपूर, ता.जि.नाशिक	एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनेन्स मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		2	एस.व्ही.के.टी.कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, देवळाली कॅम्प, जि.नाशिक	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप आँफोस मैनेजमेंट टुरिझम अँण्ड ट्रक्कल टेक्निशियन	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट टुरिझम अँण्ड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट
		3	गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे बी.वाय.के.कॉलेज, आॉफ कॉमर्स, नाशिक	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिग बॉकिंग आँफोस मैनेजमेंट	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉंजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		4	आर.एन.सी.आर्ट्स जे.डी.बी.कॉमर्स बिटको कॉलेज, नाशिकरोड	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन
		5	पुरुषोत्तम इंगिलिश स्कूल, व आरंभ महाविद्यालय, नाशिकरोड	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉंजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		6	गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एस.एम.आर. के. महिला महाविद्यालय नाशिक	कुकरी बेकरी व कॉफेक्शनरी टुरिझम अँण्ड ट्रक्कल टेक्निशियन	फुड प्रॉडक्शन फुड प्रॉडक्शन टुरिझम अँण्ड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट
		7	माधवराव बोरस्ते विद्यालय, लाखलगाव, ता. नाशिक	एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनेन्स	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी

1	2	3	4	5	6
		8	एच.पी.टी. कॉलेज, नाशिक	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन टुरिझम अँण्ड ट्रक्टल टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन टुरिझम अँण्ड हॉस्टॉलीटी मैनेजमेंट
		9	के.जे.मेहता हायस्कूल, व इ.वाय.फडोळ ज्युनिअर कॉलेज , नाशिकरोड	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटोर्टिंग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		10	लोकनेते व्यक्तिराव हिरे महाविद्यालय, पंचवटी नाशिक	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन लॉजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		11	के.टी.एच.एम. कॉलेज, नाशिक	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		12	जनता इंगिलिश स्कूल, सायखेडा, ता. निफाड	एम.आर.ई.डि.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मेनेजमेंट	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		13	न्यू इंगिलिश स्कूल, चांदोरी ता. निफाड	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप एम.आर.ई.डि.ए.	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		14	क.का.वाघ विद्या भवन, भाऊसाहेब नगर ता.निफाड	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		15	कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, ओझरमिंग, ता. निफाड	एम.आर.ई.डि.ए. आर.एम.आर.ई.एम. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		16	के.आर.टी.हायस्कूल,मौजे सुकेणे, ता.निफाड	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		17	कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, लासलगाव ता. निफाड	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटोर्टिंग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		18	क.का.वाघ कॉलेज, पिपळगाव बसवंत, ता. निफाड	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन अॉफीस मैनेजमेंट	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		19	एच.ए.एल.विद्यालय, ओझरमिंग, ता. निफाड	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. बॉकिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स
		20	बी.के.कावळे ज्युनिअर कॉलेज,राजारामनगर,दिंडोरी	एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		21	श्री.सौ.एस.विद्यालय खेडगाव ता. दिंडोरी	एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		22	जनता इंगिलिश स्कूल, दिंडोरी, जि. नाशिक	एम.आर.ई.डि.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी आर.एम.आर.ई.एम.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		23	कला. विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, वणी	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटोर्टिंग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		24	जनता विद्यालय, वडनेर भैरव, ता. चांदवड	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट

1	2	3	4	5	6
		25	श्री. नेमीनाथ जैन विद्यालय, चांदवड	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेर्नेनन्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		26	एम.एस.जी कॉलेज, मालेगाव	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मेर्नेनन्स बिल्डिंग मेर्नेनन्स इन्शुरन्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
		27	जनता विद्यालय, अभोणा, कळवण	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉंजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		28	कनिष्ठ महाविद्यालय, मु.पो.ता. पेठ	इन्शुरन्स बॉकिंग ऑफीस मैनेजमेंट	बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		29	महात्मा गांधी हायस्कूल व ज्यूनि. कॉलेज, इगतपुरी	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉंजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
			जनता विद्यालय ज्यूनिअर कॉलेज, घोटी.	एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		31	स्वामी मुक्तानांद विद्यालय, येवला	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		32	न्यू इंग्लिश स्कूल, नगरसुल, ता.येवला	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग बिल्डिंग मेर्नेनन्स मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		33	न्यू इंग्लिश स्कूल, ताहाराबाद, सटाणा	ऑफीस मैनेजमेंट एम.आर.ई.डि.ए. हॉटीकल्चर	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर
		34	पंडीत धर्मा विद्यालय, लखमापूर, ता. सटाणा	एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		35	कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, सटाणा , ता. सटाणा	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग ऑफीस मैनेजमेंट	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉंजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		36	जी.एम.डी.कॉलेज, सिन्हर, ता. सिन्हर	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप ऑफीस मैनेजमेंट पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट लॉंजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट

1	2	3	4	5	6
		37	महात्मा ज्योतिबा फुले विद्यालय, सिंध्र	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		38	कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, मु.पो. देवळा	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑर्डीटींग पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट लॉजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट
		39	कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, मनमाड, ता. नांदगाव	एम.आर.ई.डि.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग अँण्ड ऑर्डीटींग	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
एकूण नाशिक जिल्हा	39				
धुळे	धुळे	1	कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, देवपूर, धुळे	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑर्डीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मॅनेजमेंट एम.आर.ई.डि.ए. मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन आंथ्रोलॉमीक टेक्निशियन	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट चाईल्ड, ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ केअर सर्किंस इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन आंथ्रोलॉमीक टेक्निशियन
		2	छत्रपती शिवाजी उच्च माध्यमिक विद्यालय, धुळे.	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑर्डीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप इनलॉँड फिशरीज	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट फिशरी टेक्नॉलॉजी
		3	झुलाल भिलाजीराव पाटील कनिष्ठ महाविद्यालय, देवपूर, धुळे	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑर्डीटींग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
		4	अभय युवा उच्च माध्य. विद्यालय, नवा मुंबई आग्रा रोड, धुळे	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		5	श्री.बी.टी.पाटील ज्युनिअर कॉलेज व एमसीव्हीसी कॉर्स. आनंदनगर, देवपूर, धुळे	बिल्डिंग मेन्टेनन्स आर.एम.आर.ई.एम. एम.आर.ई.डि.ए.	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		6	म.वि.प.संचलित राजीव गांधी मेमो.इन्स्ट.ऑफ सायन्स झूऱ्या, कॉलेज, देवपूर, धुळे	मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन आंथ्रोलॉमीक टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. आर.एम.आर.ई.एम. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन आंथ्रोलॉमीक टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		7	श्री.तिरुपती एज्यु.एँण्ड कल्चरल ट्रस्ट संचलित कनिष्ठ महाविद्यालय, देवपूर, धुळे	हॉटेकल्चर अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन आर.एम.आर.ई.एम.	हॉटेकल्चर अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		8	कमलाबाई शंकरलाल कन्या कनिष्ठ महाविद्यालय, धुळे	ऑफीस मॅनेजमेंट बॉकिंग इन्शुरन्स	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स
		9	सौ.एस.बाफना हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, फागणे, ता.जि.धुळे	बिल्डिंग मेन्टेनन्स मेक्निकल टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए.	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		10	जवाहर शिक्षण प्रसारक संस्था, कॉलेज, मोराणे ता.जि.धुळे	मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन एक्स- रे टेक्निशियन आंथ्रोलॉमीक टेक्निशियन	मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन रेडिओलॉजी टेक्निशियन आंथ्रोलॉमीक टेक्निशियन
		11	एम.के.शिंदे झूऱ्या, कॉलेज, कुसुंबा, ता.जि.धुळे	बिल्डिंग मेन्टेनन्स आर.एम.आर.ई.एम. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी

1	2	3	4	5	6
		12	श्रीमती.एस.एस.शेणगे परिवार कनिष्ठ महाविद्यालय, आर्वा ता.जि.धुळे	बिल्डिंग मेन्टेनन्स आर.एम.आर.ई.एम. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		13	न्यू इंगिलिश स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, साक्री.जि.धुळे	एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		14	महात्मा ज्योतिबा फुले विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, दुसाणे ता.साक्री, जि.धुळे	आर.एम.आर.ई.एम. डेअरी टेक्नॉलॉजी सोड प्रॉडक्शन टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंगीमल हसबन्डरी अप्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स
		15	आदर्श विद्यामंदिर व कनिष्ठ महाविद्यालय, निजामपुर ता.साक्री, जि.धुळे	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. मार्केटिंग अप्पड सेल्समनशिप	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		16	कर्म.आ.मा.पाटील कनिष्ठ महाविद्यालय, पिंपळनेर ता.साक्री.जि.धुळे	ऑफीस मैनेजमेंट अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए.	अकॉर्टिंग, फायनेंशियल ऑफिस मैनेजमेंट अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		17	कै.फि.एस.पाटील कनिष्ठ महाविद्यालय, दहिवेल ता.साक्री, जि.धुळे.	बिल्डिंग मेन्टेनन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए.	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		18	एम.एच.एस.एस.हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, शिंदखेडा,जि.धुळे	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अप्पड ऑडीटींग	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनेंशियल ऑफिस मैनेजमेंट
		19	स्व.वि.संस्थेचे आर.डी.एम. पी.कनिष्ठ महाविद्यालय, दोंडाईचा,ता.शिंदखेडा जि.धुळे	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटेंकल्चर डेअरी टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटेंकल्चर अंगीमल हसबन्डरी अप्पड डेअरी टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		20	स्वो.वि.संस्थेचे गर्स हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, दोंडाईचा,	कुकरी एम.आर.ई.डि.ए.	फुड प्रॉडक्शन इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
एकूण धुळे जिल्हा	20				
नंदुरबार		1	कमला नेहरु उच्च माध्य.व्यवसाय अभ्यासक्रम नंदुरबार	अकॉर्टिंग अप्पड ऑडीटींग मार्केटिंग अप्पड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अप्पड स्टोअर किपिंग	अकॉर्टिंग, फायनेंशियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉजीस्टिक अप्पड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		2	श्रीमती दुर्गाबाई रघुवंशी हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, नंदुरबार.	अकॉर्टिंग अप्पड ऑडीटींग	अकॉर्टिंग, फायनेंशियल ऑफिस मैनेजमेंट
		3	जिजामाता शिक्षण संस्थेचे कनिष्ठ महाविद्यालय,नंदुरबार	बिल्डिंग मेन्टेनन्स मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन एक्स- रे- टेक्निशियन आँथ्रॉलॉजीक टेक्निशियन	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन रेडिओलॉजी टेक्निशियन आँथ्रॉलॉजीक टेक्निशियन
		4	विकास विद्यामंदिर कनिष्ठ महाविद्यालय,शाहादा, जि.नंदुरबार	बिल्डिंग मेन्टेनन्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		5	एस.आय.पाटील कनिष्ठ महाविद्यालय, शाहादा, जि.नंदुरबार	एम.आर.ई.डि.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
एकूण नंदुरबार जिल्हा	5				
	जळगांव,	1	मुलजी जेठा महाविद्यालय, जळगांव,	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अप्पड ऑडीटींग मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनेंशियल ऑफिस मैनेजमेंट
		2	जळगांव जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक समाज संचलित श्री सा.स.पाटील कला, भाऊसाहेब टी.टी.साळुखे वाणिज्य जे,आर.पंडीत महाविद्यालय,	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग अप्पड ऑडीटींग पर्चेसिंग अप्पड स्टोअर किपिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनेंशियल ऑफिस मैनेजमेंट लॉजीस्टिक अप्पड सप्लाय चेन मैनेजमेंट

1	2	3	4	5	6
		3	ડૉ.અણાસાહેબ જી,ડૉ.બેંડાળે મહોલા વિદ્યાલય,જલગાંવ	અકૌંટિંગ અંડ ઑડીટોર્ગ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી મેડિકલ લેબોરેટરી ટેકનિશિયન	અકૌંટિંગ, ફાયનન્શિયલ ઑફિસ મેનેજમેન્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી મેડિકલ લેબોરેટરી ટેકનિશિયન
		4	વિકાસ તત્ત્વ નિકેતન જિવરામનગર,જલગાંવ,	માર્કાટિંગ અંડ સેલ્સમનશિપ બિલ્ડિંગ મેન્ટનન્સ ક્રેચ અંડ પ્રી સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ	માર્કાટિંગ રિટેલ મેનેજમેન્ટ કન્સ્ટ્રક્શન ટેકનોલોજી ચાઇલ્ડ, ઓલડ એઝ અંડ હેલ્થ કેઅર સાર્વિસ
		5	ન્ય.ઇલિશસ્કુલ વ ક,મહાવિદ્યાલય,નશિરાબાદ જિ,જલગાંવ	એમ.આર.ઇ.ડિ.એ. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી અકૌંટિંગ અંડ ઑડીટોર્ગ	ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી અકૌંટિંગ, ફાયનન્શિયલ ઑફિસ મેનેજમેન્ટ
		6	સાર્વજનિક વિદ્યાલય,વ કનિષ્ઠ મહાવિદ્યાલય,અસોદા તા,જિ,જલગાંવ	અકૌંટિંગ અંડ ઑડીટોર્ગ એમ.આર.ઇ.ડિ.એ. બિલ્ડિંગ મેન્ટનન્સ	અકૌંટિંગ, ફાયનન્શિયલ ઑફિસ મેનેજમેન્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી કન્સ્ટ્રક્શન ટેકનોલોજી
		7	આચાર્ય ગ.ર.ગરુડ વિદ્યાલય,વ ક, મહાવિદ્યાલય,શેંદર્ણી તા,જામનેર	ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી એમ.આર.ઇ.ડિ.એ. બિલ્ડિંગ મેન્ટનન્સ	ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી કન્સ્ટ્રક્શન ટેકનોલોજી
		8	જનતા હાયસ્કુલ વ કનિષ્ઠ મહાવિદ્યાલય,નેરી તા,જામનેર	અકૌંટિંગ અંડ ઑડીટોર્ગ ઓફીસ મેનેજમેન્ટ આર.એમ.આર.ઇ.એમ.	અકૌંટિંગ, ફાયનન્શિયલ ઑફિસ મેનેજમેન્ટ અકૌંટિંગ, ફાયનન્શિયલ ઑફિસ મેનેજમેન્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી
		9	ભુસાવળ કલા વ પુ,આ,નહાટા મહાવિદ્યાલય,ભુસાવળ જિ,જલગાંવ	ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી એમ.આર.ઇ.ડિ.એ. અકૌંટિંગ અંડ ઑડીટોર્ગ	ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી અકૌંટિંગ, ફાયનન્શિયલ ઑફિસ મેનેજમેન્ટ
		10	ડૉ.એલ.હિંદી હાયસ્કુલ વ ક,મહાવિદ્યાલય,ભુસાવળ	ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી મેર્કનિકલ ટેકનોલોજી આર.એમ.આર.ઇ.એમ.	ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી મેર્કનિકલ ટેકનોલોજી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી
		11	સર્વોદય હાયસ્કુલ કિન્હી તા,ભુસાવળ જિ,જલગાંવ	એમ.આર.ઇ.ડિ.એ. બિલ્ડિંગ મેન્ટનન્સ અકૌંટિંગ અંડ ઑડીટોર્ગ	ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી કન્સ્ટ્રક્શન ટેકનોલોજી અકૌંટિંગ, ફાયનન્શિયલ ઑફિસ મેનેજમેન્ટ
		12	ઓર્ડનન્સ ફેક્ટરી હાયસ્કુલ વ કનિષ્ઠ મહાવિદ્યાલય, વરણગાંવ	ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી માર્કાટિંગ અંડ સેલ્સમનશિપ	ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી માર્કાટિંગ રિટેલ મેનેજમેન્ટ
		13	જે.ઇ.સ્કુલ,મુકૃતાઈનગર	અંટો ઇંજિનિઅરિંગ ટેકનિશિયન એમ.આર.ઇ.ડિ.એ. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી	અંટોમોબાઇલ ટેકનોલોજી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી
		14	યશવંત વિદ્યાલય ,રાવેર	બિલ્ડિંગ મેન્ટનન્સ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી એમ.આર.ઇ.ડિ.એ. માર્કાટિંગ અંડ સેલ્સમનશિપ પર્ચસિંગ અંડ સ્ટોઅર કિપિંગ ઓફીસ મેનેજમેન્ટ	કન્સ્ટ્રક્શન ટેકનોલોજી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી માર્કાટિંગ રિટેલ મેનેજમેન્ટ લોંજીસ્ટિક અંડ સપ્લાય ચેન મેનેજમેન્ટ અકૌંટિંગ, ફાયનન્શિયલ ઑફિસ મેનેજમેન્ટ
		15	જ્યુ,કॉલેજ ,પાલ તા,રાવેર જિ,જલગાંવ	હોટીલ્સ ક્રોપ સાયન્સ	હોટીલ્સ ક્રોપ સાયન્સ
		16	શ્રીમતી નં.વા.પાટીલ જ્યુનિઅર કॉલેજ,મસ્કાવદ તા,રાવેર	એમ.આર.ઇ.ડિ.એ. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી બિલ્ડિંગ મેન્ટનન્સ	ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી કન્સ્ટ્રક્શન ટેકનોલોજી
		17	નુતન માધ્ય,વ ઉચ્ચ માધ્ય.વિદ્યાલય,ચિનાવલ તા.રાવેર	એમ.આર.ઇ.ડિ.એ. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી અકૌંટિંગ અંડ ઑડીટોર્ગ	ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટેકનોલોજી અકૌંટિંગ, ફાયનન્શિયલ ઑફિસ મેનેજમેન્ટ

1	2	3	4	5	6
		18	धनाजी नाना महाविद्यालय,फैजपुर ता,यावल	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		19	कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, यावल	मार्केटिंग अण्ड सेल्समनशिप अकॉर्टिंग अण्ड ऑडीटींग बिलिंग मेर्नेनन्स	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		20	सार्वजनिक माध्य, व उच्च माध्य, विद्यालय,चिंचोली	मार्केटिंग अण्ड सेल्समनशिप एम.आर.ई.डि.ए.	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		21	प्रभात विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय,हिंगोणे	आर.एम.आर.ई.एम. बॉकिंग डेअरी टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स अॉनीमल हसबन्डरी अण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी
		22	कला शास्त्र व वाणिज्य महाविद्यालय,चोपडा,	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		23	प्रताप विद्यामंदीर,चोपडा ता,चोपडा	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन बेकरी व कन्फेक्शनरी एम.आर.ई.डि.ए.	अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी फुड प्रॉडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		24	भर्गीनी मंडळाचे माध्यमिक विद्यालय,चोपडा ता,चोपडा	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन इन्शुरन्स कुकरी	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स फुड प्रॉडक्शन
		25	शिवाजी माध्य. व उच्च माध्य.विद्यालय, हातेड ता.चोपडा	अकॉर्टिंग अण्ड ऑडीटींग बिलिंग मेर्नेनन्स एम.आर.ई.डि.ए. मार्केटिंग अण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अण्ड स्टोअर किपिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉजीस्टिक अण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		26	नुतन माध्यमिक विद्यालय , चुंचाळे ता,चोपडा	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बॉकिंग अॉफीस मैनेजमेंट	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		27	शा.शि.पाटील विद्यामंदीर चहाडी ता,चोपडा	अकॉर्टिंग अण्ड ऑडीटींग हॉटीकल्चर एम.आर.ई.डि.ए.	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट हॉटीकल्चर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		28	प्रताप महाविद्यालय,अमळनेर ता,अमळनेर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. मार्केटिंग अण्ड सेल्समनशिप	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		29	आदर्श माध्य, व उच्च माध्य, विद्यालय,अमळगांव ता,अमळनेर	मार्केटिंग अण्ड सेल्समनशिप हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स
		30	किसान महाविद्यालय,पारोळा	अकॉर्टिंग अण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अण्ड स्टोअर किपिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉजीस्टिक अण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		31	राजा शिवाजी माध्य, व उच्च माध्य, विद्यालय करमाड ता,पारोळा	एम.आर.ई.डि.ए. आर.एम.आर.ई.एम. अकॉर्टिंग अण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट

1	2	3	4	5	6
		32	तात्यासो.रु.फ.पाटील उच्च माध्यमिक विद्यालय,देवगांव ता.पारोळा	एम.आर.ई.डि.ए. आर.एम.आर.ई.एम. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग ऑफीस मैनेजमेंट बिल्डिंग मेन्टेनन्स इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी
		33	सहजिवन प्रसारक विद्यामंडळ संचालीत उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम ठेहु ता.पारोळा,	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप आर.एम.आर.ई.एम. पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन ऑफीस मैनेजमेंट	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट ओटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		34	के.आर.कोतकर कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय, चाळीसगांव	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग टुरिझम अँण्ड ट्रॅक्षल टेक्निशियन	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट टुरिझम अँण्ड हार्डस्टोरिलाईटी मैनेजमेंट
		35	राष्ट्रीय विद्यालय चाळीसगांव ता.चाळीसगांव,	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. मेक्निकल टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मेन्टेनन्स	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		36	न्यु इंग्लिश स्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय,भडगांव	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग आर.एम.आर.ई.एम.	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		37	श्री. शेठ मुरलीधरजी मानसिंका महाविद्यालय, पाचोरा,	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		38	श्री गो.सं.हायस्कुल,तांत्रिक विभाग,पाचोरा ता.पाचोरा	एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी
		39	डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मंडळाचे कनिष्ठ महाविद्यालय, पाचोरा	पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग ऑफीस मैनेजमेंट मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		40	सरदार एस.के.पवार माध्यमिक विद्यालय, नगरदेवळा ता.पाचोरा	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		41	दादासहेब दि.शं.पाटील कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय,एरंडोल	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए.	ओटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		42	साधना माध्य. व उच्च माध्य. विद्यालय,कासोदा ता.एरंडोल	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		43	श्री दत्त हायस्कुल ,चांदसर ता.धरणगांव	पोल्ट्री प्रॉडक्शन डेअरी टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		44	म.ना,काबरे माध्य. व उच्च माध्य विद्यालय,सोनवद ता.धरणगांव	ऑफीस मैनेजमेंट मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		45	साळवे इंग्लिश स्कुल ,साळवे ता.धरणगांव, जि.जळगांव,	एम.आर.ई.डि.ए. आर.एम.आर.ई.एम. क्रॉप सायन्स	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स
एकूण जळगाव	45				

1	2	3	4	5	6
अहमदनगर	1	प्रवरा कन्या विद्यामंदीर, लोणी, ता.राहाता	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्निशियन	
	2	श्री छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय श्रीगांदा, जि. अहमदनगर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर	
	3	श्री साईनाथ हायस्कूल, अळकुटी, ता. पारनेर, जि. अहमदनगर	आर.एम.आर.ई.एम. अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन बॉकिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी ऑटोमोबाइल टेक्नॉलॉजी बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स	
	4	श्री छत्रपती शिवाजी विद्यालय, कोळपेवाडी, ता.कोपरगांव	एम.आर.ई.डि.ए. मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	
	5	न्यू आर्ट्स, कॉमर्स अँण्ड सायन्स कॉलेज, शेवगांव जि. अहमदनगर	मेडिकल लैबोरेटरी टेक्निशियन हॉटीकल्चर ऑफिस मैनेजमेंट	मेडिकल लैबोरेटरी टेक्निशियन हॉटीकल्चर अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
	6	शारदा विद्या मंदीर व ज्युनिअर कॉलेज, राहाता	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	
	7	रयत शिक्षण संस्थेचे, रा.ब.ना.बोरावके कॉलेज, श्रीरामपूर.	बिल्डिंग मैनेजन्स डेअरी टेक्नॉलॉजी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्निशियन	कन्ट्रॉक्शन टेक्नॉलॉजी अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्निशियन	
	8	पद्मश्री विखे पाटील महाविद्यालय, लोणी, प्रवरानगर, ता.राहाता	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग हॉटीकल्चर एम.आर.ई.डि.ए. क्रॉप सायन्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी आर.एम.आर.ई.एम.	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट हॉटीकल्चर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	
	9	बाबुजी आळाड महाविद्यालय पाथर्डी, जि.अहमदनगर	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	अकॉर्टिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट	
	10	श्री.वृद्धेश्वर हायस्कूल, तिसगाव, ता.पाथर्डी	एम.आर.ई.डि.ए. अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	
	11	दादा पाटील महाविद्यालय, कर्जत	ऑफिस मैनेजमेंट एम.आर.ई.डि.ए. डेअरी टेक्नॉलॉजी	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी	
	12	न्यू आर्ट्स, कॉमर्स अँण्ड सायन्स कॉलेज, अहमदनगर	ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप कुकरी	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट फुड प्रॉडक्शन	
	13	श्री अमरनाथ विद्यालय , कर्जत	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी आर.एम.आर.ई.एम. अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अॅटोमोबाइल टेक्नॉलॉजी	
	14	श्री छत्रपती कनिष्ठ महाविद्यालय, खर्डा , जामखेड	मेडिकल लैबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	मेडिकल लैबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट	
	15	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कनिष्ठ महाविद्यालय, कोल्हार, ता.राहाता	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन हॉटीकल्चर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अॅटोमोबाइल टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर	
	16	जे.टी.एस. हायस्कूल बेलापूर, ता.श्रीरामपूर	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप एम.आर.ई.डि.ए. कुकरी	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी फुड प्रॉडक्शन	

1	2	3	4	5	6
		17	श्री.शनिश्वर विद्या मंदीर सोनई, ता.नेवासा	अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटेकल्चर	अँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटेकल्चर
		18	डॉ.सौ.एम.मेहता कन्या विद्या मंदिर, कोपरगाव	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन अॉफीस मैनेजमेंट	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		19	श्री.स.गं.म.कॉलेज, कोपरगाव	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेनेजमेंट	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
एकूण अहमदनगर	19				
एकूण नाशिक विभाग	128				
पुणे विभाग	पुणे	1	वाघिरे आर्ट अण्ड सायन्स, कॉमर्स महाविद्यालय, सासवड, ता.सासवड, जि. पुणे	पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप अकॉर्टिंग अँण्ड ऑर्डीटींग	लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		2	पंचकोशी शेतकरी, विद्यालय वाघापुर ता. पुरंधर, जि.पुणे	एम.आर.ई.डि.ए. आर.एम.आर.ई.एम. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑर्डीटींग	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		3	पुरंधर ज्युनियर कॉलेज आफ सायन्स , सासवड ता. पुरंधर,जि. पुणे	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		4	पुणे विद्यार्थी गृहाचे महाराष्ट्र विद्यालय अँण्ड ज्युनिअर कॉलेज, सदाशिव पेठ, पुणे 30	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		5	ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटीचे श्री शिवाजी प्रिपेरी डे स्कूल, पुणे 1	कुकरी अॉफीस मैनेजमेंट	फुड प्रॉडक्शन अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		6	प्रोग्रेसिक एज्युकेशन सोसायटीचे मॉर्डन हायस्कूल अँण्ड एम.सी. व्ही. सी.ज्य.कॉलेज, गणेशखंड पुणे 53	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन अकॉर्टिंग अँण्ड ऑर्डीटींग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		7	विद्या महामंडळ संस्था पुणे लक्ष्मणराव आपटे प्रशाला, पुणे 4	बिल्डिंग मेनेजमेंट	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी टुरिझम अँण्ड ट्रॉहल टेक्निशियन
		8	अँगलो उर्दू मेमोरियल स्कूलचे मोलोदिना टेक्निकल हायस्कूल अँण्ड ज्य. कॉलेज पुणे 37	एम.आर.ई.डि.ए. अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		9	एस. एन.डी.टी. वुमेन्स युनिकरसिटी मुंबईची एस. एन.डी.टी. आर्ट अँण्ड कॉमर्स कॉलेज.कवे रोड, पुणे	अॉफीस मैनेजमेंट मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप अकॉर्टिंग अँण्ड ऑर्डीटींग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		10	एस. एन.डी.टी. वुमेन्स युनिकरसिटी मुंबईची एस. एस. एन.डी.टी. कॉलेज आफ होम सायन्स.कवे रोड. पुणे	बेकरी व कन्फेक्शनरी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी क्रघ अँण्ड प्री स्कूल मैनेजमेंट	फुड प्रॉडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी चाईल्ड, ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ केअर सर्किस
		11	महर्षी कवे श्री शिक्षण संस्थेचे महिलाश्रम हायस्कूल, कवे नगर, पुणे 29	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन अकॉर्टिंग अँण्ड ऑर्डीटींग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		12	ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटीचे श्री शिवाजी प्रिपेरी डे स्कूल, पुणे 5	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मेनेजमेंट टुरिझम अँण्ड ट्रॉहल टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी टुरिझम अँण्ड हॉस्पिटॉलिटी मैनेजमेंट

1	2	3	4	5	6
		13	खडकी शिक्षण सेस्थेचे टिकाराम जगन्नाथ आर्टस अॅण्ड कॉर्मस कॉलेज पुणे 3	अकॉर्टिंग अॅण्ड ऑडीटोर्नग मार्केटिंग अॅण्ड सेल्समनशिप ऑफीस मैनेजमेंट	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		14	शिक्षण प्रसारक मंडळीचे नूतन मराठी विद्यालय, पुणे 2	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन अकॉर्टिंग अॅण्ड ऑडीटोर्नग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		15	कॅम्प एज्युकेशन सोसायटीचे कॅम्प एज्युकेशन ज्युनिअर कॉलेज,पुणे 1	मार्केटिंग अॅण्ड सेल्समनशिप दुरिझम अॅण्ड ट्रक्हल टेक्निशियन क्रेच अॅण्ड प्री स्कूल मैनेजमेंट बॉकिंग अकॉर्टिंग अॅण्ड ऑडीटोर्नग	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट दुरिझम अॅण्ड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट चाईल्ड, ओल्ड ऐज अॅण्ड हेल्थ केअर सर्विस बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		16	राजा धनराजगिरीजी हायस्कूल, पुणे 11	मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. दुरिझम अॅण्ड ट्रक्हल टेक्निशियन	मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी दुरिझम अॅण्ड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट
		17	विद्याविकास मंदीर निमगांव म्हाळुंगी ता.शिरुर, पुणे	एम.आर.ई.डि.ए. हॉटीकल्चर	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर
		18	नवभारत हायस्कूल शिवणे पुणे 23	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		19	मराठवाडा मित्र मंडळाचे ज्युनिअर कॉलेज, पुणे 4	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन दुरिझम अॅण्ड ट्रक्हल टेक्निशियन	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन दुरिझम अॅण्ड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट
		20	मामासाहिब मोहोळ महाविद्यालय, पौड रोड पुणे	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		21	डॉ.आंबेडकर ज्युनिअर कॉलेज, येरवडा पुणे 6	एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मार्केटिंग अॅण्ड सेल्समनशिप	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		22	आर.आर.शिंदे, साधना विद्यालय, हडपसर, पुणे 28	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		23	संत तुकाराम ज्युनिअर कॉलेज, लोहगाव, पुणे	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए.	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		24	आर.सी.गुजारथी हायस्कूल आचार्य श्री. डी. बी. दादावाला, पुणे 11	बिल्डिंग मेन्टेनन्स पर्चेसिंग अॅण्ड स्टोअर किंपिंग आर.एम.आर.ई.एम. मेक्निकल टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए.	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी लॉजीस्टिक अॅण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		25	हुतात्मा राजगुरु विद्यालय, पांडवनगर, पुणे 16	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मेन्टेनन्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		26	अबेदा इनामदार ज्युनिअर कॉलेज, पुणे 5	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन क्रेच अॅण्ड प्री स्कूल मैनेजमेंट	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन चाईल्ड, ओल्ड ऐज अॅण्ड हेल्थ केअर सर्विस
		27	श्री शाहु मंदीर महाविद्यालय, पर्वती, पुणे 9	अकॉर्टिंग अॅण्ड ऑडीटोर्नग बिल्डिंग मेन्टेनन्स हॉटीकल्चर	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर
		28	लोणकर माध्य.व उच्च माध्य. विद्यालय, मुंढवा , पुणे	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन बिल्डिंग मेन्टेनन्स मार्केटिंग अॅण्ड सेल्समनशिप	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट

1	2	3	4	5	6
		29	श्री शिवाजी मराठा हायस्कूल, शुकवार पेठ, पुणे २	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		30	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज, नानापेठ पुणे	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप अकॉर्टिंग अँण्ड ऑफीटींग ऑफीस मॅनेजमेंट	मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
		31	अण्णासाहेब मगर कॉलेज, हडपसर, पुणे २८	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑफीटींग ऑफीस मॅनेजमेंट	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
		32	श्री छत्रपती शिवाजी ज्युनिं. कॉलेज, पौड पुणे	एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन ऑफीस मॅनेजमेंट	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
		33	पिरंगुट ज्युनिअर कॉलेज पिरंगुट, पुणे	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर
		34	इंद्रायणी ज्युनिअर कॉलेज, तळेगाव दाभाडे , पुणे	एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बॉकिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
		35	पंडीत नेहरु महाविद्यालय, कामशेत जि पुणे	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		36	रयत शिक्षण संस्थेचे न्यू इंगिलिश स्कूल व ज्युनिं. कॉलेज शिरुर, जिल्हा पुणे	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		37	शिरुर शिक्षण प्रसारक मंडळ सी.टी. बोरा कॉलेज, शिरुर, पुणे	हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स बैकरी व कफेक्षणरी मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स फुड प्रॉडक्शन मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट
		38	शिरुर शिक्षण प्रसारक मंडळाचे विद्याधाम कनिष्ठ महाविद्यालय	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी आर.एम.आर.ई.एम.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		39	बापुसाहेब गावडे ज्यु. कॉलेज टाकळीजी ता.शिरुर, पुणे	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी आर.एम.आर.ई.एम.	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		40	श्री मल्लीकार्जुन विद्यालय, न्हावरे ता.शिरुर, पुणे	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. बिलिंग मेनेजमेंट	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		41	भैरवनाथ विद्यामंदीर पाबळ, ता. शिरुर, पुणे	एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन हॉटीकल्चर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर
		42	श्री भैरवनाथ ज्युनिअर कॉलेज, करडे, ता.शिरुर, पुणे	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी आर.एम.आर.ई.एम. ऑफीस मॅनेजमेंट	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
		43	विद्याधाम हायस्कूल, कान्हूर मेसाई शिरुर, पुणे	आर.एम.आर.ई.एम.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		44	कैलास शिक्षण संस्थेचे कैलास विद्यामंदीर, राहु , दौँड , पुणे	आर.एम.आर.ई.एम. हॉटीकल्चर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर
		45	श्री गोपीनाथ माध्यमिक विद्यालय वरवडे, दौँड , पुणे	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन आर.एम.आर.ई.एम. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑफीटींग	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
		46	शेठ ज्योतिप्रसाद विद्यालय, दौँड ,ता.	आर.एम.आर.ई.एम.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी

1	2	3	4	5	6
			दौँड जि. पुणे	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन
47		दौँड तालुका आर्टस अँण्ड कॉर्मस कॉलेज दौँड		अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी आँफीस मैनेजमेंट	ओटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
48		जनता विद्यामंदीर घोडेगाव, आवेगाव, पुणे		आर.एम.आर.ई.एम. बिल्डिंग मैनेनन्स	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
49		श्री भैरवनाथ तांत्रिक विद्यालय, अवसरी खुर्द ता.आंबेगाव जि.पुणे		एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी ओटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
50		श्री शिवाजी ज्युनिअर कॉलेज, बावडा, इंदापुर , पुणे		एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी ओटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
51		आर्टस , कॉर्मस अँण्ड सायन्स कॉलेज, इंदापुर पुणे		पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग इनलॅंड फिशरीज क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मैनेजमेंट बॉकिंग	लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट फिशरी टेक्नॉलॉजी चाईल्ड, ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ केअर सर्किस बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किसेस, इन्शुरन्स
52		ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉकेशनल एज्युकेशन लासुरेण्ट तालुका इंदापुर जिल्हा पुणे		बिल्डिंग मैनेनन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी ओटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
53		जुन्नर तालुका शिवनेरे शिक्षण प्रसारक मंडळ श्री शिव छत्रपती कॉलेज, बोडकेनगर, ता. जुन्नर, पुणे		पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग एम.आर.ई.डि.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी आँफीस मैनेजमेंट	लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
54		आर. पी. सबनिस विद्यामंदीर, नारायणगाव , जा. जुन्नर, पुणे		अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप हॉटेंकल्चर	ओटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट हॉटेंकल्चर
55		अण्णासाहेब वाधिरे कॉलेज, ओतुर, जुन्नर , पुणे		अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. हॉटेंकल्चर	ओटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी हॉटेंकल्चर
56		सुभाष विद्यामंदीर, पिंपळवंडी, जुन्नर, पुणे		हॉटेंकल्चर क्रॉप सायन्स डेअरी टेक्नॉलॉजी	हॉटेंकल्चर क्रॉप सायन्स अँनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी
57		शारदाबाई पवार ज्यु. कॉलेज, शिवनगर, बारामती,पुणे		अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन	ओटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन
58		तुळजाराम चतुरचंद कॉलेज, बारामती, पुणे		बैकरी व कफेक्शनरी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	फुड प्रॉडक्शन ओटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
59		श्री शहाजी ज्युनिअर कॉलेज, सुपे ,बारामती , पुणे,		एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मैनेजमेंट	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी ओटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी चाईल्ड, ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ केअर सर्किस
60		आर. एन. आगरवाल कॉलेज, बारामती, पुणे		एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मैनेनन्स मेक्निकल टेक्नॉलॉजी आर.एम.आर.ई.एम.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
61		एम एस काकडे कॉलेज सोमेश्वरनगर बारामती		इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
62		न्यु इंगिलिश स्कूल, वाणेवाडी, बारामती, पुणे		अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. आर.एम.आर.ई.एम.	ओटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
63		भोर एज्युकेशन सोसायटीचे राजा रघुनाथ विद्यालय अँण्ड ज्यु. कॉ. भोर, पुणे		बिल्डिंग मैनेनन्स अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट

1	2	3	4	5	6
				ऑफीस मैनेजमेंट	अकॉंटिंग, फायनेंशियल ऑफिस मैनेजमेंट
64	राजगड ज्ञानपिठाचे अनंतराव थोपटे कॉलेज, भोर, पुणे	हॉटीकल्चर अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन डेअरी टेक्नालॉजी	हॉटीकल्चर अंटोमोबाईल टेक्नालॉजी अंनीमल हसबन्डरी अण्ड डेअरी टेक्नालॉजी		
65	श्री छत्रपती शिवाजी विद्यालय, भोर, पुणे	बॉकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी पर्चेसिंग अण्ड स्टोअर किपिंग	बॉकिंग, फायनेंशियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी लॉजीस्टिक अण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट		
66	श्री.शिवाजी विद्यालय नसरापुर, भोर ता.भोर जि.पुणे	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मार्केटिंग अण्ड सेल्समनशिप बिल्डिंग मेन्टेनन्स	अंटोमोबाईल टेक्नालॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट कन्स्ट्रक्शन टेक्नालॉजी		
67	श्री. स्वामीविवेकानंद गार्ल्स ज्युनि. कॉलेज, भोर जि.पुणे	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन		
68	जयर्हिंद टेक्नीकल हायस्कुल, लोणीकाळभोर, पुणे	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. पोल्यू प्रॉडक्शन	अंटोमोबाईल टेक्नालॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी अंनीमल हसबन्डरी अण्ड डेअरी टेक्नालॉजी		
69	श्री शंभु महादेव ज्युनिअर कॉलेज, फुरसुंगी, पुणे,	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन बिल्डिंग मेन्टेनन्स एम.आर.ई.डि.ए.	अंटोमोबाईल टेक्नालॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नालॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी		
70	महात्मा गांधी, विद्यालय, उरुळी कांचन, पुणे	आर.एम.आर.ई.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. मेक्निकल टेक्नालॉजी	इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नालॉजी अंटोमोबाईल टेक्नालॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी मेक्निकल टेक्नालॉजी		
71	क्वी.एस. सातव हायस्कुल, वाघोली ता.हवेली जि. पुणे	एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नालॉजी अंटोमोबाईल टेक्नालॉजी		
72	वाघेश्वर विद्यालय, च-होली बु. पुणे	बिल्डिंग मेन्टेनन्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	कन्स्ट्रक्शन टेक्नालॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी अंटोमोबाईल टेक्नालॉजी		
73	महात्मा गांधी, विद्यालय, खानापुर, पुणे	अकॉंटिंग अण्ड ऑर्डीटींग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अकॉंटिंग, फायनेंशियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी अंटोमोबाईल टेक्नालॉजी		
74	के.के.घुले विद्यालय, मांजरी पुणे	एम.आर.ई.डि.ए. मेक्निकल टेक्नालॉजी हॉटीकल्चर	इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी मेक्निकल टेक्नालॉजी हॉटीकल्चर		
75	श्री जैन विद्याप्रसारक मंडळ संचालित श्री फतेचंद जैन ज्युनि. कॉ. चिंचवड पुणे 30	एम.आर.ई.डि.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी अंटोमोबाईल टेक्नालॉजी		
76	चिंचवड शिक्षण प्रसारक मंडळ न्यू इलिश स्कूल अण्ड आबासाहेब चिंचवडे ज्यु.कॉलेज, चिंचवड पुणे33	बिल्डिंग मेन्टेनन्स एम.आर.ई.डि.ए. मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	कन्स्ट्रक्शन टेक्नालॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन		
77	नागेश्वर विद्यालय अण्ड ज्युनिअर कॉलेज, मोशी, पुणे	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन बिल्डिंग मेन्टेनन्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी अंटोमोबाईल टेक्नालॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नालॉजी		
78	म्हाळसाकांत विद्यालय, आकुर्डी पुणे	एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नालॉजी अंटोमोबाईल टेक्नालॉजी		
79	नवमहाराष्ट्र ज्यूनियर कॉलेज, पिंपरी वाघिरे, पिंपरी पुणे 1०८	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नालॉजी		

1	2	3	4	5	6
		80	बा. रा.घोलप विद्यालय, सांगवी , पुणे	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन एक्स- रे- टेक्निशियन बॉकिंग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप आँथ्रॉलॉजीक टेक्निशियन	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन रेडिओलॉजी टेक्निशियन बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट आँथ्रॉलॉजीक टेक्निशियन
		81	श्री शिवाजी विद्यालय , देहुरोड पुणे	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए.	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		82	श्री शिवाजी विद्यामंदीर, चाकण , पुणे	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन आर.एम.आर.ई.ए. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		83	हुतात्मा राजगुरु महाविद्यालय , राजगुरुनगर, पुणे	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		84	केतकेश्वर विद्यालय,निमगाव केतकी , ता.इंदापूर, जिल्हा -पुणे	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		85	शिवाजी मराठा हायस्कूल, जिजामाता, 425, शुक्रवार पेठ, पुणे	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
एकूण पुणे जिल्हा	सातारा	86			
	1	यंशवतराव चक्राण कॉलेज सातारा	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	
	2	रयत शिक्षण संस्थेचे धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय,सातारा	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग पचेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट लॉंजीस्टरीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट	
	3	रयत शिक्षण संस्थेचे छत्रपती शिवाजी कॉलेज सातारा	क्रॉप सायन्स हॉटेंकल्चर टुरिझम अँण्ड ट्रॅक्टल टेक्निशियन	क्रॉप सायन्स हॉटेंकल्चर टुरिझम अँण्ड हॉस्पिटिलिटी मैनेजमेंट	
	4	महर्षी कवृं स्त्री शिक्षण संस्था,पुणेचे कन्याशाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय, सातारा	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग एम.आर.ई.डि.ए.	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	
	5	एन बी देशमुख कॉलेज सातारा	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी आर.एम.आर.ई.एम.	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	
	6	श्री.स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे लाल बहादूर शास्त्री महाविद्यालय,सातारा	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी	
	7	महाराजा सयाजीराव कॉलेज सातारा	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	
	8	सौ सुशिलादेवी साळुंखे ज्यनिअर कॉलेज सातारा	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	
	9	श्री.स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे रामकृष्ण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय,नागठाणे तालुका जिल्हा सातारा	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप एम.आर.ई.डि.ए.	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	
	10	श्रीमंत छत्रपती शाहूराजे भोसले ज्यनिअर कॉलेज ऑफ सायन्स अँण्ड अँग्रीकल्चर ,तासगांव ता.जिल्हा सातारा	डेअरी टेक्नॉलॉजी	अँग्रीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी	
	11	रणजित कौरर गडोख खालसा विद्यालय अतीत	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी	
	12	द्रविड हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, वाई तालुका	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग बॉकिंग विलिंग मेनेजमेंट	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी	
	13	खंडाळा विभाग शिक्षण समिती खंडाळाचे राजेंद्र विद्यालय व उच्च	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए.	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	

1	2	3	4	5	6
			माध्यमिक विद्यालय, खंडाळा तालुका	हॉटेंकल्चर	हॉटेंकल्चर
	14		पचक्रोशी शिक्षण मंडळ, रहिमतपूर चे ज्युनिअर कॉलेज ऑफ सायन्स, आर्ट्स अँण्ड कॉमर्स, रहिमतपूर तालुका	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मेर्नेन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
	15		रयत शिक्षण संस्थेचे डॉ. पौ. भोसले कॉलेज, कोरेगांव जिल्हा सातारा	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
	16		मुधाईदीवी शिक्षण संस्था, देऊरचे मारुतराव माने कनिष्ठ महाविद्यालय, देऊर तालुका कोरेगाव जिल्हा सातारा	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
	17		श्रीराम एज्युकेशन सोसायटी, फलटणचे सौ.वेणूताई चव्हाण गर्ल्स हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, फलटण जिल्हा सातारा	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग एम.आर.ई.डि.ए.	मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
	18		फलटण एज्युकेशन सोसायटीचे मालोजीराजे शेती विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, फलटण जिल्हा सातारा	क्रॉप सायन्स हॉटेंकल्चर अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	क्रॉप सायन्स हॉटेंकल्चर अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
	19		फलटण एज्युकेशन सोसायटीचे मुधोजी हा. व कनिष्ठ महाविद्यालय, फलटण जिल्हा सातारा	ऑफीस मॅनेजमेंट मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन बॉकिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
	20		यंशवतराव चव्हाणज्युनिअर कॉलेज+2स्तर, फलटण	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. एम.आर.ई.डि.ए.	ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
	21		फलटण एज्युकेशन सोसायटीचे सरदार वल्लभभाई हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, साखरवाडी तालुका फलटण जिल्हा सातारा	ऑफीस मॅनेजमेंट इन्शुरन्स पोल्ट्री प्रॉडक्शन	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स ऑनीमल हसबन्डरी अँण्ड डे अरी टेक्नॉलॉजी
	22		रयत शिक्षण संस्थेचे कर्मवीर भाऊराव पाटील ज्यू. कॉलेज, देवापूर तालुका माण जिल्हा सातारा	हॉटेंकल्चर	हॉटेंकल्चर
	23		दहिवडी कॉलेज दहिवडी	हॉटेंकल्चर एम.आर.ई.डि.ए. मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	हॉटेंकल्चर इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट
	24		न्यू इंग्लीश स्कूल महिमानगड	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटेंकल्चर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटेंकल्चर
	25		श्री.सेवागिरी शिक्षण प्रसारक मंडळ, पुसेगांवचे श्री.हनुमानगिरी हायस्कूल व ज्यू.कॉलेज, पुसेगांव तालुका खटाव जिल्हा सातारा	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
	26		रयत शिक्षण संस्थेचे श्री.सदगुरु गाडो महाराज महाविद्यालय,विद्यानगर कराड जिल्हा सातारा	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. ऑफीस मॅनेजमेंट	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
	27		रयत शिक्षण संस्थेचे महात्मा गांधी विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालय,उंब्रज तालुका कराड जिल्हा सातारा	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट
	28		एस जी एम कॉलेज कुसुर ता कराड	एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
	29		ठवकरबापा ज्युनिअर कॉलेज गांधीटेकडी मारुत	हॉटेंकल्चर एम.आर.ई.डि.ए.	हॉटेंकल्चर इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी

1	2	3	4	5	6
		30	बाळकोयना शिक्षण संस्था संचलित बालासोहेब देसाई कॉलेज, पाटण जिल्हा सातारा	हॉटीकल्चर एम.आर.ई.डि.ए. बॉकिंग	हॉटीकल्चर इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी बॉकिंग, फायनेशियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
		31	कर्मवीर भाऊराव पाटिल माध्य.उच्च माध्य.(क्रोके) विद्यालय,देवेवाडी ता पाटण	एम.आर.ई.डि.ए. विल्डिंग मेर्नेन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन
एकूण सातारा जिल्हा	31				
सांगली	सांगली	1	सांगली हायस्कूल सांगली,	विल्डिंग मेर्नेन्स मेक्निकल टेक्नॉलॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		2	जी. ए. हायस्कूल व ज्युनि. कॉलेज, सांगली,	विल्डिंग मेर्नेन्स मेक्निकल टेक्नॉलॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. अकॉटिंग अँण ऑडीटींग आर.एम.आर.ई.एम.	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉटिंग, फायनेशियल ऑफिस मैनेजमेंट
		3	विद्या मंदिर प्रशाला व कनिष्ठ महाविद्यालय, मिरज	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		4	कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यालस म्हैसाळ	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए.	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		5	डॉ.पतंगराव कदम महाविद्यालय, सांगली,	एम.आर.ई.डि.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बॉकिंग	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बॉकिंग, फायनेशियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
		6	पंडीत नेहरु विद्यालय कवलापूर	एम.आर.ई.डि.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		7	विलिङ्डन महाविद्यालय, विश्रामबाग सांगली	क्रॉप सायर्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	क्रॉप सायर्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		8	श्रीमती चंपाबेन बालचंद शाह महिला महाविद्यालय, सांगली	ऑफीस मैनेजमेंट अकॉटिंग अँण ऑडीटींग	अकॉटिंग, फायनेशियल ऑफिस मैनेजमेंट अकॉटिंग, फायनेशियल ऑफिस मैनेजमेंट
		9	शांतिनिकेतन माध्य.व उच्च माध्यमिक विद्यामंदीर, सांगली	एक्स- रे- टेक्निशियन मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन डेअरी टेक्नॉलॉजी	रेडिओलॉजी टेक्निशियन मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन अँनीमल हसबन्डरी अँण डेअरी टेक्नॉलॉजी
		10	आप्पासोहेब बिरनाळे कॉलेज ऑफ फार्मसी, सांगली.	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन एक्स- रे- टेक्निशियन आँथ्रॉलॉमीक टेक्निशियन	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन रेडिओलॉजी टेक्निशियन आँथ्रॉलॉमीक टेक्निशियन
		11	श्री.तात्यासाहेब घाटगे चौरिटेबल ट्रस्ट व्यवसाय प्रशिक्षण कॉलेज सांगली.	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन एक्स- रे- टेक्निशियन आँथ्रॉलॉमीक टेक्निशियन	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन रेडिओलॉजी टेक्निशियन आँथ्रॉलॉमीक टेक्निशियन
		12	लक्ष्मणराव किलोस्कर विद्यामंदिर व ज्युनि.कॉलेज, पलूस	एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मेक्निकल टेक्नॉलॉजी बॉकिंग	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी बॉकिंग, फायनेशियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
		13	स्वामी रामानंद विद्यालय , रामानंदनगर	एम.आर.ई.डि.ए. मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी

1	2	3	4	5	6
				आर.एम.आर.ई.एम. अकॉटिंग अँण्ड ऑडीटोर्म	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
	14	प्रतिनिधी हायस्कूल कुंडल		अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी आर.एम.आर.ई.एम. अकॉटिंग अँण्ड ऑडीटोर्म	अँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
	15	ओ.एस.सी. कॉलेज, रामानंदनगर (बुर्ला)		हॉटीकल्चर	हॉटीकल्चर
	16	स्वामी रामानंद भारती विद्यामंदीर तासगांव		मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन
	17	महात्मागांधी विद्यालय सावळज		मेक्निकल टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए.	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
	18	विद्यानिकेतन ज्युनियर कॉलेज तासगांव		एम.आर.ई.डि.ए. हॉटीकल्चर	अँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर
	19	विद्यामंदीर हाय.व ज्यु.कॉलेज, इस्लामपूर ता. वाळवा, जि. सोगली.		बिल्डिंग मेन्टेनेशन एम.आर.ई.डि.ए. आर.एम.आर.ई.एम.	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मेन्टेनेशन अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी आर.एम.आर.ई.एम.
	20	मॉडर्न हायस्कूल, साखराळे		मेक्निकल टेक्नॉलॉजी अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए.	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी अँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
	21	आज्ञाद विद्यालय कासेगाव		मेक्निकल टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए.	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
	22	आर्ट्स् अँण्ड कॉर्स स कॉलेज, आष्टा		अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	अँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
	23	क.भा.पाटील विद्यालय, नेले		अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
	24	कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज, इस्लामपूर,		अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए.	अँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
	25	कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज, ऐवडे बु		इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर
	26	महात्मा गांधी विद्यालय, आष्टा		डेअरी टेक्नॉलॉजी	अँनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी
	27	बळवंत कॉलेज, विटा. ता. खानापूर		इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
	28	महात्मा गांधी विद्यालय, खानापूर,		मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन हॉटीकल्चर	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन हॉटीकल्चर
	29	रामराव विद्यामंदीर जत		एम.आर.ई.डि.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एक्स- रे टेक्निशियन	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी रेडिओलॉजी टेक्निशियन
	30	एम.जी.एन.आर.मेडिकल कॉलेज, उमती.		सीड प्रॉडक्शन टेक्नॉलॉजी एक्स- रे टेक्निशियन मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	क्रॉप सायन्स रेडिओलॉजी टेक्निशियन मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन
	31	श्रीपतराव (तात्या)कदम प्रशाला ज्यु.कॉलेज , अंबक , ता.कडेगांव जि.सोगली		अकॉटिंग अँण्ड ऑडीटोर्म आर.एम.आर.ई.एम. बिल्डिंग मेन्टेनेशन	अकॉटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
	32	अभिजीत कदम प्रशाला, ज्युनि. कॉलेज अमरापूर,		आर.एम.आर.ई.एम.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
	33	हुतात्मा नानकसिंग विद्यालय,हुतात्मा नगर,ता.शिराळा		हॉटीकल्चर	हॉटीकल्चर
एकूण सांगली जिल्हा	33				
सोलापूर	1	पदमशाली शिक्षण प्रसारक मंडळ,		एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी

1	2	3	4	5	6
		सोलापूर कुचन हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, रविवार पेठ, सोलापूर-	बिल्डिंग मेन्टेनन्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	
2		श्री बृहन्मठ होटगी, वीरतपस्वी चत्रवीर अवकलकोट रोड, सोलापूर-140006	एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन क्रौप सायन्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी क्रौप सायन्स	
3		ए.प.दि.जैन पाठशाळा, सोलापूर श्री डि.जे.गुरुकुल प्रशाला व ज्यु.कॉलेज, बाळीवेस, सोलापूर-413 002	एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	
4		दयानंद अंग्लो वैदिक कॉलेज ट्र. स्ट अँण्ड मैनेजमेंट सोसायटी, मुंबई दयानंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँण्ड सायन्स, शेळगी रोड, सोलापूर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	
5		मराठा समाज सेवा मंडळ, सोलापूर छत्रपती शिवाजी प्रशाला व ज्यु.कॉलेज, मराठा समाज मंदिर, हारिभाई देवकरण	मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन एक्स- रे- टेक्निशियन अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन रेडिओलॉजी टेक्निशियन अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी	
6		संभाजीराव शिंदे विद्या मंदिर, सोलापूर संभाजीराव शिंदे कनिष्ठ महाविद्यालय, मुरारजी पेठ, जुनी मिल कपाऊंड, सोलापूर-413002	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन हॉटीकल्चर अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
7		मराठा युवक मंडळ, सोलापूर अण्णासाहेब पाटील प्रशाला व कनिष्ठ महाविद्यालय, संजय गाधीनगर झोपडपट्टी नं.2, इंदिरानगर, सोलापूर-	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मेक्निकल टेक्नॉलॉजी अॉफीस मैनेजमेंट	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
8		शिक्षण प्रसारक मंडळ, कुमठे कुमठे माध्य.प्रशाला व कनिष्ठ महाविद्यालय, कुमठे, ता.उ.सोलापूर	बिल्डिंग मेन्टेनन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	
9		अवकलकोट एज्युकेशन सोसायटी, अवकलकोट सी.बी.खेडेगी बसवेश्वर सायन्स, विजयसिंह कॉमर्स व राजा जयसिंह आर्ट्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
10		श्री मल्लिकार्जुन शिक्षण प्रसारक मंडळ, चपळगाव ग्रामीण विद्या विकास विद्यालय व ज्यु.कॉलेज, चपळगाव, ता.अवकलकोट	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
11		श्री बसवेश्वर एज्युकेशन सोसायटी, करजागी बसवराज माध्य. व उच्च माध्य. विद्यालय, करजागीता.	एम.आर.ई.डि.ए. हॉटीकल्चर क्रौप सायन्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर क्रौप सायन्स	
12		भारत शिक्षण प्रसारक मंडळ, जेऊर भारत हायस्कूल, कनिष्ठ महाविद्यालय जेऊर(से.रेल्वे), ता.करमाळा	एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट	
13		श्रीमंत सौ उमाबाईसाहेब पटवर्धन स्मारक संस्था, मोठांबीं श्री उमा विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय,	क्रौप सायन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए.	क्रौप सायन्स अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	
14		सांगोला तालुका शेतकरी शिक्षण प्रसारक मंडळ, सांगोला न्यू इंग्लिश स्कूल, सांगोला	एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन हॉटीकल्चर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर	
15		कै. संभाजीराव गरड शिक्षण प्रसारक मंडळ, मोहोळ देशभक्त संभाजीराव गरड महाविद्यालय, मोहोळ जि.सोलापूर	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग हॉटीकल्चर	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट हॉटीकल्चर	
16		श्री दादासाहेब सोमदाळे शिक्षण प्रसारक मंडळ, पंढरपूर विवेक वर्धनी विद्यालय, पंढरपूर	एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मेक्निकल टेक्नॉलॉजी आर.एम.आर.ई.एम.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	

1	2	3	4	5	6
		17	जवाहरलाल शिक्षण प्रसारक विश्वस्त मंडळ, पंदरपूर माध्यमिक आश्रमशाळा	क्रॉप सायन्स आर.एम.आर.ई.एम.	क्रॉप सायन्स इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी
		18	रयत शिक्षण संस्था, सातारा मंबीर भाऊराब पाठीलमहाविद्यालय, पंदरपूर जि.पंदरपूर	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉटिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		19	शिक्षण प्रसारक मंडळ, मंगळवेढा इग्निश स्कूल, मंगळवेढा	हॉटीकल्चर मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप क्रॉप सायन्स	हॉटीकल्चर मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट क्रॉप सायन्स
		20	शिक्षण प्रसारक मंडळ, अकलूज महाष शंकरराव मोहिते प्रशाला, यशवंतनगर, ता.माळशिरस	बिल्डिंग मेन्टेनेन्स एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मेक्निकल टेक्नॉलॉजी आर.एम.आर.ई.एम.	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी ओटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी
		21	शिक्षण प्रसारक मंडळ, अकलूज सदाशिवराव माने विद्यालय, अकलूज ता.माळशिरस	सीड प्रॉडक्शन टेक्नॉलॉजी डेरी टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर अकॉटिंग अँण्ड ऑडीटींग क्रॉप सायन्स ऑफीस मैनेजमेंट मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	क्रॉप सायन्स अँनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेरी टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर अकॉटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट क्रॉप सायन्स अकॉटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		22	दि सासवड माळी एज्युकेशन सोसायटी, माळीनगर दि मॉडेल विविधांगी प्रशाला व कनिष्ठ	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी ओटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		23	श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ, बार्शा शिवाजी महाविद्यालय, बार्शा-413 411	एक्स- रे- टेक्निशियन मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी	रेडिओलॉजी टेक्निशियन मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी
		24	श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ, बार्शा बी.पी.सुलाखे कॉमर्स कॉलेज, शिवाजीनगर, बार्शा-	अकॉटिंग अँण्ड ऑडीटींग ऑफीस मैनेजमेंट पर्चसिग अँण्ड स्टोअर किपिंग बॉकिंग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	अकॉटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अकॉटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		25	बार्शा शिक्षण प्रसारक मंडळ, बार्शा बार्शा तांत्रिक विद्यालय,बार्शा	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए.	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी
		26	विद्या मंदिर, वैराग विद्यामंदिर हायस्कूल व महाविद्यालय,वैराग, ता.बार्शा	एम.आर.ई.डि.ए. मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		27	शिक्षण प्रसारक मंडळ, अकलूज महाष शंकरराव मोहिते प्रशाला, यशवंतनगर, ता.माळशिरस	क्रॉप सायन्स इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी डेरी टेक्नॉलॉजी आर.एम.आर.ई.एम.	क्रॉप सायन्स इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी अँनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेरी टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी
		28	श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ, महाराष्ट्र विद्यालय, बार्शा	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी आर.एम.आर.ई.एम. एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन क्रॉप सायन्स	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स
		29	श्रीमान भाऊसाहेब झाडबुके महाविद्यालय, बार्शा	एम.आर.ई.डि.ए. मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
एकूण सोलापूर जिल्हा	29				

1	2	3	4	5	6
कोल्हापुर	1	परिसना इगोरे कॉलेज, हुपरी , ता. हातकणंगले	पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप बिल्डिंग मेन्टेनन्स	लॉजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी	
			डेअरी टेक्नॉलॉजी हॉटेकल्चर क्रॉप सायन्स	अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी हॉटेकल्चर क्रॉप सायन्स	
			मेक्निकल टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी	
		श्री पाराशर ज्यु. कॉलेज, पारगाव , ता. हातकणंगले	एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	
			डेअरी टेक्नॉलॉजी हॉटेकल्चर	अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी हॉटेकल्चर	
			मेक्निकल टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. एक्स- रे टेक्निशियन बिल्डिंग मेन्टेनन्स अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी रेडिओलॉजी टेक्निशियन कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी	
		डी. सी. नरके विद्यानिकेतन, कुडीत्रे , ता. करवार	डेअरी टेक्नॉलॉजी आर.एम.आर.ई.एम. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	
			एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी	
			मेक्निकल टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन हॉटेकल्चर	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी हॉटेकल्चर	
		देशभक्त रत्नापा कुंभार कॉलेज अॉफ कॉमर्स, कोल्हापुर ता. करवार	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग बॉकिंग ऑफीस मैनेजमेंट	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
			एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी	
			इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी बॉकिंग ऑफीस मैनेजमेंट	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
		गोपालकृष्ण गोखले कॉलेज, कोल्हापुर ता. करवार	बॉकिंग कुकरी	बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स फुड प्रॉडक्शन	
			बॉकिंग	बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स	
			कुकरी	फुड प्रॉडक्शन	
		न्यू कॉलेज कोल्हापुर , ता. करवार	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी	
		भोगावती महाविद्यालय, कुरुक्षेत्री ता. करवार	मेडिकल लैबोरेटरी टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. डेअरी टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मेन्टेनन्स आर.एम.आर.ई.एम. अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	मेडिकल लैबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
			पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	लॉजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट	
15		सौ सरस्वती मदनमोहन लोहिया ज्यु. कॉलेज, कोल्हापुर ता. करवार			

1	2	3	4	5	6
				अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग बॉकंग ऑफीस मैनेजमेंट बिल्डिंग मेन्टेनन्स	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट बॉकंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
16	डॉ. आर. माने महाविद्यालय, कागल ता. कागल			मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे टेक्निशियन डेअरी टेक्नॉलॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी आँथ्रॉलॉजीक टेक्निशियन	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन रेडिओलॉजी टेक्निशियन अँनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी आँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी आँथ्रॉलॉजीक टेक्निशियन
17	शिवराज महाविद्यालय व ज्यु कॉलेज, मुरगूड , ता. कागल			मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप एम.आर.ई.डि.ए. डेअरी टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मेन्टेनन्स हॉटेंकल्चर	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अँनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी हॉटेंकल्चर
18	दुधसाखर विद्यानिकेतन व कनिष्ठ महाविद्यालय बिद्री, ता. कागल			एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स आर.एम.आर.ई.एम. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी आँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
19	देवबंद महाविद्यालय अर्जुननगर, ता. कागल जि. कोल्हापूर			ऑफीस मैनेजमेंट	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
20	श्री शाहू हायस्कूल व ज्यु. कॉलेज , कागल ता. कागल			मेक्निकल टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स आर.एम.आर.ई.एम. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी आँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
21	यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय, वाराणनगर , ता. पन्हाळा			पर्सनिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप डेअरी टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग इन्शुरन्स बॉकंग हॉटेंकल्चर क्रॉप सायन्स	लॉजीस्टिक अँण्ड सल्लाय चेन मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अँनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट बॉकंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स बॉकंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स हॉटेंकल्चर क्रॉप सायन्स
22	कोडोली हायस्कूल व ज्यु. कॉलेज, कोडोली, ता. पन्हाळा			एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी आँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
23	आजरा महाविद्यालय आजरा ता. आजरा			मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप एम.आर.ई.डि.ए. बॉकंग	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी बॉकंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
24	बलवंतराव झेले हायस्कूल ज्यु. कॉलेज, जयसिंगपूर, ता. शिरोळ			मेक्निकल टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स आर.एम.आर.ई.एम. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी आँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
25	श्री पद्माराजे विद्यालय व ज्यु कॉलेज शिरोळ, ता. शिरोळ			मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी आँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
26	महात्मा गांधी विद्यालय, सरुड, ता. शाहुवाडी			एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
27	हलकर्णी भाग हाय. सेकंडरी स्कूल हलकर्णी , ता. गडहिंगलज			बिल्डिंग मेन्टेनन्स आर.एम.आर.ई.एम.	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी

1	2	3	4	5	6
				बॉकिंग	बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स
	28	साधना ज्युनि. कॉलेज, गडहिंगलज , ता. गडहिंगलज	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप बिल्डिंग मेन्टेनन्स आर.एम.आर.ई.एम. अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग (वि.अनुदानित) इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट (वि.अनुदानित) इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट (वि.अनुदानित) इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर
	29	रुरल कॉलेज ऑफ पॉरामेडीकल एज्यु. महागाव ता. गडहिंगलज	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन एक्स- रे टेक्निशियन ऑथोल्मीक टेक्निशियन	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन रेडिओलॉजी टेक्निशियन ऑथोल्मीक टेक्निशियन	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन रेडिओलॉजी टेक्निशियन ऑथोल्मीक टेक्निशियन
	30	जागृती उच्च माध्यमिक प्रशाला, गडहिंगलज , ता. गडहिंगलज	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
	31	कर्मवीर हिरे कला, शास्त्र व वाणिज्य महाविद्यालय , गारगोटी , ता. भुदरगड	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
	32	सौ. जेबेलिना गल्स हायस्कूल व ज्यु. कॉलेज, गारगोटी, ता. भुदरगड	एम.आर.ई.डि.ए. बॉकिंग	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स
एकूण कोल्हापूर जिल्हा	32				
एकूण पुणे विभाग	211				
विभाग	अमरावती	1	कला वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालय चैतन्य कॉलनी, अमरावती	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग बिल्डिंग मेन्टेनन्स अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		2	विद्या भारती महाविद्यालय, अमरावती	अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		3	उर्दू सैफी ज्युबोली कनिष्ठ महाविद्यालय अमरावती	अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		4	श्री.गोविंदराव आदिक कनिष्ठ महाविद्यालय गजानन विहार कठोरा, अमरावती	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग डेअरी टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		5	कस्तुरा कनिष्ठ महाविद्यालय शिराळा	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		6	स्वतंत्र कनिष्ठ महाविद्यालय रुरल इन्स्ट. अमरावती	एम.आर.ई.डि.ए. अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन बिल्डिंग मेन्टेनन्स	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		7	शिवाजी बहूउद्दे.कनिष्ठ महाविद्यालय अमरावती	क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर मेक्निकल टेक्नॉलॉजी
		8	श्री.शिवाजी विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय अमरावती	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मेन्टेनन्स बेकरी व कन्फेक्शनरी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी फुड प्रॉडक्शन

1	2	3	4	5	6
		9	श्री.रामकृष्ण क्रिडा कनिष्ठ महाविद्यालय अमरावती	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		10	स्वामी सतरामदास कनिष्ठ महाविद्यालय अमरावती	एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग बेकरी व कन्फेक्शनरी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट फुड प्रॉडक्शन
		11	श्री. जागोबाजी माहुलकर, एच.एस.व्हि.सी.महा. अमरावती	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग बिलिंग मेन्टेनन्स एम.आर.ई.डि.ए.	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		12	संत गाडगेबाबा कनिष्ठ महाविद्यालय नवाथेनगर, अमरावती	बिलिंग मेन्टेनन्स ऑटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		13	तक्षशिला कनिष्ठ महाविद्यालय अमरावती	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		14	श्रीमती केशरबाई लाहोटी कनिष्ठ महाविद्यालय अमरावती	ऑटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन आँथ्रोलॉगिक टेक्निशियन अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी आँथ्रोलॉगिक टेक्निशियन अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		15	मातोश्री रमाबाई आंबेडकर कनिष्ठ महाविद्यालय अम.	बिलिंग मेन्टेनन्स मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		16	डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कनिष्ठ महाविद्यालय उत्तमनगर, अमरावती.	ऑटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		17	न्यु हायस्कूल कनिष्ठ महाविद्यालय बेलपुरा, अमरावती.	बिलिंग मेन्टेनन्स क्रॉप सायन्स मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन
		18	भारतीय विद्यामंदिर, अमरावती	आर.एम.आर.ई.एम. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग बॉकिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किसेस, इन्शुरन्स
		19	नुतन कन्या कनिष्ठ महाविद्यालय अमरावती	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		20	शिवाजी मराठा हायकुल, स्टेशन ब्रॅंच, अमरावती.	ऑटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन क्रॉप सायन्स बिलिंग मेन्टेनन्स	ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		21	शारदा कन्या कनिष्ठ महाविद्यालय अमरावती	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग बेकरी व कन्फेक्शनरी	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट फुड प्रॉडक्शन
		22	न्यु हायस्कूल मेन कनिष्ठ महाविद्यालय अमरावती	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग एम.आर.ई.डि.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		23	जीवन विकास कनिष्ठ महाविद्यालय अमरावती	ऑटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		24	श्री.गणेशदास राठी उच्च महाविद्यालय अमरावती	बिलिंग मेन्टेनन्स मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी

1	2	3	4	5	6
		25	श्रीमती मातोश्री विमलाबाई देशमुख कनिष्ठ महाविद्यालय अम.	कुकरी मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	फुड प्रॉडक्शन मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		26	इंदिराबाई मेघे महिला महा. अमरावती	कुकरी क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मैनेजमेंट अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	फुड प्रॉडक्शन चाईल्ड, ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ केर सर्क्स अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		27	कृषी विद्याशाखा, रुरल इन्स्टिट्युट, अमरावती.	डेअरी टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	अँनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		28	बौरी.रामराव देशमुख विज्ञान महा. बडनेरा रेल्वे	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		29	गांधी क. महाविद्यालय बडनेरा रेल्वे, अमरावती	आर.एम.आर.ई.एम. क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मैनेजमेंट बिल्डिंग मेनेन्स	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी चाईल्ड, ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ केर सर्क्स कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		30	शहीद स्मारक कनिष्ठ महाविद्यालय यावली शहीद, अमरावती	क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		31	महात्मा फुले कनिष्ठ महाविद्यालय अमरावती	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		32	श्री.संत गाडगे बाबा कनिष्ठ महाविद्यालय खोलापूर, भातकुली, अमरावती	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		33	ज्ञानेश्वर पवार कनिष्ठ महाविद्यालय भातकुली, अमरावती	एम.आर.ई.डि.ए. मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		34	एस.एल. कनिष्ठ महाविद्यालय वलगाव, अमरावती	एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन बिल्डिंग मेनेन्स	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		35	नांदगाव कनिष्ठ महाविद्यालय नांदगाव खंडेश्वर	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		36	लाल बहादुर शास्त्री कनिष्ठ महाविद्यालय शिवणी रसुलापूर	एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेनेन्स हॉटीकल्चर	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर
		37	श्रीमती विमलाबाई देशमुख कनिष्ठ महाविद्यालय पापळ	एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन हॉटीकल्चर	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर
		38	कनिष्ठ महा. धानोरा फसी	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर
		39	आदर्श कनिष्ठ महाविद्यालय धानोरा गुरव	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		40	एस.एफ.एल. कनिष्ठ महाविद्यालय धामणगाव रेल्वे.	एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेनेन्स आर.एम.आर.ई.एम.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		41	संत शंकर महाराज कनिष्ठ महाविद्यालय पिंपळखुटा	बिल्डिंग मेनेन्स क्रॉप सायन्स आर.एम.आर.ई.एम.	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		42	कनिष्ठ महाविद्यालय, राजुरा, ता. चांदूर बाजार	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट

1	2	3	4	5	6
				अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए.	अँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
43	देवराव दादा हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय, तिवसा		अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन क्रॉप सायन्स	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स	
44	राष्ट्रीय क. महा अचलपूर शहर		अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन बिल्डिंग मेनेन्स एम.आर.ई.डि.ए.	अँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	
45	नगरपरिषद / म्युनिसिपल कनिष्ठ महाविद्यालय, अचलपूर		अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	अँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	
46	भगवंतराव शिवाजी पाटील महा.अचलपूर		एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट	
47	सिध्दार्थ कनिष्ठ महाविद्यालय अचलपूर		इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मेनेन्स अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
48	सुबोध हाय.व विवेक पिपळीकर कनिष्ठ महाविद्यालय अचलपूर		इन्शुरन्स आँथ्रॉलॉजिक टेक्निशियन आर.एम.आर.ई.एम.	बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स आँथ्रॉलॉजिक टेक्निशियन इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	
49	एस.जी.कनिष्ठ महा., परतवाडा, अलचपूर		मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. बैकरी व कन्फेक्शनरी	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी फुड प्रॉडक्शन	
50	व्यंकटेश कनिष्ठ महाविद्यालय अचलपूर		आर.एम.आर.ई.एम. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मैनेजमेंट	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट चाईल्ड, ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ केअर सर्विस	
51	अमरसिंह कनिष्ठ महाविद्यालय पश्चोट		एम.आर.ई.डि.ए. मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी	
52	कन्या कनिष्ठ महाविद्यालय कोटीरोड, परतवाडा		अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
53	आई.ई.एस गर्ल्स क. महाविद्यालय, परतवाडा, अचलपूर		आर.एम.आर.ई.एम. हॉटेंकल्चर मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी हॉटेंकल्चर मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट	
54	राजा शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालय अचलपूर		अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग बिल्डिंग मेनेन्स इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी	
55	श्री. गुरुदेव कनिष्ठ महाविद्यालय गुरुकुंज मोझरी, तिवसा		अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी	
56	श्री.शिवचदजी लढाडा कनिष्ठ महाविद्यालय शिवणगाव		इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटेंकल्चर आर.एम.आर.ई.एम.	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटेंकल्चर इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	
57	श्रीकृष्ण कनिष्ठ महाविद्यालय आमला विश्वेश्वर		एम.आर.ई.डि.ए. अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	
58	श्री.बेंडोजी बाबा कनिष्ठ महाविद्यालय घुर्द्धेड		अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन हॉटेंकल्चर बिल्डिंग मेनेन्स	अँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी हॉटेंकल्चर कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी	

1	2	3	4	5	6
		59	कनिष्ठ महाविद्यालय, पळसखेड, ता. चांदूर रेल्वे	आर.एम.आर.ई.एम. पोल्ट्री प्रॉडक्शन हॉटीकल्चर	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अॅनीमल हसबन्डरी अॅण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर
		60	जी.एम. पेठे कनिष्ठ महाविद्यालय ब्राह्मणवाडा थडी	अकॉर्टिंग अॅण्ड ऑडीटींग आर.एम.आर.ई.एम. बेकरी व कन्फेक्शनरी	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी फुड प्रॉडक्शन
		61	जी.आर. काबरा कनिष्ठ महाविद्यालय चांदुरबाजार	डेअरी टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर आर.एम.आर.ई.एम. एम.आर.ई.डि.ए. मार्केटिंग अॅण्ड सेल्समनशिप	अॅनीमल हसबन्डरी अॅण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		62	गो.सी. टोम्पे महा. चांदुरबाजार	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन क्रॉप सायन्स अकॉर्टिंग अॅण्ड ऑडीटींग	ओटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		63	व्यक्तेश कडु कनिष्ठ महाविद्यालय आसेगाव पुर्णा	एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन बेकरी व कन्फेक्शनरी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी ओटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी फुड प्रॉडक्शन
		64	श्री.ल.च. खेरडे कनिष्ठ महाविद्यालय करजगाव	एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अॅण्ड ऑडीटींग क्रॉप सायन्स	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट क्रॉप सायन्स
		65	उर्दू कनिष्ठ महाविद्यालय करजगाव	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन बिल्डिंग मेन्टेनेन्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	ओटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		66	जिजामाता कनिष्ठ महा. चांदुरबाजार	बिल्डिंग मेन्टेनेन्स मेंडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन अकॉर्टिंग अॅण्ड ऑडीटींग	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी मेंडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		67	श्रीमती ल.ग. भेले कनिष्ठ महाविद्यालय शिरजगाव कसवा	बिल्डिंग मेन्टेनेन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन अकॉर्टिंग अॅण्ड ऑडीटींग	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी ओटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		68	राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कनिष्ठ महाविद्यालय पिपरी पुर्णा	अकॉर्टिंग अॅण्ड ऑडीटींग बिल्डिंग मेन्टेनेन्स आर.एम.आर.ई.एम.	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		69	भारतीय महाविद्यालय मोर्शी	एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अॅण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अॅण्ड सेल्समनशिप	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		70	श्री.आर.आर. लाहोटी, मोर्शी	एम.आर.ई.डि.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी ओटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		71	श्री.संत मारोती बाबा कनिष्ठ महाविद्यालय अडगाव	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर मार्केटिंग अॅण्ड सेल्समनशिप	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		72	गांधी कनिष्ठ महाविद्यालय, काटपूर	बिल्डिंग मेन्टेनेन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन अकॉर्टिंग अॅण्ड ऑडीटींग	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी ओटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		73	महात्मा फुले महाविद्यालय, विहीगांव, वरुड	एम.आर.ई.डि.ए. हॉटीकल्चर अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर ओटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		74	न्यु इंगिलिश कनिष्ठ महाविद्यालय, वरुड	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बेकरी व कन्फेक्शनरी बिल्डिंग मेन्टेनेन्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी फुड प्रॉडक्शन कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी

1	2	3	4	5	6
		75	जागृत व्होकेशनल कनिष्ठ महाविद्यालय, बरुड	एम.आर.ई.डि.ए. आर.एम.आर.ई.एम. अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन क्रॉप सायन्स मार्केटिंग अण्ड सेल्समनशिप इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		76	शहीद स्मृती कनिष्ठ महाविद्यालय बेनोडा शहीद	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग अण्ड सेल्समनशिप अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		77	श्रीमती जे. एच. देशमुख कनिष्ठ महाविद्यालय, जरुड	अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	अटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		78	आर.जी. देशमुख कनिष्ठ महाविद्यालय चांदस वाठोडा	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन अकॉर्टिंग अण्ड अॉडीटिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		79	कला वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालय लोणी	अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	अटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		80	जनता उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम, शेंदुरजनाघाट	अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन अकॉर्टिंग अण्ड अॉडीटिंग एम.आर.ई.डि.ए.	अटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		81	श्रीमती मनाबाई मानकर कनिष्ठ महाविद्यालय राजुरा, वरुड	आर.एम.आर.ई.एम. अकॉर्टिंग अण्ड अॉडीटिंग पोल्ट्री प्रॉडक्शन	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अनीमल हसबन्डरी अण्ड डेरी टेक्नॉलॉजी
		82	प्रबोधन कनिष्ठ महाविद्यालय दर्यापूर	अकॉर्टिंग अण्ड अॉडीटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		83	जे.डी.पाटील सांगढ़दकर महा. दर्यापूर	अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मार्केटिंग अण्ड सेल्समनशिप बेकरी व कन्फेक्शनरी	अटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट फुड प्रॉडक्शन
		84	उ.ना. लोणकर कनिष्ठ महाविद्यालय बाभळी बनोसा, दर्यापूर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		85	रामकृष्ण कनिष्ठ महाविद्यालय, दारापूर	अकॉर्टिंग अण्ड अॉडीटिंग एम.आर.ई.डि.ए. अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		86	श्री.झामाजी वाकपांजर कनिष्ठ महाविद्यालय थिलोरी,ता. दर्यापूर	अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन बिल्डिंग मेन्टेनन्स अकॉर्टिंग अण्ड अॉडीटिंग	अटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		87	श्रीमती काशिबाई अग्रवाल कनिष्ठ महाविद्यालय, येवदा	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स बिल्डिंग मेन्टेनन्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		88	श्रीमती जनाबाई नाथे विद्या कनिष्ठ महाविद्यालय काकडा, अचलपूर	अकॉर्टिंग अण्ड अॉडीटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी आर.एम.आर.ई.एम.	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		89	शा.द.सोनुकले कनिष्ठ महाविद्यालय बडगाव फरते.	अकॉर्टिंग अण्ड अॉडीटिंग एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		90	जनता क्र. महा. शिंदी बु.	एम.आर.ई.डि.ए. अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन बिल्डिंग मेन्टेनन्स	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी

1	2	3	4	5	6
		91	स्व.दादासाहेब हुतके कनिष्ठ महाविद्यालय बडनेरगंगाई	एम.आर.ई.डि.ए. हॉटीकल्चर क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मैनेजमेंट	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर चाईल्ड, ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ केर सर्विस
		92	पंचफुलाबाई हरणे कनिष्ठ महाविद्यालय अंजनगाव सुर्जी	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मैनेजमेंट	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी चाईल्ड, ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ केर सर्विस
		93	श्रीमती राधाबाई सारडा कनिष्ठ महाविद्यालय अंजनगाव सुर्जी	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		94	सिताबाई संगई कनिष्ठ महाविद्यालय अंजनगाव सुर्जी	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मैनेनन्स	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		95	श्रीमती शेवंताबाई काळमेघ कनिष्ठ महाविद्यालय चौसाळा, अंजनगाव सुर्जी	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग बेकरी व कन्फेक्शनरी	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट फुड प्रॉडक्शन
		96	कर्मयोगी संत गाडगेबाबा कनिष्ठ महाविद्यालय शेंडगाव	बिल्डिंग मैनेनन्स हॉटीकल्चर अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		97	महात्मा ज्योतीबा फुले कनिष्ठ महाविद्यालय विहारगाव	बिल्डिंग मैनेनन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		98	निर्मला कनिष्ठ महाविद्यालय कापुसतळणी	एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग हॉटीकल्चर	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट हॉटीकल्चर
		99	स्व.नारायणराव शेंडे कनिष्ठ महाविद्यालय कापुसतळणी	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन आर.एम.आर.ई.एम. एक्स- रे टेक्निशियन	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी रेडिओलॉजी टेक्निशियन
		100	जे.डी. पाटील कनिष्ठ महाविद्यालय सातेगाव, अंजनगाव सुर्जी	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन आर.एम.आर.ई.एम. बेकरी व कन्फेक्शनरी	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी फुड प्रॉडक्शन
		101	श्री.वसंतराव नाईक कनिष्ठ महाविद्यालय धारणी	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग आर.एम.आर.ई.एम. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		102	स्व. बाबासाहेब व-हाडे कनिष्ठ महाविद्यालय वलगाव	बिल्डिंग मैनेनन्स डेअरी टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर
		103	आनंद कनिष्ठ महाविद्यालय वलगाव	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग बिल्डिंग मैनेनन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		104	पुरोगामी कनिष्ठ महाविद्यालय आसरा	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन आर.एम.आर.ई.एम. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		105	श्री.शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालय खारतळगाव	पोल्ट्री प्रॉडक्शन बिल्डिंग मैनेनन्स बेकरी व कन्फेक्शनरी	अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी फुड प्रॉडक्शन
एकूण अमरावती जिल्हा	105				

1	2	3	4	5	6
बुलढाणा	1	शिवाजी. कनिष्ठ महा. बुलडाणा	एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	
			मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट	
	2	जिजामाता कनिष्ठ महा. बुलडाणा	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	
			इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	
	3	प्रियदर्शनी कनिष्ठ महा. बोराखेडी	अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी	
			बिल्डिंग मेनेन्स	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी	
			कुकरी	फुड प्रॉडक्शन	
			इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	
			मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट	
	4	डॉ.ई.एस. कनिष्ठ महा. दाताळा	हॉटेंकल्चर	हॉटेंकल्चर	
			पोल्ट्री प्रॉडक्शन	अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड डे आरी	
			इनलैंड फिशरीज	फिशरी टेक्नॉलॉजी	
			इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	
	5	अमर कनिष्ठ महा. अमडापूर	एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	
			अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी	
			आर.एम.आर.ई.एम.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	
	6	डॉ.ई.एस. कनिष्ठ महा. धरणगाव	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	
			एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	
			अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी	
	7	श्री.पुडीलक महा कनिष्ठ महा. नांदुरा	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	अकॉर्टिंग, फायनेंशियल ऑफिस मैनेजमेंट	
			आर.एम.आर.ई.एम.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	
			अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी	
	8	कोठारी कनिष्ठ महा. नांदुरा	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	
			एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	
	9	अजुमन कनिष्ठ महा. खामगाव	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट	
			एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	
			अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी	
	10	अॅ.के. नेशनल कनिष्ठ महा. खामगाव	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	
			अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	अकॉर्टिंग, फायनेंशियल ऑफिस मैनेजमेंट	
			इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	
	11	आदर्श महा चिखली	अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी	
			मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	
			मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	
	12	श्री.शिवाजी विज्ञान कला चिखली	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	
			अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी	
			बिल्डिंग मेनेन्स	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी	
	13	श्री.शिवाजी कनिष्ठ चिखली	आर.एम.आर.ई.एम.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	
			एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	
			अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी	
	14	राधाबाई खेडेकर कनिष्ठ महा.चिखली	क्रॉप सायन्स	क्रॉप सायन्स	
			मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट	
			हॉटेंकल्चर	हॉटेंकल्चर	
	15	एस.ई.एस. कनिष्ठ महा साखरखेडा	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	अकॉर्टिंग, फायनेंशियल ऑफिस मैनेजमेंट	
			बिल्डिंग मेनेन्स	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी	
			आर.एम.आर.ई.एम.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	
	16	जिवन विकास कनिष्ठ महा. दुसरबीड	विल्डिंग मेनेन्स	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी	
			अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी	
			एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	
	17	विवेकानंद कनिष्ठ महा. हिवरा	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	अकॉर्टिंग, फायनेंशियल ऑफिस मैनेजमेंट	
			मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	
			क्रॉप सायन्स	क्रॉप सायन्स	
			अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी	

1	2	3	4	5	6
		18	एम.ई.एस. कनिष्ठ महा मेहकर	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए.	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		19	श्री.शिवाजी कनिष्ठ महा.मेहकर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मेर्नेन्स क्रॉप सायन्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स
		20	अ.पा.पाटील कनिष्ठ महा. नायांव शेंदला	मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन बिल्डिंग मेर्नेन्स आर.एम.आर.ई.ए.	मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		21	भगवान बाबा कनिष्ठ महा लोणार	अकॉर्टिंग अण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अण्ड सेल्समनशिप एम.आर.ई.डि.ए.	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		22	श्री.वसंतराव नाईक कनिष्ठ महा. बिबी	अकॉर्टिंग अण्ड ऑडीटींग पोल्ट्री प्रॉडक्शन आर.एम.आर.ई.ए.	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अॅनीमल हसबन्डरी अण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		23	दे.राज. कनिष्ठ महा.दे. राजा	एम.आर.ई.डि.ए. क्रॉप सायन्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स
एकूण बुलदाणा जिल्हा	अकोला	23			
		1	श्रीमती राधादेवी गोयनका महीला महाविद्यालय अकोला	अकॉर्टिंग अण्ड ऑडीटींग बेकरी व कन्फेक्शनरी कुकरी	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट फुड प्रॉडक्शन फुड प्रॉडक्शन
		2	अकोला आर्ट्स,कॉमर्स व साय.कनिष्ठ महा. शिवर, अकोला	एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेर्नेन्स डेअरी टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अॅनीमल हसबन्डरी अण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी
		3	टिळक राष्ट्रीय सरस्वती मंदीर मोठी उमरी, अकोला	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर
		4	जागृती कनिष्ठ महाविद्यालय अकोला जि.अकोला	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए.	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		5	मोहरीदेवी खंडेलवाल कनिष्ठ महा. अकोला जि. अकोला	क्रेच अण्ड प्री स्कूल मैनेजमेंट अकॉर्टिंग अण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अण्ड सेल्समनशिप	चाईल्ड, ओल्ड ऐज अण्ड हेल्थ केअर सर्विस अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		6	श्री.शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालय शिवाजी पार्क जवळ, अकोला	बिल्डिंग मेर्नेन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. आप्यॉल्टमीक टेक्निशियन बेकरी व कन्फेक्शनरी	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी आप्यॉल्मीक टेक्निशियन फुड प्रॉडक्शन
		7	जि.प.आगरकर कनिष्ठ महा. अकोला	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए.	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		8	न्यु इंग्लिश कनिष्ठ महाविद्यालय अकोला	अकॉर्टिंग अण्ड ऑडीटींग अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन आर.एम.आर.ई.एम. बिल्डिंग मेर्नेन्स क्रेच अण्ड प्री स्कूल मैनेजमेंट	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी चाईल्ड, ओल्ड ऐज अण्ड हेल्थ केअर सर्विस
		9	स्व.ज्योती जानोळकर कनिष्ठ महाविद्यालय, अकोला	मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए.	मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		10	रुपनाथ कनिष्ठ महाविद्यालय दहिंहांडा ता.जि. अकोला	बिल्डिंग मेर्नेन्स एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी

1	2	3	4	5	6
		11	श्री नरसिंग विद्यालय व कनिष्ठ महा. अकोट जि. अकोला	आर.एम.आर.ई.एम. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी
		12	श्री शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालय गोरगांव खुरद ता.जि.अकोला	एम.आर.ई.डि.ए. अकॉटिंग अण्ड ऑफीटींग बेकरी व कन्फेक्शनरी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट फुड प्रॉडक्शन
		13	श्री शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालय दर्यापूर रोड,अकोट, जि. अकोला	अकॉटिंग अण्ड ऑफीटींग बिल्डिंग मैनेनेन्स बेकरी व कन्फेक्शनरी	अकॉटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी फुड प्रॉडक्शन
		14	महात्मा गांधी कनिष्ठ महा.गांधीग्राम, अकोला	अकॉटिंग अण्ड ऑफीटींग आर.एम.आर.ई.एम.	अकॉटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		15	श्रीमती लक्ष्मीबाई गणगाणे कनिष्ठ महा. अकोट, जि. अकोला	अकॉटिंग अण्ड ऑफीटींग	अकॉटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		16	अकोट कृषी कनिष्ठ महा. आकोट, जि. अकोला	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मैनेनेन्स हॉटीकल्चर	अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर
		17	श्री शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालय अंजनगाव रोड,आकोट, जि. अकोला	एम.आर.ई.डि.ए. क्रेच अण्ड प्री स्कूल मैनेजमेंट हॉटीकल्चर	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी चाईल्ड, ओल्ड ऐज अण्ड हेल्थ केअर सर्विस हॉटीकल्चर
		18	डॉ.गोपाळराव खेडकर महा.गाडेगांव ता.तेल्हारा	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन बॉकिंग अकॉटिंग अण्ड ऑफीटींग	अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स अकॉटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		19	डॉ.एच.एन.सिन्हा कनिष्ठ महा.पातुर जि. अकोला	अकॉटिंग अण्ड ऑफीटींग अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन बिल्डिंग मैनेनेन्स	अकॉटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		20	तुळसाबाई काबळ कनिष्ठ महा.पातुर जि. अकोला	एम.आर.ई.डि.ए. हॉटीकल्चर बेकरी व कन्फेक्शनरी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर फुड प्रॉडक्शन
		21	स्व.सौ.विजयाताई देशमुख कनिष्ठ महाविद्यालय अलोगांव ता.पातुर	हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स	हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स
		22	श्री.स.ल.शिंदे कनिष्ठ महा.सस्ती, ता. पातुर	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		23	श्री गाडो महाराज कनिष्ठ महा.मुर्तीजापुर जि.अकोला	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन आर.एम.आर.ई.एम. हॉटीकल्चर	अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर
		24	अनंतराव देशमुख कनिष्ठ महा.हिरपुर ता.मुर्तीजापुर	आर.एम.आर.ई.एम. हॉटीकल्चर बिल्डिंग मैनेनेन्स	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		25	श्री जागेश्वर कनिष्ठ महा.वाडेगांव ता. बाळापुर	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन आर.एम.आर.ई.एम. हॉटीकल्चर	अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर
		26	सरस्वती विज्ञान व कला कनिष्ठ महा.पारस ता.बाळापुर जि. अ.	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन आर.एम.आर.ई.एम.	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		27	श्री शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालय निंबा ता.बाळापुर जि. अकोला	एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन अकॉटिंग अण्ड ऑफीटींग	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अकॉटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		28	जिजामाता कनिष्ठ महाविद्यालय नया अंदुरा ता.बाळापुर	बिल्डिंग मैनेनेन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		29	गुलाम नवी आजाद कनिष्ठ महा.बार्शिटाकळी, जि.अकोला	अकॉटिंग अण्ड ऑफीटींग	अकॉटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट

1	2	3	4	5	6
				एम.आर.ई.डि.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्ल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		30	ज्ञानप्रकाश कनिष्ठ महाविद्यालय पिंजर, ता. बार्वाश्टाकवी	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर
	एकूण अकोला जिल्हा	30			
वाशिम		1	रा.आ.कला व विज्ञान महा. वाशिम	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		2	सावित्रीबाई फुले कनिष्ठ महा.वाशिम	एम.आर.ई.डि.ए. ऑफीस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग बॉकिंग	इलेक्ट्रॉनिक्ल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स
		3	जिजामाता कनिष्ठ महाविद्यालय अनर्सिंग ता. जि. वाशिम	बिल्डिंग मेन्टेनन्स अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग एम.आर.ई.डि.ए.	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्ल टेक्नॉलॉजी
		4	ना.ना.मंडुदा कनिष्ठ महा.मालेगांव जि. वाशिम	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन बिल्डिंग मेन्टेनन्स अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		5	वसंतराव नाईक कनिष्ठ महा.किन्हीराजा ता. मालेगांव	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन आर.एम.आर.ई.एम.	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्ल टेक्नॉलॉजी
		6	भगवंतराव महाकाळ कनिष्ठ महा. मानोली ता.मंगरुळपीर	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग हॉटीकल्चर डेअरी टेक्नॉलॉजी	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट हॉटीकल्चर अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी
		7	मो.च.ठाकरे कनिष्ठ महा. कार्साळा ता.मंगरुळपीर	क्रॉप सायन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	क्रॉप सायन्स अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		8	साळुंकाबाई राऊत कनिष्ठ महा.वनोजा ता. मंगरुळपीर	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन क्रॉप सायन्स अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		9	श्री धानोरकर आदर्श कनिष्ठमहा.धानोरा खुर्द, ता.मंगरुळपीर	हॉटीकल्चर एम.आर.ई.डि.ए. डेअरी टेक्नॉलॉजी	हॉटीकल्चर इलेक्ट्रॉनिक्ल टेक्नॉलॉजी अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी
		10	लक्ष्मीचंद कनिष्ठ महाविद्यालय शेलुबाजार ता. मंगरुळपीर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मेन्टेनन्स अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		11	श्री बाबासाहेब धाबेकर कनिष्ठमहाविद्यालय, रिसोड जि.वाशिम	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग ऑफीस मैनेजमेंट बिल्डिंग मेन्टेनन्स	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		12	विजाभारती कनिष्ठ महाविद्यालय कारंजालाड, जि.वाशिम	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन
		13	वसंत कनिष्ठ महाविद्यालय,पोहा,	एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्ल टेक्नॉलॉजी

1	2	3	4	5	6
			ता.कारंजालाडपोहा, ता.कारंजालाड	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग बिल्डिंग मेन्टेनन्स	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		14	जे.सौ.चवरे कनिष्ठ महाविद्यालय कारंजालाड, जि.वाशिम	एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		15	श्री मोहनलालजी भंसाली कनिष्ठ महाविद्यालय धनज बु.ता. कारंजालाड	बिल्डिंग मेन्टेनन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए.	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		16	आपास्वामी कनिष्ठ महाविद्यालयशेंद्रजना आढाव ता. मानोरा	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		17	मातोश्री सु. पाटील कनिष्ठ महा. मानोरा जि. वाशिम	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग एम.आर.ई.डि.ए. मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		18	एल.एस.पी.एम. कनिष्ठ महा.धामणी ता. मानोरा जि. वाशिम	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग बॉकिंग एम.आर.ई.डि.ए.	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
	एकूण वाशिम जिल्हा	18			
	यवतमाळ	1	अमोलकचद महाविधलय, यवतमाळ	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग एम.आर.ई.डि.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		2	श्री.शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालय, यवतमाळ	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए.	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		3	कला व वाणिज्य महाविधलय, यवतमाळ	इन्शुरन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए.	बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		4	श्री.शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालय घारफळ	हॉटेकल्चर इनलैंड फिशरीज बेकरी व कफेक्शनरी	हॉटेकल्चर फिशरी टेक्नॉलॉजी फुड प्रॅडक्शन
		5	वसंतराव नाईक कनिष्ठ महाविद्यालय रूई वाई	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग क्रॉप सायन्स	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट क्रॉप सायन्स
		6	श्री.गुरुदेव विद्या मंदीर जवळा ता. आर्णि	हॉटेकल्चर पोल्ट्री प्रॅडक्शन अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	हॉटेकल्चर अनेमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		7	शिक्षण विकास मंडळ,दाभा ता.बाभुळगाव	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन हॉटेकल्चर एम.आर.ई.डि.ए.	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी हॉटेकल्चर इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		8	लोक टिळक महा. विद्या, वणी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		9	भारत विद्यामंदीर कनिष्ठ महाविद्यालय, कं़ुभा ता.मारेगाव	हॉटेकल्चर क्रॉप सायन्स एम.आर.ई.डि.ए.	हॉटेकल्चर क्रॉप सायन्स इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		10	श्री.तेलमल गांधी कनिष्ठ महाविद्यालय ब्राम्हणगाव	क्रॉप सायन्स हॉटेकल्चर बिल्डिंग मेन्टेनन्स	क्रॉप सायन्स हॉटेकल्चर कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी

1	2	3	4	5	6
		11	श्री.शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालय चातारी ता.उमरखेड	एम.आर.ई.डि.ए. क्रॉप सायन्स हॉटेंकल्चर	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स हॉटेंकल्चर
		12	गो.सो.गावंडे कनिष्ठ महाविद्यालय चातारी ता.उमरखेड	डेअरी टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स हॉटेंकल्चर	अँनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स हॉटेंकल्चर
		13	ठॉ.बाबासाहेब आबेडकर कनिष्ठ महाविद्यालय वटफळी ता. नेर. जि जि.यवतमाळ	एम.आर.ई.डि.ए. हॉटेंकल्चर मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी हॉटेंकल्चर मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		14	बाबासाहेब देशमुख पारवेकर क.महाविद्यालय, पांढरकवडा	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए.	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		15	श्री.शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालय, सवना	हॉटेंकल्चर डेअरी टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए.	हॉटेंकल्चर अँनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		16	श्री.शिवाजी विज्ञान क.महाविद्यालय, दारव्हा	डेअरी टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मैनेजन्स मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	अँनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		17	मंगसाजी महाराज कनिष्ठ महाविद्यालय दारव्हा	हॉटेंकल्चर आर.एम.आर.ई.एम. पालट्री प्रॉडक्शन	हॉटेंकल्चर इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटेंकल्चर अँनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी
		18	जिजामाता कन्या कनिष्ठ महा. दारव्हा	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटेंकल्चर अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटेंकल्चर अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		19	एस.पो.एम.उच्च माध्यमीक विद्यालय घाटंजी	इनलैंड फिशरीज बिल्डिंग मैनेजन्स पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	फिशरी टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		20	एस.पो.एम.विज्ञान व महा.गिलाणी कला व वा.घाटंजी	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग हॉटेंकल्चर एम.आर.ई.डि.ए.	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट हॉटेंकल्चर इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		21	श्री.शिवशक्ती कनिष्ठ महाविद्यालय, कोठा वेणी	अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन बिल्डिंग मैनेजन्स हॉटेंकल्चर	अँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी हॉटेंकल्चर
		22	फुलसौंग नाईक कनिष्ठ महाविद्यालय, पुसद	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मैनेजन्स एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		23	बि.बी.आर्ट्स एन.बी.सायन्स बी.पी.सायन्स कॉलेज,दिग्रस	इन्शुरन्स मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप एम.आर.ई.डि.ए.	बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
एकूण यवतमाळ जिल्हा		23			
एकूण अमरावती		199			
ओरंगाबाद		1	एम.आय.टी.कनिष्ठ महाविद्यालय, सिडको एन-4 ओरंगाबाद	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी अँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		2	देवगिरी कला महाविद्यालय, रेल्वेस्टेशन रोड, ओरंगाबाद	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी टुरिझम अँण्ड ट्रॅक्शन टेक्निशियन अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी टुरिझम अँण्ड हॉस्पिटॅलिटी मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट

1	2	3	4	5	6
		3	पं. जवाहिरलाल नेहरु कनिष्ठ महाविद्यालय, शिवाजी नगर, औरंगाबाद	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग इन्शुरन्स बॉकिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
		4	श्री.स.भु.कला व वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालय, औरंगपुरा, औरंगाबाद	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट लॉंजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		5	श्री.स.भु. विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय, औरंगपुरा, औरंगाबाद	बिल्डिंग मेन्टेनेन्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए.	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		6	डॉ.झाकीर हुसेन क.महाविद्यालय, नागसेन कॉलनी, औरंगाबाद	पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन टुरिझम अँण्ड ट्रूकल टेक्निशियन	लॉंजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन टुरिझम अँण्ड हॉस्टेलिटी मैनेजमेंट
		7	मौलाना आज़ाद कनिष्ठ महाविद्यालय, रोजाबाग, औरंगाबाद	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन
		8	मौलाना आज़ाद कनिष्ठ महाविद्यालय, टाऊनहॉल, औरंगाबाद	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप एम.आर.ई.डि.ए.	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		9	विवेकानंद कनिष्ठ महाविद्यालय, औरंगाबाद	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप एम.आर.ई.डि.ए.	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		10	बसंतराव नाईक कनिष्ठ महाविद्यालय, चिकलठाणा रोड, औरंगाबाद	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉंजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		11	मेहरसिंग नाईक कनिष्ठ महाविद्यालय, गारखेड परिसर, औरंगाबाद	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप एम.आर.ई.डि.ए.	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		12	बबनराव ढाकणे कनिष्ठ महाविद्यालय, औरंगाबाद	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		13	डॉ.भिमराव अँबेडकर कनिष्ठ महाविद्यालय, कन्नड, ता.कन्नड, जि.औरंगाबाद	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए.	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		14	भगवान पैरा मेडिकल कनिष्ठ महाविद्यालय, सिडको एन-6, औरंगाबाद	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन एक्स- रे टेक्निशियन आँथ्रॉलॉमीक टेक्निशियन	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन रेडिओलॉजी टेक्निशियन आँथ्रॉलॉमीक टेक्निशियन
		15	श्री.शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालय, खोकडपुरा, औरंगाबाद	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉंजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		16	अंबर पैरा मेडिकल कनिष्ठ महाविद्यालय, हर्सूल रोड, औरंगाबाद	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन एक्स- रे टेक्निशियन आँथ्रॉलॉमीक टेक्निशियन	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन रेडिओलॉजी टेक्निशियन आँथ्रॉलॉमीक टेक्निशियन
		17	फोस्टर डेव्हलोपमेंट कनिष्ठ महा, सिडको एन-6, औबाद	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन
		18	गोदावरी कनिष्ठ महाविद्यालय, हडको, एन-12, औरंगाबाद	एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		19	डॉ.सौ.इ.भा.पा.महिला कनिष्ठ महाविद्यालय, समर्थनगर, औरंगाबाद	कुकरी बेकरी व कफेक्शनरी	फुड प्रॉडक्शन फुड प्रॉडक्शन
		20	श्री.यश्वर कनिष्ठ महाविद्यालय, खुलताबाद, ता.खुलताबाद, जि.औरंगाबाद	आर.एम.आर.ई.एम. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी

1	2	3	4	5	6
एकूण औरंगाबाद जिल्हा	जालना	21	श्री.नाथ कनिष्ठ महाविद्यालय, पैठण, ता.पैठण, जि.औरंगाबाद	आर.एम.आर.ई.एम. अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी ऑटोमोबाइल टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन
		22	प्रतिष्ठाण कनिष्ठ महाविद्यालय, पैठण, ता.पैठण, जि.औरंगाबाद	इनलैंड फिशरीज मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	फिशरी टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		23	विनायकराव पाटिल कनिष्ठ महाविद्यालय, वैजापुर, ता.वैजापुर,	बिल्डिंग मेन्टेनन्स अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	कनस्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अटोमोबाइल टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		24	संत बहिनाबाई कनिष्ठ महाविद्यालय, शिवुर, ता.वैजापुर, जि.औरंगाबाद	अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन आर.एम.आर.ई.एम. हॉटीकल्चर एम.आर.ई.डि.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	ऑटोमोबाइल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी
		25	सेंटमेरी कनिष्ठ महाविद्यालय, वाहेगांव, तां गंगापुर, जि.औरंगाबाद	एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग हॉटीकल्चर	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट हॉटीकल्चर
		26	संत ज्ञानेश्वर कनिष्ठ महाविद्यालय, सोयगांव, ता.सोयगांव, जि.औरंगाबाद	हॉटीकल्चर आर.एम.आर.ई.एम. एम.आर.ई.डि.ए.	हॉटीकल्चर इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		27	एम.सी.क्ली.सी. कनिष्ठ महाविद्यालय, किनगांव, ता. फुलंगी, जि. औरंगाबाद	डेअरी टेक्नॉलॉजी अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन हॉटीकल्चर	अॅनीमल हस्पिटरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी अटोमोबाइल टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर
		एकूण औरंगाबाद जिल्हा	27		
परभणी	परभणी	1	जे.ई.एस.आर. जी. बागडीया कला एस.बी. लखेटिया वाणिज्य आणि आर बेझंजी विज्ञान महाविद्यालय जालना	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		2	मत्स्योदरी शिक्षण संस्थेचे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, जालना	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉंजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		3	श्रीमती दानकुवर महिला महाविद्यालय,जालना	बॉर्किंग क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मैनेजमेंट अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	बॉर्किंग, फायनन्शियल सर्किसेस, इन्शुरन्स चाईल्ड, ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ केअर सर्किस अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		4	मत्स्योदरी शिक्षण संस्थेचे कला,वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय,अंबड	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉंजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		5	छत्रपती शिवाजी उच्च माध्यमिक व्यवसाय	हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स	हॉटीकल्चर हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स
		एकूण जालना जिल्हा	5		
परभणी	परभणी	1	श्री.शिवाजी महाविद्यालय, वसमत रोड, परभणी	हॉटीकल्चर पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग बेकरी व कफेक्शनरी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	हॉटीकल्चर लॉंजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट फुड प्रॉडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		2	ज्ञानोपासक कनिष्ठ महाविद्यालय, परभणी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग क्रॉप सायन्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी लॉंजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट क्रॉप सायन्स
		3	डॉ.झाकीर हुसैन कनिष्ठ महाविद्यालय, परभणी	बेकरी व कफेक्शनरी अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग आर.एम.आर.ई.एम.	फुड प्रॉडक्शन अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी

1	2	3	4	5	6
		4	श्री.गुरु बृद्धी स्वामी कनिष्ठ महाविद्यालय, पुर्णा ता.पुर्णा जि. परभणी	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप आर.एम.आर.ई.एम. बिल्डिंग मेन्टेनन्स बॉकिंग अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
			5 इंद्रीरा गांधी कनिष्ठ महाविद्यालय, पुर्णा जि.परभणी	बिल्डिंग मेन्टेनन्स बेकरी व कफेक्शनरी क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मैनेजमेंट	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी फुड प्रॉडक्शन चार्चाल्ड, ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ के अर सर्विस
			6 नुतन कनिष्ठ महाविद्यालय, सेलू जि.परभणी	पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स सीड प्रॉडक्शन टेक्नॉलॉजी ऑफीस मैनेजमेंट	लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स क्रॉप सायन्स अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
			7 के.के.एम.कनिष्ठ महाविद्यालय, मानवत जि.परभणी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		8 श्री.संत जनाबाई कनिष्ठ महाविद्यालय, गंगाखेड जि.परभणी	पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग क्रॉप सायन्स	लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट क्रॉप सायन्स	
				इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		9 महालिंगेश्वर कनिष्ठ महाविद्यालय, सोनपेठ जि.परभणी	हॉटीकल्चर आर.एम.आर.ई.एम.	हॉटीकल्चर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	
				एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		10 ज्ञानोपासक कनिष्ठ महाविद्यालय, जितूर जि.परभणी	आर.एम.आर.ई.एम. बॉकिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स	
				इनलॉड फिशरीज	फिशरी टेक्नॉलॉजी
एकूण परभणी जिल्हा	10				
हिंगोली	1	आदर्श कनिष्ठ महाविद्यालय, हिंगोली	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग ऑफीस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	
		2 बाराशीव हनुमान कनिष्ठ महाविद्यालय, बाराशीव ता.वसमत जि.हिंगोली	पोल्ट्री प्रॉडक्शन आर.एम.आर.ई.एम. मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड डे अरी टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	
		3 अन्त्रपूर्णा देवी कनिष्ठ महाविद्यालय, आरळ ता.वसमत जि.हिंगोली	क्रॉप सायन्स मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप बिल्डिंग मेन्टेनन्स	क्रॉप सायन्स मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी	
		4 महात्मा ज्योतीबा फुले कनिष्ठ महाविद्यालय, कळमनूरी ता.कळमनूरी जि.हिंगोली	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी आर.एम.आर.ई.एम. हॉटीकल्चर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर	
	4				
		1 बलभीम बोड	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग ऑफीस मैनेजमेंट	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
		2 मिल्लीया बोड	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
		3 संस्कार बोड	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी	

1	2	3	4	5	6
		4	विनायक बोड	आर.एम.आर.ई.एम. अकॉटिंग अँण्ड ऑडीटींग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		5	शहीद भगतसिंग बोड	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी आर.एम.आर.ई.एम. पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		6	कला वाणिज्य व विज्ञान अंबाजोई ता. बोड	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटेंटिकल्चर एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मैनेजमेंट	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटेंटिकल्चर इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी चाईल्ड, ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ के अर सर्किंस
		7	वैद्यनाथ पराळी ता. बोड	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		8	लिटल पलांवर पराळी ता.बोड	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी सीड प्रॉडक्शन टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		9	योगेश्वरी अंबाजोगाई जि. बोड	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी आ॒ष्य॑ल्मीक टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी आ॒ष्य॑ल्मीक टेक्निशियन इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		10	मुकुंदराज अंबाजोगाई जि. बोड	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स बिल्डिंग मेन्टेनन्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		11	सोमेश्वर घाटनांदुर ता.अंबाजोगाई जि. बोड	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मेन्टेनन्स क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मैनेजमेंट	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी चाईल्ड, ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ के अर सर्किंस
		12	आदर्श खालापुरी ता. शिरुर जि. बोड	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी आर.एम.आर.ई.एम. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		13	वसंतराव नाईक बोड पाटोदा जि. बोड	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी आर.एम.आर.ई.एम. बिल्डिंग मेन्टेनन्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		14	श्रीराम कडा ता. आष्टी जि. बोड	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी डेरी एटेक्नॉलॉजी मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अ॒नीमल हसबन्डरी अँण्ड डेरी टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		15	मोतीलाल कोठारी बोड कडा ता. आष्टी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		16	बंकटस्वामी बोड	बेरी व कन्फेक्शनरी अकॉटिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	फुड प्रॉडक्शन अकॉटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		17	स्वा. सावरकर बोड	इन्शुरन्स बॉकिंग मैडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन अकॉटिंग अँण्ड ऑडीटींग पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स मैडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन अकॉटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		18	सरस्वती केज जि. बोड	पोल्ट्री प्रॉडक्शन एम.आर.ई.डि.ए. आर.एम.आर.ई.एम. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अ॒नीमल हसबन्डरी अँण्ड डेरी टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी

1	2	3	4	5	6
		19	खोलेश्वर अंबाजोगाई जि. बोड	बॉकिंग हॉटीकल्चर मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन एक्स- रे- टेक्निशियन पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स हॉटीकल्चर मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन रेडिओलॉजी टेक्निशियन लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट
		20	गजानन राजुरी (न) ता.जि. बोड	हॉटीकल्चर आर.एम. आर.ई.एम. पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	हॉटीकल्चर इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट
		21	एस.के.एच. बोड	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन एक्स- रे- टेक्निशियन आँथ्रोलॉजीक टेक्निशियन	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन रेडिओलॉजी टेक्निशियन आँथ्रोलॉजीक टेक्निशियन
		22	छत्रपती शिवाजी आडस ता. केज जि. बोड	क्रॉप सायन्स आर.एम. आर.ई.एम.	क्रॉप सायन्स इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		23	पंडीत ज. नेहरु आष्टी जि. बोड	आर.एम. आर.ई.एम. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
		24	माध्यमिक बोड	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मॅनेजमेंट	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट चाईल्ड, ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ केअर सर्विस
		25	राष्ट्रीय कन्या बोड	एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
		26	वसंत केज जि. बोड	सीड प्रॉडक्शन टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अँण्ड अँडीटींग	क्रॉप सायन्स इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
		27	वसंतदादा पाटील पाटोदे जि. बोड	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मॅनेजमेंट	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट चाईल्ड, ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ केअर सर्विस
		28	कला वाणिज्य व विज्ञान आष्टी ता. बोड	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. हॉटीकल्चर	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर
		29	सौ.के.एस.के. बोड	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मॅनेजमेंट	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट चाईल्ड, ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ केअर सर्विस
एकूण बोड जिल्हा	29				
	नांदेड	1	नेताजी सुभाषचंद बोस महाविद्यालय नांदेड	पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप ऑफीस मॅनेजमेंट	लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
		2	प्रतिभा निकेतन महाविद्यालय नांदेड	एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		3	यशवंत महाविद्यालय नांदेड	एम.आर.ई.डि.ए. क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर

1	2	3	4	5	6
		4	पिपल्स महाविद्यालय नांदेड	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप बॉकिंग आॉफीस मैनेजमेंट	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स अकॉर्टिंग, फायनन्शियल आॉफिस मैनेजमेंट
		5	मदिनातुल उलूम महाविद्यालय नांदेड	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन
		6	ललबहादुर शास्त्री महाविद्यालय धर्माबाद	पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप आॉफीस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल आॉफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		7	जनता कनिष्ठ महाविद्यालय नायगाव	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप एम.आर.ई.डि.ए. हॉटेंकल्चर	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटेंकल्चर
		8	देगलूर महाविद्यालय देगलूर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मैनेजमेंट	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट चाईल्ड, ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ के अर सर्विस
		9	छ.शिवाजी महाविद्यालय सगरोली ता.बिलोली	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		10	म.ज्यातिबा फुले महाविद्यालय मुखेड.	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल आॉफिस मैनेजमेंट लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		11	सेवादास कनिष्ठ महाविद्यालय वसंतनगर कोटग्याळ ता.मुखेड	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग पोल्ट्री प्रॉडक्शन सीड प्रॉडक्शन टेक्नॉलॉजी	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल आॉफिस मैनेजमेंट अॉनीमल हसबन्डरी अँण्ड डे अरी टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स
		12	शाहू महाराज क.महाविद्यालय भोकर	एम.आर.ई.डि.ए. पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग डे अरी टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट अॉनीमल हसबन्डरी अँण्ड डे अरी टेक्नॉलॉजी
		13	नुतन कनिष्ठ महाविद्यालय उमरी	पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग पोल्ट्री प्रॉडक्शन आर.एम.आर.ई.एम.	लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट अॉनीमल हसबन्डरी अँण्ड डे अरी टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		14	शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालय सोनखेड ता.लोहा	पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग बॉकिंग क्रॉप सायन्स	लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स क्रॉप सायन्स
		15	सरस्वती कनिष्ठ महाविद्यालय किनवट	एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल आॉफिस मैनेजमेंट
		16	ग्रामीण कनिष्ठ महा.नेहरुनगर नागलगाव ता.कंधार	क्रॉप सायन्स पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग टुरिझम अँण्ड ट्रॅक्टर टेक्निशियन	क्रॉप सायन्स लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट टुरिझम अँण्ड हॉस्पिटिलिटी मैनेजमेंट
		17	आदर्श कनिष्ठ महाविद्यालय मनाठा ता.हदगाव	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल आॉफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
	एकूण नांदेड जिल्हा	17			
	उस्मानाबाद	1	रामकृष्ण परंमहंस महा.उस्मानाबाद	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल आॉफिस मैनेजमेंट
		2	व्होकेशनल (व्यवसायाभिमुख ) क.महा.उपथ (मा)	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन क्रॉप सायन्स एम.आर.ई.डि.ए.	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी

1	2	3	4	5	6
		3	सरस्वती मा.व उच्च मा.विद्या.बेबळी	एम.आर.ई.डि.ए. आर.एम.आर.ई.एम. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		4	जनता विद्यालय, येडशी	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. क्रॉप सायन्स	अंटोमोबाईल टेक्नालॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी क्रॉप सायन्स
		5	तुळजाभवानी महा.तुळजापूर	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट लॉंजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		6	यशवंतराव चहाण क.महा.तुळजापूर	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी एम.आर.ई.डि.ए.	अंटोमोबाईल टेक्नालॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी
		7	कला,वाणिज्य,सायन्स महा. नळदुर्ग	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन आर.एम.आर.ई.एम. मेडिकल लैबोरेटरी टेक्निशियन	अंटोमोबाईल टेक्नालॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्निशियन
		8	जवाहर क महा.अणदुरु	क्रॉप सायन्स हॉटेंटिकल्चर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी	क्रॉप सायन्स हॉटेंटिकल्चर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी
		9	श्री.छत्रपती शिवाजी क.महा.उमरगा	मेक्निकल टेक्नालॉजी हॉटेंटिकल्चर अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन बेकरी व कन्फेक्शनरी	मेक्निकल टेक्नालॉजी हॉटेंटिकल्चर अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी अंटोमोबाईल टेक्नालॉजी फुड प्रॉडक्शन
		10	आदर्श क.महा. उमरगा	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग क्रॉप सायन्स हॉटेंटिकल्चर	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट क्रॉप सायन्स हॉटेंटिकल्चर
		11	श्रीकृष्ण क.महा.गुंजोटी	मेक्निकल टेक्नालॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी क्रॉप सायन्स	मेक्निकल टेक्नालॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी क्रॉप सायन्स
		12	बसवेश्वर क.महा.जेवळी	एम.आर.ई.डि.ए. क्रॉप सायन्स हॉटेंटिकल्चर	इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी क्रॉप सायन्स हॉटेंटिकल्चर
		13	प्रतिभा निकेतन क.महा. मुरुम	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी
		14	कर्मवीर मामासाहेब जगदाळे क.महा.वाशी	एम.आर.ई.डि.ए. क्रॉप सायन्स हॉटेंटिकल्चर	इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी क्रॉप सायन्स हॉटेंटिकल्चर
		15	महात्मा फुले महा.पारगाव	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप एम.आर.ई.डि.ए.	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी
		16	व्यवसायाभिमुख क.महा.माणकेश्वर	डेअरी टेक्नालॉजी क्रॉप सायन्स आर.एम.आर.ई.एम.	अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नालॉजी क्रॉप सायन्स इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी
		17	ज्ञानदेव मोहेकर क.महा.कळंब	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी हॉटेंटिकल्चर	अंटोमोबाईल टेक्नालॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी हॉटेंटिकल्चर
एकूण उस्मानाबाद जिल्हा	17				
लातूर	1	राजधानी शाहू महाविद्यालय, लातूर	क्रॉप सायन्स इनलॅंड फिशरीज इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी	क्रॉप सायन्स फिशरी टेक्नालॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी	

1	2	3	4	5	6
		2	महात्मा बसवेश्वर महा. लातूर	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेर्नेन्स आर.एम.आर.ई.एम.	अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		3	लालबहादूर शास्त्री कनिष्ठ महा. लातूर	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन	अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन
		4	स्वामी दयानंद कनिष्ठ महा. मजगे नगर लातूर	क्रॉप सायन्स बिल्डिंग मेर्नेन्स आर.एम.आर.ई.एम. मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन अकॉर्टिंग अण्ड ऑडीटींग पोल्ट्री प्रॉडक्शन	क्रॉप सायन्स कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अॉनीमल हसबन्डरी अण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी
		5	जयक्रांती कनिष्ठ महाविद्यालय, लातूर	अकॉर्टिंग अण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अण्ड सेल्समनशिप क्रॉप सायन्स डेअरी टेक्नॉलॉजी	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट क्रॉप सायन्स अॉनीमल हसबन्डरी अण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी
		6	मिलांद कनिष्ठ महाविद्यालय, लातूर	क्रॉप सायन्स मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन बिल्डिंग मेर्नेन्स डेअरी टेक्नॉलॉजी सीड प्रॉडक्शन टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर	क्रॉप सायन्स मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अॉनीमल हसबन्डरी अण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर
		7	श्री व्यंकटेश कनिष्ठ महाविद्यालय, लातूर	मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		8	श्रीमती सुशिलादेवी देशमुख क. महा. लातूर	अकॉर्टिंग अण्ड ऑडीटींग क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर
		9	राजमाता जिजामाता कनिष्ठ महा. लातूर	अकॉर्टिंग अण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अण्ड स्टोअर किपिंग बॉकिंग क्रॉप सायन्स एम.आर.ई.डि.ए.	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉजीस्टिक अण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स क्रॉप सायन्स इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		10	महात्मा फुले कनिष्ठ महाविद्यालय, लातूर	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अण्ड ऑडीटींग	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		11	सिध्दार्थ कनिष्ठ महाविद्यालय, लातूर	हॉटीकल्चर बिल्डिंग मेर्नेन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	हॉटीकल्चर कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		12	जिजामाता कनिष्ठ महाविद्यालय, लातूर	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. बॉकिंग इन्शुरन्स मार्केटिंग अण्ड सेल्समनशिप	अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट

1	2	3	4	5	6
		13	रामचंद्र बलदवा ज्ञानेश्वर कनिष्ठ महाविद्यालय, लातूर	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग इन्शुरन्स ऑफीस मैनेजमेंट इनलैंड फिशरीज	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट फिशरी टेक्नॉलॉजी
		14	शामराव पाटील कनिष्ठ महाविद्यालय, लातूर	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग इन्शुरन्स ऑफीस मैनेजमेंट बॉकिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
		15	कै. व्यंकटराव देशमुख महाविद्यालय, बाभळगांव	हॉटेंटिकल्चर	हॉटेंटिकल्चर
		16	जनता विद्यामंदीर, मुरुड	आर.एम.आर.ई.एम. अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन आर.एम.आर.ई.एम.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी आटोमोबाइल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		17	श्री कुमारस्वामी महाविद्यालय, औसा	बिल्डिंग मेनेन्स हॉटेंटिकल्चर मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग क्रॉप सायन्स	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी हॉटेंटिकल्चर मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अटोमोबाइल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट क्रॉप सायन्स
		18	आजिम कनिष्ठ महाविद्यालय, औसा	बिल्डिंग मेनेन्स इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी मेर्केनिकल टेक्नॉलॉजी आर.एम.आर.ई.एम. मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन हॉटेंटिकल्चर	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी मेर्केनिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी मेर्डिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन हॉटेंटिकल्चर
		19	विद्यानिकेतन कनिष्ठ महाविद्यालय, जवळगा(पो)	बिल्डिंग मेनेन्स मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप क्रॉप सायन्स	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट क्रॉप सायन्स
		20	महाराष्ट्र कनिष्ठ महाविद्यालय, किल्लारी	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग बिल्डिंग मेनेन्स एम.आर.ई.डि.ए.	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		21	श्री रामनाथ कनिष्ठ महाविद्यालय, आलमला	एम.आर.ई.डि.ए. अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन क्रॉप सायन्स	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अटोमोबाइल टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स
		22	महाराष्ट्र महाविद्यालय, निलंगा	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मेर्डिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन
		23	श्री करिबसवेश्वर कनिष्ठ महा. का. शिरसी	हॉटेंटिकल्चर क्रॉप सायन्स बिल्डिंग मेनेन्स	हॉटेंटिकल्चर क्रॉप सायन्स कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		24	श्री शामगीर कनिष्ठ महा. शिवणी कोतल	क्रॉप सायन्स मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप बॉकिंग	क्रॉप सायन्स मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
		25	श्यामलाल कनिष्ठ महाविद्यालय, उदगार	मेर्केनिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग बिल्डिंग मेनेन्स	मेर्केनिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी

1	2	3	4	5	6
		26	लालबहादुर शास्त्री कनिष्ठ महा. उदगौर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी चाईल्ड, ओल्ड एज अँण्ड हेल्थ केअर सर्विस
		27	महाराष्ट्र उदयगिरी महाविद्यालय, उदगौर	पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	लॉंजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		28	शिवाजी महाविद्यालय, उदगौर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी लॉंजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		29	हावगीस्वामी महाविद्यालय, उदगौर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग
		30	समर्थ कनिष्ठ महाविद्यालय, एकूरका रोड	क्रॉप सायन्स सोड प्रॉडक्शन टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मेन्टेनन्स	क्रॉप सायन्स क्रॉप सायन्स कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		31	शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालय, हंडरगुढी	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मैनेजमेंट एम.आर.ई.डि.ए.	मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन चाईल्ड, ओल्ड एज अँण्ड हेल्थ केअर सर्विस इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		32	यशवंत कनिष्ठ महा. वाढवणा	क्रॉप सायन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	क्रॉप सायन्स अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी
		33	नर्गिस दत्त कनिष्ठ महाविद्यालय, देवर्णी	पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग बॉकिंग अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	लॉंजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इश्चुरन्स अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		34	बालाजी कनिष्ठ महाविद्यालय, वलांडी	बिल्डिंग मेन्टेनन्स अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट लॉंजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी
		35	महादेव कनिष्ठ महाविद्यालय, धनेगावं	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		36	गुरुदत्त कनिष्ठ महाविद्यालय, जळकोट	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन
		37	नूतन मराठी कनिष्ठ महाविद्यालय, अहमदपूर	एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन हॉटीकल्चर	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर
		38	यशवंत कनिष्ठ महा. अहमदपूर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		39	महात्मा फुले कनिष्ठ महाविद्यालय, अहमदपूर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन
		40	दयानंद कनिष्ठ महाविद्यालय, हडोळती	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स
		41	महेश कनिष्ठ महाविद्यालय, शिरुर (ताजबंद)	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए.	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी

1	2	3	4	5	6	
		42	स्वामी विवेकानंद कनिष्ठ महा. शिरुर(ताजबंद)	क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन	क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन	
		43	नेताजी सुभाषचंद्र बोस कनिष्ठ महा. किनांव	क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन	क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर मेडिकल लैंबोरेटरी टेक्निशियन	
		44	लोकमान्य कनिष्ठ महाविद्यालय, चाकूर	एम.आर.ई.डि.ए. मार्किंग अण्ड सेल्समनशिप बिल्डिंग मेन्टेनेन्स	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी मार्किंग रिटेल मैनेजमेंट कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी	
		45	दयानंद विज्ञान महाविद्यालय, लातूर			
एकूण लातूर जिल्हा		45				
एकूण औरंगाबाद		154				
	नागपूर	1	अंजुमन कनिष्ठ महाविद्याल सदर, नागपूर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	
		2	न्यु. इंगिलिश कनिष्ठ महाविद्याल महाल नागपूर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनेंशियल ऑफिस मैनेजमेंट	
		3	रामनगर भारत कनिष्ठ महाविद्याल रामनगर, नागपूर (भारत महिला कनि महा. नागपूर) (समायोजनामूळे बंद)	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग अण्ड ऑडीटींग बेकरी व कफेक्शनरी एम.आर.ई.डि.ए. मार्किंग अण्ड सेल्समनशिप अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन बिल्डिंग मेन्टेनेन्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनेंशियल ऑफिस मैनेजमेंट फुड प्रॉडक्शन इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी मार्किंग रिटेल मैनेजमेंट अंटोमोबाइल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी	
		4	बाबा नानक कनिष्ठ महाविद्याल गरोबा मैदान नागपूर 0712.2764288	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनेंशियल ऑफिस मैनेजमेंट	
		5	सिंधी हिंदी कनिष्ठ महाविद्याल पाचवावली नागपूर 0712. 2640682	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाइल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	
		6	तारकुडे धरमपेठ हाय. व कनिष्ठ महाविद्याल उत्तर अंबाझरी मार्ग , नागपूर 0712 . 2532135	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनेंशियल ऑफिस मैनेजमेंट	
		7	दिनानाथ कनिष्ठ महाविद्याल धंतोली नागपूर 0712.2526544	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मार्किंग अण्ड सेल्समनशिप बेकरी व कफेक्शनरी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मार्किंग रिटेल मैनेजमेंट फुड प्रॉडक्शन अंटोमोबाइल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	
		8	धरमपेठ एम.पी.देव कनिष्ठ महा. उत्तर अंबाझरी मार्ग नागपूर. 0712 2241490	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. इनलैंड फिशरीज	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी फिशरी टेक्नॉलॉजी	
		9	सी.पी.एन्ड बेरार कनिष्ठ महाविद्याल तुळशिवाग, नागपूर 0712 2738513	अकॉर्टिंग अण्ड ऑडीटींग मार्किंग अण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अण्ड स्टोअर किपिंग बॉकिंग इन्सुरन्स	अकॉर्टिंग, फायनेंशियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्किंग रिटेल मैनेजमेंट पर्चेसिंग अण्ड स्टोअर किपिंग बॉकिंग, फायनेंशियल सर्विसेस, इन्शुरन्स अॉफाईस मैनेजमेंट	
		10	जीवन विकास कनिष्ठ महाविद्याल उमरेड 07116 242064	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग अण्ड ऑडीटींग अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनेंशियल ऑफिस मैनेजमेंट अंटोमोबाइल टेक्नॉलॉजी	

1	2	3	4	5	6
		11	श्रीराम स्वामी विद्यामंदीर व कनिष्ठ महाविद्याल आदमशहा लेआउट, नागपूर 0712 2745667	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		12	रवि कनिष्ठ महाविद्याल सिरसपेठ, नागपूर 0712 2745378	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		13	वंसतराव नाईक कनिष्ठ महाविद्याल सिर्सी, उमरेड 07116 258331	एम.आर.ई.डि.ए. हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स
		14	बी.एन चौधरी कनिष्ठ महाविद्याल जलालखेडा 07112 238534 07105	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन हॉटीकल्चर एम.आर.ई.डि.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बेकरी व कन्फेक्शनरी डेअरी टेक्नॉलॉजी	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी फुड प्रॉडक्शन अनौमल हसबन्डरी अँण डेअरी टेक्नॉलॉजी
		15	धनबटे कनिष्ठ महाविद्याल कॉप्रेस नगर, नागपूर 0712 2522759	अकॉर्टिंग अँण ऑडीटींग बेकरी व कन्फेक्शनरी पर्चेसिंग अँण स्टोअर किपिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट फुड प्रॉडक्शन लॉजीस्टीक अँण सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		16	समर्थ कनिष्ठ महाविद्याल रामटेक 07114 255158	क्रॉप सायन्स एम.आर.ई.डि.ए.	क्रॉप सायन्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		17	कमला नेहरु कनिष्ठ महाविद्याल नागपूर 0712 2747853	एम.आर.ई.डि.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग अँण ऑडीटींग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		18	संताजी कनिष्ठ महाविद्याल वर्धा रोड, नागपूर 0712 2263953	मार्केटिंग अँण सेल्समनशिप पर्चेसिंग अँण स्टोअर किपिंग अकॉर्टिंग अँण ऑडीटींग	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉजीस्टीक अँण सप्लाय चेन मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		19	एम.ऐ.के.आजाद कनिष्ठ महाविद्याल गांधीबाग, नागपूर 0712 2761855	अकॉर्टिंग अँण ऑडीटींग पर्चेसिंग अँण स्टोअर किपिंग कुकरी	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट लॉजीस्टीक अँण सप्लाय चेन मैनेजमेंट फुड प्रॉडक्शन
		20	हडस कनिष्ठ महाविद्याल नार्थ अंबाझरी रोड, नागपूर 0712 2524883	एम.आर.ई.डि.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग अँण ऑडीटींग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		21	नवप्रतिभा कनिष्ठ महाविद्याल मिरची बाजार, नागपूर 0712 2744965	एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अँण ऑडीटींग हॉटीकल्चर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट हॉटीकल्चर
		22	युगांतर कनिष्ठ महाविद्याल सिक्कील लाईन्स, नागपूर 0712 2524812	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		23	पी.डब्ल्यू.एस.कनिष्ठ महाविद्याल कामठी रोड, नागपूर 0712 2640830	मार्केटिंग अँण सेल्समनशिप अकॉर्टिंग अँण ऑडीटींग पर्चेसिंग अँण स्टोअर किपिंग	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट पर्चेसिंग अँण स्टोअर किपिंग लॉजीस्टीक अँण सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		24	गुरु स्मती कनिष्ठ महाविद्याल भिष्णूर, त. नरखेड	एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन अकॉर्टिंग अँण ऑडीटींग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		25	सवौदय कनिष्ठ महाविद्याल पारशिवरी (पालीवाल) 07102 225132	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		26	कृष्णराव वानखेडे कनिष्ठ महाविद्याल कोहळी	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन बिल्डिंग मेन्टेनन्स अकॉर्टिंग अँण ऑडीटींग	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट

1	2	3	4	5	6
		27	विदर्भ बुनियादी कनिष्ठ महाविद्याल ओमनगर, नागपूर 0712 2745865	क्रॉप सायन्स हॉटेंकल्चर अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	क्रॉप सायन्स हॉटेंकल्चर अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		28	बुमेन्स कॉलेज ऑफ आर्ट अँण्ड कामर्स नंदनवन, नागपूर 0712 2711383	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		29	भिवापूर एज्यु. सोसा. व कनिष्ठ महाविद्याल भिवापूर 07106 232262	एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		30	आदर्श कनिष्ठ महाविद्याल पाटणसावंगी 07113 276429	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए.	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		31	जनता कनिष्ठ महाविद्याल खेरगांव, नरखेड, जि. नागपूर 07105 236175	एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स हॉटेंकल्चर	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी हॉटेंकल्चर
		32	रुडाश्रम कनिष्ठ महाविद्याल कुही 07100 222244	एम.आर.ई.डि.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		33	झंदिरा गांधी कला व वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्याल कलमेश्वर 07118 271393	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप एम.आर.ई.डि.ए.	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		34	पंढरीनाथ कनिष्ठ महाविद्याल नरखेड 07105 232352	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		35	हरीहर कनिष्ठ महाविद्याल पारशिवनी 07102 225183	बिल्डिंग मेन्टेनन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		36	श्री जी उमप कनिष्ठ महाविद्याल येनवा 07112 222373	एम.आर.ई.डि.ए. हॉटेंकल्चर बिल्डिंग मेन्टेनन्स	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी हॉटेंकल्चर कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		37	आर.एम.इंगोले कनिष्ठ महाविद्याल भारांसगी	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए.	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		38	रावसाहेब ठवरे कनिष्ठ महाविद्याल बाबूळखेडा, नागपूर 0712 2743882	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		39	थडीपवनी कनिष्ठ महाविद्याल थडीपवनी ता. नरखेड	हॉटेंकल्चर (बंद) एम.आर.ई.डि.ए. आर.एम.आर.ई.एम.	हॉटेंकल्चर इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		40	तिडके कनिष्ठ महाविद्याल काटोल रोड, नागपूर 0712 2591791	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग एम.आर.ई.डि.ए.	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		41	भालेराव कनिष्ठ महाविद्याल सावनेर 07113 232262	एम.आर.ई.डि.ए. हॉटेंकल्चर बेकरी अँण्ड कनफेक्शनरी (बंद)	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी हॉटेंकल्चर फुड प्रॉडक्शन
		42	रामचंद्रराव मोखारे कनिष्ठ महाविद्याल भामटी, नागपूर 0712 2227062	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		43	संत गाडगे महाराज कनिष्ठ महाविद्याल हिंगणा 07104 276151	एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी

1	2	3	4	5	6
		44	आदर्श आर्ट्स अँण्ड कॉमर्स कनिष्ठ महाविद्याल दवलामेठी, नागपूर 0712 2221904	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मेन्टेनन्स अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		45	मातोश्री अंजनाबाई मुंदाफळे आर्ट्स अँण्ड कॉमर्स महा. नरखेड 07105 232151	बिल्डिंग मेन्टेनन्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		46	जी.एस. कॉमर्स महा. नागपूर 0712 2531760	बॉकिंग इन्शुरन्स मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
		47	हिस्लॉप कनिष्ठ महाविद्याल सिल्हील लाईन, नागपूर 0712 2532004	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इनलैंड फिशरीज	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी फिशरी टेक्नॉलॉजी
		48	सी.पी.एन्ड बेरार कनिष्ठ महाविद्याल रविनगर, नागपूर 2533185	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		49	अरविंदबाबू देशमुख कनिष्ठ महाविद्याल भारसिंगी 07105 233329	बिल्डिंग मेन्टेनन्स एम.आर.ई.डि.ए.	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		50	अभिनंदन कनिष्ठ महाविद्याल बापूनगर, नागपूर 0712 2710465	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अॅटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		51	नुतन भारत कनिष्ठ महाविद्याल अभ्यंकर नगर, नागपूर 0712 2235693	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		52	साईबाबा कनिष्ठ महाविद्याल खामला रोड, नागपूर 0712 2262551	पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट अॅटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		53	ज्युपिटर कनिष्ठ महाविद्याल खामला रोड, नागपूर 0712 2233974	पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		54	डॉ. हरभाऊ आदमाने आर्ट अँण्ड कामर्स कॉलेज, सावनरे 07105 232227	अॅटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	अॅटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		55	ज्योतिबा कनिष्ठ महाविद्याल नंदनवन, नागपूर 0712 2711763	हॉटेकल्चर	हॉटेकल्चर
		56	भगवती गर्ल्स कनिष्ठ महाविद्याल नंदनवन, नागपूर 0712 2712528	अॉफीस मैनेजमेंट	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		57	शांती विद्याभवन कनिष्ठ महाविद्याल नागपूर 0712 2237031	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		58	स्वामी सिताराम कनिष्ठ महाविद्याल ग्रेट नाग रोड, नागपूर	टुरिझम अँण्ड ट्रॅक्टर टेक्निशियन	टुरिझम अँण्ड हॉस्पिटिलिटी मैनेजमेंट
		59	भद्रत धर्मकिर्ती कनिष्ठ महाविद्याल अमर ज्योती नगर, नागपूर 0712 2631686.	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट

1	2	3	4	5	6
		60	सिंधू कनिष्ठ महाविद्याल पांचपावली, नागपूर 0712 2640368	इन्शुरन्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	बॉक्स, फायनन्शियल सर्किसेस, इन्शुरन्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन
		61	सिंधी हिंदी कनिष्ठ महाविद्याल खामला, नागपूर 0712 2285620	आॅफीस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग ऑप्ड सेल्समनशिप	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		62	क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले कन्या कनिष्ठ महाविद्याल नरखेड 07105 232034	मार्केटिंग ऑप्ड सेल्समनशिप बेकरी व कन्फेक्शनरी अकॉर्टिंग ऑप्ड ऑडीटींग	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट फुड प्रॉडक्शन अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
एकूण नागपूर जिल्हा	62				
भंडारा	1	जे.एम.पटेल कनिष्ठ महाविद्यालय भंडारा	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई. डी.ए./ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी	
	2	आर.एस जी. के अग्रवाल कनिष्ठ महाविद्याल तुमसर	एम.आर.ई. डी.ए./ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग ऑप्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
	3	लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय विद्यालय तुमसर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग ऑप्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
	4	इंदुताई कनिष्ठ महाविद्याल तुमसर	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन बिल्डिंग मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी पर्चेसिंग ऑप्ड स्टोअर किपिंग आर.एम. आर.ई.एम. मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी लांजीस्टीक ऑप्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन	
	5	एस.ई.एसे.कनि. महा.साकोली (नंदलाल पाटील कापगते)	हॉटीकल्चर अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन बिल्डिंग मैनेजमेंट	हॉटीकल्चर अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी	
	6	समर्थ कनिष्ठ महाविद्याल लाखनी	एम.आर.ई. डी.ए./ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	
	7	प्रकाश कनिष्ठ महाविद्याल अडयाळ	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन बिल्डिंग मैनेजमेंट	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी	
	8	सिध्धार्थ कनिष्ठ महाविद्याल लाखांदर	इनलॉड फिशरीज हॉटीकल्चर मेडीकल लॉब टेक्निशियन(बंद)	फिशरी टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर मेडीकल लॉब टेक्निशियन(बंद)	
एकूण भंडारा जिल्हा	8				
गोंदिया	1	शहिद मिश्रा कनिष्ठ महाविद्याल तिरोडा	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन अकॉर्टिंग ऑप्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
	2	श्रीमती विमलताई कनिष्ठ महाविद्याल गोंदिया	बिल्डिंग मैनेजमेंट अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन डेअरी टेक्नॉलॉजी	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अन्नामल हसबन्डरी ऑप्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी	
	3	धोटे बंधु कनिष्ठ महाविद्याल गोंदिया	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	
	4	बी.एच.जे. कनिष्ठ महाविद्याल गोंदिया	अकॉर्टिंग ऑप्ड ऑडीटींग आर.एम. आर.ई.एम.	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	
	5	आदर्श कनिष्ठ महाविद्याल आमगांव	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	
	6	विद्यानिकेतन कनिष्ठ महाविद्याल	बिल्डिंग मैनेजमेंट	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी	
			अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी	

1	2	3	4	5	6
			आमगांव	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग एम.आर.ई.डि.ए.	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		7	रविंद्र कनिष्ठ महाविद्याल चोपा	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. हॉटीकल्चर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर
		8	सुदामा कनिष्ठ महाविद्याल आसोली	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग एम.आर.ई.डि.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
	एकूण गोदिया जिल्हा	8			
वर्धा	वर्धा	1	जे.बी. सायन्स कनिष्ठ महाविद्याल वर्धा 07152 230515	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. इनलैंड फिशरीज	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी फिशरी टेक्नॉलॉजी
		2	न्यु इंग्लिश कनिष्ठ महाविद्याल वर्धा 07152 242204	एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		3	रुरल इंस्टीट्युट, कनिष्ठ महाविद्याल पिपरी, जि. वर्धा (मेरे) 07152 230518	एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मैनेनन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाइल टेक्नॉलॉजी
		4	यशवंत कनिष्ठ महाविद्याल वर्धा 07152 243120	कुकरी बेकरी व कन्फेक्शनरी	फुड प्रॉडक्शन फुड प्रॉडक्शन
		5	यशवंत कनिष्ठ महाविद्याल वायगाव (निपाणी) 07152 280031	बिल्डिंग मैनेनन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाइल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		6	गर्ल्स कनिष्ठ महाविद्याल आंजी (मोठे) 07152 263025	बेकरी व कन्फेक्शनरी कुकरी क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मैनेजमेंट	फुड प्रॉडक्शन फुड प्रॉडक्शन चाईल्ड, ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ के अर सर्किंस
		7	कै. आनंदराव मेथे कनिष्ठ महाविद्याल बोरगांव (मेरे)	बिल्डिंग मैनेनन्स आर.एम.आर.ई.एम. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
		8	लोकमान्य कनिष्ठ महाविद्याल आष्टी, जि. वर्धा 07152 242435	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स	अंटोमोबाइल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स
		9	एस.एस.एन.जे.कनिष्ठ महाविद्याल देवढी 07158 254156	एम.आर.ई.डि.ए. हॉटीकल्चर बेकरी व कन्फेक्शनरी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर फुड प्रॉडक्शन
		10	श्रीमती सखुबाई खडकर कनिष्ठ महाविद्याल गिरोली 07158 258519	बिल्डिंग मैनेनन्स बेकरी व कन्फेक्शनरी	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी फुड प्रॉडक्शन
		11	आर. ए. बिडकर कनिष्ठ महाविद्याल हिंगणाघाट 07153 244083	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाइल टेक्नॉलॉजी
		12	भारत उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्याल हिंगणाघाट 07153 244114	एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मैनेनन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाइल टेक्नॉलॉजी
		13	विद्या विकास कनिष्ठ महाविद्याल समुद्रपूर 07151 225464	आर.एम.आर.ई.एम. क्रॉप सायन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स अंटोमोबाइल टेक्नॉलॉजी
		14	विकास कनिष्ठ महाविद्याल कोरा (समुद्रपूर) 07151 234423	पालट्री प्रॉडक्शन क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर	अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड डे अरी टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर
		15	विकास कनिष्ठ महाविद्याल समुद्रपूर 07152 225457	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए. हॉटीकल्चर	अंटोमोबाइल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर

1	2	3	4	5	6	
		16	मॉडेल कनिष्ठ महाविद्याल आर्वो 07157 222213	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी	
			17 मॉडेल कनिष्ठ महाविद्याल कारंजा (घाडगे) 07156 245830	बिल्डिंग मेन्टेनन्स एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी	
			18 लोक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्याल वर्धा 07152 242435	बिल्डिंग मेन्टेनन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
		19	हुतात्मा राष्ट्रीय क. महाविद्यालय, आष्टी, जि वर्धा	बिल्डिंग मेन्टेनन्स एम.आर.ई.डि.ए. मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	
			20 ख. वत्सलाबाई गोहाड क. महाविद्यालय, तळेगांव, ता आष्टी, जि. वर्धा	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
		एकूण वर्धा जिल्हा	20			
			चंद्रपूर	भवानजीभाई चहान कनिष्ठ महाविद्याल चंद्रपूर, मुल रोड चंद्रपूर 07172 255378	एम.आर.ई.डि.ए. मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन बिल्डिंग मेन्टेनन्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॉबोरेटरी टेक्निशियन कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
			2	आर.ए.किंदवाई मेमोरीयल कनिष्ठ महाविद्याल चंद्रपूर 07172 254492	एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
			3	सम्राट अशोक कनि. महा चिचपल्ली 07172 233101	एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन ऑफीस मैनेजमेंट	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन ऑफीस मैनेजमेंट
			4	हिस्लांप कनिष्ठ महाविद्याल चंद्रपूर 07172 251753	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग कुकरी एम.आर.ई.डि.ए.	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट फुड प्रॉडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
			5	जनता कनिष्ठ महाविद्याल घुघ्युस 07172 285117	बिल्डिंग मेन्टेनन्स डेअरी टेक्नॉलॉजी बॉकिंग	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अँनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
			6	सरदार पटेल कनिष्ठ महाविद्याल चंद्रपूर गंज वार्ड चंद्रपूर 07172 325991 फॅक्स 256537	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग कुकरी	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट फुड प्रॉडक्शन
			7	जनता कनिष्ठ महाविद्याल चंद्रपूर सिक्किल लाइन्स चंद्रपूर 07172 251794 फॅक्स 276852	क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
			8	डॉ. आंबेडकर कला वाणिज्य कनि. महा चंद्रपूर, वरोरा नाका चंद्रपूर. 07172 255776,256080	ऑफीस मैनेजमेंट पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग बॉकिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
			9	कर्मचार कनिष्ठ महाविद्याल मुल स्व. दादासाहेब कन्नमवार विद्यानगरी मुल 0714 220238	हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स इनलॉड फिशरीज	हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स फिशरी टेक्नॉलॉजी
			10	नवभारत कनिष्ठ महाविद्याल मुल, जि. चंद्रपूर 07174 220226	बिल्डिंग मेन्टेनन्स एम.आर.ई.डि.ए. बेकरी व कन्फेक्शनरी	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी फुड प्रॉडक्शन
			11	विश्वशांती कनिष्ठ महाविद्याल सावली जि. चंद्रपूर 07174 274743	क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर एम.आर.ई.डि.ए.	क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
			12	कर्मचार कनिष्ठ महाविद्याल येनबोडी ता. बल्लारपुर जि. चंद्रपूर 07172 244134	हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स एम.आर.ई.डि.ए.	हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी

1	2	3	4	5	6
		13	जनता कनिष्ठ महाविद्याल कोठारी ता. बल्लारपूर जि. चंद्रपूर 07172 244141	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप एम.आर.ई.डि.ए.	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		14	नेवजाबाई हितकारणी कनिष्ठ महाविद्याल ब्रह्मपुरी 07177 273293 फॉक्स 272033,272150	बिल्डिंग मेन्टेनन्स इनलैंड फिशरीज मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी फिशरी टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		15	जनता कनिष्ठ महाविद्याल नागभीड जि. चंद्रपूर 07179 240025	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग एम.आर.ई.डि.ए.	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		16	महात्मा फुले कनिष्ठ महाविद्याल तलोदी बालापुर ता. नागभीड जि. चंद्रपूर 07179 236434	एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		17	हिरालाल लोहाया कनिष्ठ महाविद्याल वरोरा जि. चंद्रपूर 07176 282058	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी
		18	किसान कनिष्ठ महाविद्याल माढ़ी ता. वरोरा जि. चंद्रपूर 07176 268049	क्रॉप सायन्स मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	क्रॉप सायन्स मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		19	विवेकानंद कनिष्ठ महाविद्याल भद्रावती 07175 266120,267396	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर बॉकिंग	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी हॉटीकल्चर बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किसेस, इन्शुरन्स
		20	यशवंतराव शिंदे कनिष्ठ महाविद्याल चिंचोर्डी ता. भद्रावती जि. चंद्रपूर 07175 266425 फॉक्स 266425	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप क्रॉप सायन्स	ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट क्रॉप सायन्स
		21	कर्मचार कनिष्ठ महाविद्याल गवराळा ता. भद्रावती जि. चंद्रपूर 07175 265012	एम.आर.ई.डि.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		22	संजय गांधी कनिष्ठ महाविद्याल पेल्लोरा ता. राजुरा जि. चंद्रपूर	हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		23	शिवाजी कनिष्ठ महाविद्याल राजुरा 07173 222215	हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		24	महात्मा गांधी कनिष्ठ महाविद्याल गडचांदुर ता. कोरपणा जि. गडचांदुर 07173 246532	हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		25	पं. जवाहरलाल नेहरू कनिष्ठ महाविद्याल आवळापुर ता. कोरपणा 07173 266403	हॉटीकल्चर अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डि.ए.	हॉटीकल्चर ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		26	सावित्रीबाई फुले कनिष्ठ महाविद्याल गडचांदुर ता. कोरपणा 07173 246619	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी
		27	जनता कनिष्ठ महाविद्याल पोभुर्णा , जि. चंद्रपूर 07171 265609	क्रॉप सायन्स मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप एम.आर.ई.डि.ए.	क्रॉप सायन्स मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		28	शिवाजी कनिष्ठ महाविद्याल विठलवाडा , ता. गोडपिपरी जि. चंद्रपूर 07171 256148	हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		29	जनता कनिष्ठ महाविद्याल गोडपिपरी 07171 220107	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग बिल्डिंग मेन्टेनन्स पोल्ट्री प्रॉडक्शन	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अँनीमल हसबन्डरी अँण्ड डे अरी टेक्नॉलॉजी
एकूण चंद्रपूर जिल्हा	29				
गडचिरोली	1	महात्मा गांधी कनिष्ठ महाविद्याल आरमोरी 07137 266874	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट	

1	2	3	4	5	6
	2	शिवाजी कला वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्याल धानोरा रोड गडचिरोली 07132 232944	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग मार्किंग अँण्ड सेल्समनशिप	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट लॉजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट मार्किंग रिटेल मैनेजमेंट	
	3	शिवाजी हायस्कुल व कनि. महा . गोकुळ नगर गडचिरोली	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मेन्टेनन्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी	
	4	सिंधुताई पोरेडडीवार कनिष्ठ महाविद्याल गोगाव ता. जि. गडचिरोली 07132 237139	डेअरी टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स इनलॉड फिशरीज	अँनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स फिशरी टेक्नॉलॉजी	
	5	महात्मा गांधी कनिष्ठ महाविद्याल देसाईंग जि. गडचिरोली 07137 272575	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी	
	6	बाबुराव मडावी कनिष्ठ महाविद्याल देसाईंग जि. गडचिरोली मोबा. 9420512586	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग मार्किंग अँण्ड सेल्समनशिप पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपिंग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्किंग रिटेल मैनेजमेंट लॉजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट	
	7	शिवाजी कनिष्ठ महाविद्याल कुरखेडा जि. गडचिरोली 07139 245330	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डि.ए. मार्किंग अँण्ड सेल्समनशिप	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी मार्किंग रिटेल मैनेजमेंट	
	8	विद्याभारती कनिष्ठ महाविद्याल पुराडा ता. कुरखेडा जि. गडचिरोली 07139 202049	हॉटीकल्चर	हॉटीकल्चर	
	9	शिवाजी हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्याल चामोर्शा जि. गडचिरोली 07135 235057	एम.आर.ई.डि.ए. मार्किंग अँण्ड सेल्समनशिप पोल्ट्री प्राइवेशन बंद	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी मार्किंग रिटेल मैनेजमेंट अँनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी	
	10	महात्मा ज्योतीबा फुले हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्याल आष्टी ता. चामोर्शा	क्रॉप सायन्स मार्किंग अँण्ड सेल्समनशिप	क्रॉप सायन्स मार्किंग रिटेल मैनेजमेंट	
	11	राजे धर्मराव कला वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्याल आलापल्ली जि. गडचिरोली 07133 266443	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अँटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी	
	12	शंकरराव बेंगलवार कला वाणिज्य कनि. महा अहेरी 07133 266443	अकॉर्टिंग अँण्ड ऑडीटींग	अकॉर्टिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
एकूण गडचिरोली जिल्हा	12				
नागपूर विभाग एकूण	139				
एकूण महाराष्ट्र	920				

2 स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम  
कायम विना अनुदानित संस्थांची संस्थनिहाय व अभ्यासक्रमाची माहिती

विभाग	जिल्हा	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	नवीन सुधारित व्यवसाय अभ्यासक्रम
1	2	3	4	5
मुंबई विभाग	मुंबई शहर	1 शारदाश्रम विद्यामंदिर तांत्रिक विद्यालय, दादर	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
		2 म.फुले तां.वि.परेल, मुंबई-12	मेडिकल लैंब टेक्निशियन	मेडिकल लैंब टेक्निशियन
		3 कला विद्या एज्यु.सोसायटीचे कलाविद्या संकुल गिरगाव, चॅर्नरोड, मुंबई	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
			ऑफिस मॅनेजमेंट	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
			इन्शुरन्स	बॉर्किंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स
			बॉर्किंग	बॉर्किंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स
		4 श्री.यशवंत राव चव्हाण प्रसारक मंडळाचे नवहिंद ज्यु.कॉलेज ऑफ कॉर्मस आर्ट्स अँण्डकोकेशनल शिंदेवाडी,दादर,मुंबई.	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
			बॉर्किंग	बॉर्किंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स
			ऑफिस मॅनेजमेंट	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
एकूण मुंबई शहर	4			
मुंबई उपनगर	1 अमरशाहिद हेमूकलानी यादगार मंडळ, ज्यु.कॉलेज, इनलॅक्स हॉस्पिटल जवळ, चेंबूर कॉलनी, चेंबूर, मुं-74	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी	
		बॉर्किंग	बॉर्किंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स	
		इन्शुरन्स	बॉर्किंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स	
	2 एस्प्लनेड एज्यु सोसायटीचे एस्प्लनेड ज्यु कॉलेज ऑफ कार्मस बोहरा कॉलनी एम जी रोड कांदीवली पश्चिम मुंबई 67	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी	
		अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट	
		बॉर्किंग	बॉर्किंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स	
		ऑफिस मॅनेजमेंट	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट	
	3 कमलाबाई एज्यु अँण्ड चॅरिटेबल टस्टचे अग्रसेन हिंदी विद्यालय विक्रोठी पश्चिम मुंबई 79	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी	
		अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट	
		ऑफिस मॅनेजमेंट	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट	
	4 संस्कार सर्जन एज्युकेशन सोसायटी चे पी.डी तुराकिया ज्यु कॉलेज कूरारगांव मालाड पूर्व - मुंबई 97	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी	
		अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट	
		बॉर्किंग	बॉर्किंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स	
	5 श्री समर्थ एज्युकेशन सोसायटीचे श्री समर्थ विद्यालय बांद्रेकर वाडी जोगेश्वरी पूर्व मुंबई 60	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी	
		अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट	
		एम.आर.ई.डी.ए.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी	
	6 विलेपार्ल महिला संघ संचलित लायन्स जुहू नंदलाल जालान (ए.ल.जे.एन.जे.) महिला महाविद्यालय (दिग्री आणि ज्यु. कॉलेज) मुंगलायतन, परांजपे बी स्कॉम रोड नं. 1 विलेपार्ल	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी	
		अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट	
		मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट	

1	2	3	4	5
		7 श्री एम डी भुता चॉरिटेबल संचलित काशीबाई नगरदास भुता व्होकेशनल टेक्निकल ज्यु कॉलेज अंधेरी पूर्व मुंबई 67 8 श्री एकविरा ज्ञानप्रसारक मेडिलाचे श्री एकविरा विद्यालय चारकोप सेकटर-1प्लॉट नं.2/148कांदीवली पश्चिम मुंबई67 9 विक्रोली जनता शिक्षण प्रसारक मंडळ द्वारा संचलित प्रगती विद्यालय गोराई 2 बोरिवली (प) मुंबई 91 10 ठाकुर एज्यु टस्ट संचलित ठाकुर कॉलेज ऑफ सायन्स अॅण्डकॉर्मर्स शामनारायण ठाकुर मार्ग कांदीवली पूर्व मुंबई 101	कॉम्प्युटर टेक्निक्स मल्टीमीडिया इंटरनेट टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स अकौटिंग अॅण्ड ऑडिटिंग मार्केटिंग अॅण्ड सेल्समनशियप अकौटिंग अॅण्ड ऑडिटिंग इन्शुरन्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट मार्केटिंग सिटेल मॅनेजमेंट अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट बॉर्किंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स
		11 विवेकानंद एज्युकेशन सोसायटीचे स्वामी विवेकानंद विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय कूर्लो नेहरुनगर मुंबई - 24	अकौटिंग अॅण्ड ऑडिटिंग ऑफिस मॅनेजमेंट एम.आर.ई.डी.ए. इन्शुरन्स मेडिकल लॉब टेक्निशियन टुरिझम अॅण्ड ट्रॉफल टेक्निक्स	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी बॉर्किंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स मेडिकल लॉब टेक्निशियन टुरिझम अॅण्ड हॉस्पिटलिटी मॅनेजमेंट
		12 टि.एस.बाफना कनिष्ठ महाविद्यालय,मालाड(प), मुंबई-87 13 स्वामी विवेकानंद कनिष्ठ महाविद्यालय,हिंदी माध्यम,चेबुर,मुंबई	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
		14 चैतन्य विद्यापिठ,देवी महालक्ष्मी कॉलेज,मराठी म्युनिसिपल शाळा, टॅक रोड, भांडूप(प), मुंबई-78	मेडिकल लॉब टेक्निशियन एक्स.रे टेक्निशियन	मेडिकल लॉब टेक्निशियन रेडिओलॉजी टेक्निशियन
		15 नालंदा एज्यु.फाऊंडेशन संचलीत डॉ बाब साहेब आंबेडकर ज्यु.कॉलेज आर्ट्स सायन्स व कार्मस कॉलेज,पी.एल.लोखंडे मार्ग चेबूर (प)मुंबई	कॉम्प्युटर टेक्निक्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी आर.एम.आर.ई.एम. बॉर्किंग अकौटिंग अॅण्ड ऑडिटिंग इन्शुरन्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी बॉर्किंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट बॉर्किंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स
		16 कोकणे जोहिनूर टेक्निकल ट्रस्ट संचलीत कोहीनूर ज्यु.कॉलेज,पेस्म सागर,रोड नं.3,आशानगर चेबूर,मुंबई	कुकरी बेकरी व कन्फेक्शनरी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	फुड प्रॉडक्शन फुड प्रॉडक्शन अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
		17 माता गंगाजली चौथी पाल एज्यु.ट्रस्ट,24,नाळा,मुंबई राणी सती संचलीत	कॉम्प्युटर टेक्निक्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
एकूण मुंबई उपनगर	17			
ठाणे	1	हिंदी ज्यु.कॉलेज,कल्याण	अकौटिंग अॅण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
	2	बिर्ला कॉलेज कल्याण	अकौटिंग अॅण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
	3	जी.आर.पाटील कनिष्ठ महाविद्यालय, डॉबिवली(पूर्व),	मेडिकल लॉब टेक्निशियन	मेडिकल लॉब टेक्निशियन
	4	जीवनदीप शैक्षणिक संस्था, पोई, कल्याण, जिल्हा-ठाणे	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी

1	2	3	4	5
		<p>5 जनरल एज्युकेशन सोसायटीचे ज्यु.कॉलेज,कल्याण</p> <p>6 श्री.ज्ञानराज माऊली शिक्षण सेवा मंडळ,संचलीत अचिकर्स ज्यु.कॉलेज,जय भगवान टॉवर्स कल्याण</p> <p>7 एन.के.टी.अॅण्ड रतन बुआ पाटील टेक्निकल ज्यु.काटाई नाका शीळ फाटा रोड</p>	<p>इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी</p> <p>अकौटिंग अॅण्ड ऑडिटिंग</p> <p>कॉम्प्युटर टेक्निक्स</p> <p>मार्केटिंग अॅण्ड सेल्समनशिप</p> <p>इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी</p> <p>एम.आर.ई.डी.ए.</p> <p>कॉम्प्युटर टेक्निक्स</p> <p>मल्टीपिडिया इंटरनेट टेक्नॉलॉजी</p> <p>अकौटिंग अॅण्ड ऑडिटिंग</p> <p>एक्स-रे टेक्निशिअन</p> <p>मेडिकल लॉब टेक्निशियन</p> <p>बॉकिंग</p>	<p>इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी</p> <p>अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट</p> <p>कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी</p> <p>मार्केटिंग अॅण्ड सेल्समनशिप</p> <p>इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी</p> <p>इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी</p> <p>कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी</p> <p>कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी</p> <p>अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट</p> <p>रेडिओलॉजी टेक्निशियन</p> <p>मेडिकल लॉब टेक्निशियन</p> <p>बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स</p>
		<p>8 लक्ष्मण देवराम सोनावणे कनिष्ठ महाविद्यालय,भिवंडी, मुरबाड रोड,वाडेघर, कल्याण(प)</p>	<p>कॉम्प्युटर टेक्निक्स</p> <p>मल्टीपिडिया इंटरनेट टेक्नॉलॉजी</p> <p>मार्केटिंग अॅण्ड सेल्समनशिप</p> <p>टुरिझम अॅण्ड ट्रॉफल टेक्निक्स</p> <p>बॉकिंग</p>	<p>कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी</p> <p>कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी</p> <p>मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट</p> <p>टुरिझम अॅण्ड हॉस्पिटेलिटी मॅनेजमेंट</p> <p>बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स</p>
		<p>9 मुंब्रा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे जी.आर.पाटील कनिष्ठ महाविद्यालय, बदलापूर</p>	मेडिकल लॉब टेक्निशियन	मेडिकल लॉब टेक्निशियन
		<p>10 महात्मा गांधी नेरुळ</p>	<p>कॉम्प्युटर टेक्निक्स</p> <p>ऑप्थोलॉमिक टेक्निशियन</p>	<p>कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी</p> <p>ऑप्थोलॉमिक टेक्निशियन</p>
		<p>11 श्री.माँ बालनिकेतन,ठाणे</p>	<p>इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी</p> <p>कॉम्प्युटर टेक्निक्स</p>	<p>इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी</p> <p>कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी</p>
		<p>12 एन.आर. भगत ज्यु.कॉलेज, नेरुळ,नवी मुंबई</p>	<p>कॉम्प्युटर टेक्निक्स</p> <p>बॉकिंग</p>	<p>कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी</p> <p>बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स</p>
		<p>13 संत अग्रसेन हायस्कुल,वाघोबा नगर,कळवा ,(पूर्व)</p>	<p>मार्केटिंग अॅण्ड सेल्समनशिप</p> <p>ऑफिस मॅनेजमेंट</p>	<p>मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट</p> <p>अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट</p>
		<p>14 हबीब एल्ज्युकेशन अॅण्डवेल्फर सोसायटीचे सोयेब हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय,मुंब्रा, जिल्हा-ठाणे</p>	<p>एम.आर.ई.डी.ए.</p> <p>एक्स-रे टेक्निशिअन</p> <p>बॉकिंग</p> <p>मार्केटिंग अॅण्ड सेल्समनशिप</p> <p>मार्केटिंग अॅण्ड सेल्समनशिप</p> <p>कॉम्प्युटर टेक्निक्स</p> <p>ऑप्थोलॉमिक टेक्निशियन</p> <p>अकौटिंग अॅण्ड ऑडिटिंग</p> <p>मेडिकल लॉब टेक्निशियन</p>	<p>इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी</p> <p>रेडिओलॉजी टेक्निशियन</p> <p>बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स</p> <p>मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट</p> <p>मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट</p> <p>कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी</p> <p>ऑप्थोलॉमिक टेक्निशियन</p> <p>अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट</p> <p>मेडिकल लॉब टेक्निशियन</p>
		<p>15 शारदा एज्युकेशन सोसायटीचे आनंद विश्व गुरुकुल ख्युनाथ नगर,जिल्हा-ठाणे</p>	<p>इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी</p> <p>कॉम्प्युटर टेक्निक्स</p>	<p>इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी</p> <p>कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी</p>
		<p>16 शेठ हिराचंद मुथा कनिष्ठ महाविद्यालय,</p>	<p>एक्स-रे टेक्निशिअन</p> <p>अकौटिंग अॅण्ड ऑडिटिंग</p> <p>बॉकिंग</p>	<p>रेडिओलॉजी टेक्निशियन</p> <p>अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट</p> <p>बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स</p>

1	2	3	4	5
		17 सरस्वती ज्यु.कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँण्डकॉमर्स,सिडको,को,5 जिल्हा ठाणे	ऑफिस मैनेजमेंट इन्शुरन्स	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट बैंकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स
		18 उत्कर्ष मंडळाचे शिरवणे विद्यालय व ज्यु.कॉलेज,प्लॉट नं.12,सेक्टर,जिल्हा -ठाणे	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
		19 श्री.मॉ. एज्युकेशन ट्रस्टचे श्री.मॉ विद्यालय,घोडबंदर रोड समोर,पातलीपाडा, जि.ठाणे	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स मेडिकल लॉब टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॉब टेक्निशियन
		20 श्री.ज्ञानवर्धिनी संस्थेचे श्री.राजर्षि शाहु विद्यालय,बाफना मोर्टर्स,जिल्हा-ठाणे	कॉम्प्युटर टेक्निक्स बैंकिंग	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी बैंकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स
		21 शुभराजे कनिष्ठ महाविद्यालय,माझी आई शाळा संकुलन,घोडबंदर रोड, पातलीपाडा, ठाणे-7	इन्शुरन्स	बैंकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स
		22 विश्वश्वर एज्युकेशन सोसायटीचे वेस्टन कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँण्डबिझनेस मैनेजमेंट,प्लॉट नं.2सानपाडा, नवीमुंबई	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप इन्शुरन्स ऑफिस मैनेजमेंट	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट बैंकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		23 सहज जीवन एज्युकेशन ट्रस्ट संचलीत एस.एस.हायस्कूल अँण्डज्यु.कॉलेज,प्लॉट नं.9 सेक्टर-44 सीवुडस,नेरुळ, नवी मुंबई	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग पर्चेंसिंग अँण्ड स्टोअर किर्पोग ऑफिस मैनेजमेंट	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		24 श्री.पांचाळ समाज मध्यवर्ती मंडळ यशवंतराव कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स अँण्डसायन्स, पालघर	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग एम.आर.ई.डी.ए. मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप कॉम्प्युटर टेक्निक्स बिलिंग मेन्टेनन्स	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		25 जाणता राजा श्री.शिवराजे बहूउद्योगिशय सेवा संस्था,ता.विक्रमगड,जि.ठाणे संचलीत आदर्श कनिष्ठ महाविद्यालय,कळ्या, जि.ठाणे	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		26 खानदेश विदर्भ मित्र मंडळ संचलीत श्री.आर.व्ही.पवार ज्यु.कॉलेज ऑफ आर्ट्स,कॉमर्स अँण्ड व्होकशन भारत कॉलनी,जिल्हा-ठाणे	बैंकिंग इन्शुरन्स अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	बैंकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स बैंकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
एकूण ठाणे	26			
रायगड	1	सामाजिक आरोग्य सेवाभावी संस्था बोरली पंचतन श्रीवर्धन रायगड,संचलित न्यू मॉडर्न इंगिलिश स्कूल,बोरलीपंचतन, (शिस्ते) श्रीवर्धन, जिल्हा रायगड	मेडिकल लॉब टेक्निशियन	मेडिकल लॉब टेक्निशियन
	2	देवी सरस्वतील शिक्षण प्रसारक मंडळ,महाड, मुं.रेवतळे, फाटा, पो.नागाव, जिल्हा रायगड	बैंकिंग	बैंकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स
	3	लक्ष्मी चॅरीटेबल ट्रस्टचे लक्ष्मी स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्रो नवीन पनवेल, जिल्हा रायगड	ऑप्थोल्मिक टेक्निशियन	ऑप्थोल्मिक टेक्निशियन

1	2	3	4	5
		4 यशवंत मेमोरीअल ट्रस्ट पनवेल, ता. पनवेल, जिल्हा रायगढ	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग कॉम्प्युटर टेक्निक्स	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
		5 ज्ञानसागर शिक्षण संस्था ,निजामपूर,संचलीत कनिष्ठ महाविद्यालय, माणगांव, जिल्हा रायगढ.	अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मेन्टेनेन्स	अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
	एकूण रायगढ	5		
रत्नागिरी	1	मंदार एज्युकेशन सोसायटीचे सौ. शैलजा शिंदे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पेढांबे, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डी.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
	2	न्यू इग्लिश स्कूल अँण्डज्युनिअर कॉलेज सावर्डे, ता. चिपळूण	अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मेक्निकल टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स पोस्ट हार्वर्स्ट टेक्नॉलॉजी	अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी हॉर्टीकल्चर
	3	श्रीमती क. पां. मुळे हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, कोळंबे, ता. संगमेश्वर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डी.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
एकूण रत्नागिरी	3			
सिंधुदुर्ग	1	शिवराज मराठा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय,साळगाव जि.सिंधुदुर्ग	अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन दुरिझम अँण्ड ट्रक्हल टेक्निक्स	अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी दुरिझम अँण्ड हॉस्पिटेलिटी मैनेजमेंट
	2	न्य.शिवाजी हायस्कूल कनिष्ठ विद्यालय,जांभवडे ता.कुडाळ जि.सिंधुदुर्ग	अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
	3	श्रीराम मोरेश्वर गोगटे माध्यमिक विद्यामंदिर जामसंडे ता. देवगड.	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
	4	श्रीमती एन.एस. पतवालावलकर ज्यु.कॉलेज, देवगड ता.देवगड जि.सिंधुदुर्ग	इन्शुरन्स मेडिकल लॅब टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	बॉर्किंग, फायनन्शियल सर्किसेस, इन्शुरन्स मेडिकल लॅब टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
	5	श्री.भगवती एज्युकेशन सोसा.मुणगे ता.देवगड जि.सिंधुदुर्ग	अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डी.ए.	अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
	एकूण सिंधुदुर्ग	5		अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग
एकूण मुंबई विभाग	60			
नाशिक	1	श्री गुरुदेव शिक्षण प्रसारक मंडळ , संचलित स्वामी मुक्तानंद ज्यु.कॉलेज, येवला जि.नाशिक	मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नॉलॉजी	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
एकूण नाशिक	1			
धुळे	1	श्री.भगवती शैक्षणिक व सांस्कृ.मंडळ धुळे संचलीत, कै.रामसिंग पावरा ज्यू. कॉलेज,चिंचपाणी (बुडकी बोराडी) ता.शिरपूर, जि.धुळे.	मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नॉलॉजी	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	2	श्री.भगवती शैक्षणिक व सांस्कृतिक मंडळ धुळे संचलीत, श्री.एस.जी.पाटील ज्यू. कॉलेज,धुळे,जि.धुळे	मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नॉलॉजी दुरिझम अँण्ड ट्रक्हल टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी दुरिझम अँण्ड हॉस्पिटेलिटी मैनेजमेंट
	3	मानव विकास परिसर संचलीत राजीव गांधी कनिष्ठ महाविद्यालय, देवपूर, धुळे	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
	4	आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळ, आदर्श कॉलनी नकाणे रोड धुळे संचलीत बापूसाहेब डी.डी.विसपुते माध्य.विद्यालय, वलवाडी,देवपूर, धुळे	ऑफिस मैनेजमेंट मेडिकल लॅब टेक्निशियन हॉर्टीकल्चर	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मेडिकल लॅब टेक्निशियन हॉर्टीकल्चर

1	2	3	4	5
	5	महाविर एज्य.सोसा.संचलीत कर्म.भाऊराब पाटील टेक्नीकल ॲण्ड पॉर्मेडीकल इन्स्टीटयुट, धुळे, जि.धुळे	मेडिकल लैंब टेक्निशियन	मेडिकल लैंब टेक्निशियन
	6	धन्वंतरी चौरटेबर ट्रस्ट धुळे संचलीत ज्युनिअर कॉलेज, अजळकर नगर, प्लॉटनं.6,चित्तोड नाक्याजवळ,धुळे	मेडिकल लैंब टेक्निशियन क्रेच ॲण्ड प्री स्कूल मॅनेजमेंट	मेडिकल लैंब टेक्निशियन चाईल्ड,ओल्ड ऐज ॲण्ड हेल्थ केअर सर्किंस
एकूण धुळे	6			
नंदुरबार		नि रं क		
एकूण नंदुरबार	0			
जळगांव	1	माध्यमिक विद्यालय, पथराड ता. धरणगांव	हॉटीकल्चर	हॉटीकल्चर
	2	श्री साई समर्थ उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम , भडगांव ता. भडगांव जि. जळगांव	एम.आर.ई.डी.ए. कॉम्प्युटर टेक्निक्स मेडिकल लैंब टेक्निशियन	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी मेडिकल लैंब टेक्निशियन
एकूण जळगांव	2			
अहमदनगर	1	तुळजाभवानी सेवा प्रतिष्ठान, वांगदरी ता.श्रीगोंदा	अकौटिंग ॲण्ड ऑडिटिंग ऑफिस मॅनेजमेंट इन्शुरन्स बॉकिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स
	2	समर्थ कनिष्ठ महाविद्यालय (कला,वाणिज्य व विज्ञान) गुंडेगांव ता.जि.अहमदनगर	एम.आर.ई.डी.ए. कॉम्प्युटर टेक्निक्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
	3	काकासाहेब महस्के मेमोरियल मेडीकल फौडेशन संचलित ज्युनिअर कॉलेज, नागापूर, बोलेगांव फाटा, अहमदनगर	ऑप्यॉल्मिक टेक्निशियन मेडिकल लैंब टेक्निशियन एक्स-रे टेक्निशियन दुरिझम ॲण्ड ट्रॅक्ल टेक्निक्स	ऑप्यॉल्मिक टेक्निशियन मेडिकल लैंब टेक्निशियन रेडिओलॉजी टेक्निशियन दुरिझम ॲण्ड हॉस्पिटिलिटी मॅनेजमेंट
	4	महाराष्ट्र तांत्रिक शिक्षण मंडळाचे कॉलेज ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नॉलॉजी ॲण्ड रिसर्च, हॉटेल ओबराय समोर, सावेडी रोड, अहमदनगर	कॉम्प्युटर टेक्निक्स मार्केटिंग ॲण्ड सेल्समनशिप मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नॉलॉजी	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	5	ग्रामीण विकास मंडळाचे एम.आय.डी.सी. माध्यमिक व उच्च माध्य.विद्यालय, एन 95/1, नागापूर, अहमदनगर	कॉम्प्युटर टेक्निक्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बॉकिंग	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स
	6	अपुर्वा कॉम्प्युटर्स इन्स्टीटयुट, न्यु.आर्ट्स कॉलेज जवळ, सिध्दीबाग, अहमदनगर	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	7	जीवनज्योत उच्च माध्यमिक विद्यालय, बॉम्बे नर्सिंग होम, मुंकुंदनगर, अहमदनगर	कॉम्प्युटर टेक्निक्स एक्स-रे टेक्निशियन मेडिकल लैंब टेक्निशियन	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी रेडिओलॉजी टेक्निशियन मेडिकल लैंब टेक्निशियन
	8	ना.भा.तांबे ज्युनिअर कॉलेज ऑफ एम.सी.व्ही.सी., जामखेड ता.जामखेड	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी ॲटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी ॲटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
	9	कोळपेवाडी ग्रामीण समाजसेवी संस्था, कोळपेवाडी, ता.कोपरगांव	मेडिकल लैंब टेक्निशियन अकौटिंग ॲण्ड ऑडिटिंग कॉम्प्युटर टेक्निक्स	मेडिकल लैंब टेक्निशियन अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	10	ग्रामीण समाजसेवी संस्था संचलित, साईनाथ तंत्रशिक्षण कनिष्ठ महाविद्यालय, कोळपेवाडी,	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स
	11	कमलाताई बाळासाहेब सातभाई तांत्रिक ज्युनिअर कॉलेज, कासली, ता.कोपरगांव	बिल्डिंग मेन्टेनन्स	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी

1	2	3	4	5
		12 महाराष्ट्र तांत्रिक शिक्षण मंडळाचे कॉलेज ऑफ इन्फोटेक अॅण्ड मॅनेजमेंट, खटोड कन्या विद्यालयासमोर, वार्ड नं.3 बाजाररोड, श्रीरामपूर	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
		13 आधार ग्रामीण समाज विकास आणि संशोधन संस्था संचलित, श्रीरामपूर कनिष्ठ महाविद्यालय,	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी ए.म.आर.ई.डी.ए.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		14 शिवतेज एम.सी.व्ही.सी. कनिष्ठ महाविद्यालय, मठी, ता.पाथर्डी	बिल्डिंग मेन्टेनन्स कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	एकूण अहमदनगर	14		
	एकूण नाशिक विभाग	23		
पुणे	1	पंचक्रोशी शतकरी तांत्रिक विद्यालय व व्यवसायिक निष्ठ महाविद्यालय, ता. पुरंदर, जि.	कॉम्प्युटर टेक्निक्स हॉर्टीकल्चर	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी हॉर्टीकल्चर
	2	राजाधनराज पिरीजी हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, रास्ता पेठ, पुणे 11	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	3	अबेदा इनामदार ज्युनिअर कॉलेज, पुणे 5	क्रेच अॅण्ड प्री स्कूल मॅनेजमेंट	चाईल्ड, ओल्ड ऐज अॅण्ड हेल्थ केअर सर्क्हिस
	4	विठलराव शिवरकर विद्यालय व उच्च माध्य. विद्या. वानवडी, पुणे	ऑफिस मॅनेजमेंट	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
	5	अरीहंत कॉलेज, हॉटेल अॅण्ड दुरीझम मॅनेजमेंट, पुलगेट, कम्प, पुणे	बेकरी व कन्फेक्शनरी कुकरी दुरीझम अॅण्ड ट्रॅक्ल टेक्निक्स	फुड प्रॉडक्शन फुड प्रॉडक्शन दुरीझम अॅण्ड हॉस्पिटेलिटी मॅनेजमेंट
	6	सुर्यदता एज्यु. फाउंडेशनचे सुर्यदता कॉलेज ऑफ हॉस्पीटलीटी मॅनेज. अॅण्ड दुरीझम महाराष्ट्र नगर पुणे	कुकरी	फुड प्रॉडक्शन
	7	सुर्यदता एज्यु. फाउंडेशनचे सुर्यदता कॉलेज ऑफ हॉस्पीटलीटी मॅनेज. एॅण्ड दुरीझम महाराष्ट्र नगर पुणे	दुरीझम अॅण्ड ट्रॅक्ल टेक्निक्स	दुरीझम अॅण्ड हॉस्पिटेलिटी मॅनेजमेंट
	8	सुर्यदता एज्यु. फाउंडेशनचे सुर्यदता कॉलेज ऑफ हॉस्पीटलीटी मॅनेज. एॅण्ड दुरीझम महाराष्ट्र नगर पुणे	बेकरी व कन्फेक्शनरी	फुड प्रॉडक्शन
	9	सुदर्शन कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट.बिबेवाडी, पुणे	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	10	श्रीमंत दगडुशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टचे ज्युनिअर कॉलेज, कोंढवा, जि. पुणे	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन बिल्डिंग मेन्टेनन्स कॉम्प्युटर टेक्निक्स मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नॉलॉजी ए.म.आर.ई.डी.ए. आर.एम.आर.ई.एम. इन्शुरन्स अकौटिंग अॅण्ड ऑडिटिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी बॉर्किंग, फायनन्शियल सर्क्हिसेस, इन्शुरन्स अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
	11	किलाबिल हायस्कूल, व ज्युनिअर कॉलेज,जनवाडी , जि. पुणे	क्रेच अॅण्ड प्री स्कूल मॅनेजमेंट अकौटिंग अॅण्ड ऑडिटिंग	चाईल्ड,ओल्ड ऐज अॅण्ड हेल्थ केअर सर्क्हिस अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट

1	2	3	4	5
	12	सिंम्बोयसिस व्हाकेशनल ज्युनिअर कॉलेज, मॉडेल कॉलनी पुणे	कॉम्प्युटर टेक्निक्स मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नॉलॉजी पर्चिंसिग अँण्ड स्टोअर किर्पोग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग ऑफिस मॅनेजमेंट इन्शुरन्स बॉकिंग मेडिकल लैंब टेक्निशियन क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मॅनेजमेंट टुरिझम अँण्ड ट्रॅक्ल टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स मेडिकल लैंब टेक्निशियन चाईल्ड,ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ केअर सर्किंस टुरिझम अँण्ड हॉस्पिटिलिटी मॅनेजमेंट
	13	सेंट जोसेफ टेक्नोकल इन्स्टिट्युट व ज्युनिअर कॉलेज, शंकरशेठरोड, पुणे	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	आॅटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
	14	महाराष्ट्र गल्स एज्यु. सोसाचे हुजरपागा काजज उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमाचे कनिष्ठ महाविद्यालय, राजस सोसाचे. काजज पुणे	ऑफिस मॅनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्निक्स	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	15	उम्मत एज्यु.एँण्ड चॅरीटेबल ट्रस्ट संचलित उम्मत व्यवसाय कनिष्ठ महाविद्यालय, स.न. 40 अशोका म्हूज एल बिल्डिंग, कॉठवा खुर्द पुणे 48	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	16	सिंम्बोयसिस व्हाकेशनल ज्युनिअर कॉलेज,मु.पो.दारवली ता.मुळशी जि.पुणे	कॉम्प्युटर टेक्निक्स पर्चिंसिग अँण्ड स्टोअर किर्पोग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग ऑफिस मॅनेजमेंट इन्शुरन्स बॉकिंग मेडिकल लैंब टेक्निशियन क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मॅनेजमेंट टुरिझम अँण्ड ट्रॅक्ल टेक्निक्स मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नॉलॉजी	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स मेडिकल लैंब टेक्निशियन चाईल्ड,ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ केअर सर्किंस टुरिझम अँण्ड हॉस्पिटिलिटी मॅनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	17	इंद्रयणी ज्युनि. कॉलेज, तळेगाव दाभाडे, जि. पुणे	मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मेन्टेनन्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी कस्टक्शन टेक्नॉलॉजी
	18	शरदचंद्र पवार व्यवसाय शिक्षणे व प्रशिक्षण,ज्युनिअर कॉलेज, सणसवाडी, ता. शिरुर जि. पुणे	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	आॅटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
	19	अण्णसाहेब वाघेरे महाविद्यालय,ओतुर, ता.जुन्नर, जिल्हा, पुणे	कॉम्प्युटर टेक्निक्स बॉकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी

1	2	3	4	5
	20	श्री शिवछपती महाविद्यालय, बोडकेनगर ता. जुन्नर जि. पुणे	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	ऑटोमोबाईल टेक्नालॉजी
	21	महाराष्ट्र शिक्षण मंडळ क्लोकेशनल कनिष्ठ महाविद्यालय, ता. जुन्नर जि. पुणे	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मॅनेजमेंट	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट चाईल्ड, ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ के अर सर्किंस
	22	तुळजाराम चतुरचंद (टी.सी.) कॉलेज, बारामती, जि. पुणे	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	ऑटोमोबाईल टेक्नालॉजी
	23	सरस्वती शिक्षण मंडळाचे एन.एम.व्ही. ज्युनिअर कॉलेज, पनदरे ता. बारामती, जि. पुणे	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	ऑटोमोबाईल टेक्नालॉजी
	24	भारतीय जैन संघटनेचे कनिष्ठ महाविद्यालय, वाघोली, ता. हवेली, जि. पुणे	हॉर्टीकल्चर अंग्रीकल्चर केमिकल बिल्डिंग मेन्टेनन्स अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग कॉम्प्युटर टेक्निक्स	हॉर्टीकल्चर कर्स्ट्रक्शन टेक्नालॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी
	25	न्यु झेनसर व्यवसाय शिक्षणे व प्रशिक्षण, ज्युनिअर कॉलेज, खराडी, जि. पुणे	क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मॅनेजमेंट	चाईल्ड, ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ के अर सर्किंस
	26	आचय आजे विकास प्रतिष्ठान पुरंदर संचालित, न्यु इंग्लिश स्कूल, अँण्ड ज्युनि. कॉलेज अस्टापुर ता. हवेली जि. पुणे	एम.आर.ई.डी.ए.	इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी
	27	श्री जैन विद्याप्रसारक मंडळ संचालित फतेचंद जैन ज्युनि. कॉ. चिंचवड पुणे 30	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स दुरिझम अँण्ड ट्रॅक्ल टेक्निक्स मेडिकल लॅब टेक्निशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी दुरिझम अँण्ड हॉस्पिटेलिटी मॅनेजमेंट मेडिकल लॅब टेक्निशियन
	28	श्रीमती गेदीबाई चोपडा ज्युनि. कॉलेज, चिंचवड	पर्चेंसिंग अँण्ड स्टोअर किर्पोग कॉम्प्युटर टेक्निक्स मेडिकल लॅब टेक्निशियन	लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी मेडिकल लॅब टेक्निशियन
	29	राजमाता जिजाह शिक्षण प्रसारक, आर्ट, सायंन्स कॉर्स कॉलेज, भोसरी, पुणे	पर्चेंसिंग अँण्ड स्टोअर किर्पोग अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग बॉकिंग	लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सार्किंस, इन्शुरन्स
	30	श्री भास्कर गिरी महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ स.नं. 98/2 प्लॉट नं. 19 - 20 अभिनव अपार्ट. फलेट नं. 3 -पांजरपोल समोर कॉठवा खुर्द पुणे 48 साळुंके विहार कॉलनी भोसरी, पुणे 39	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी
	31	श्री भास्कर गिरी महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ स.नं. 98/2 प्लॉट नं. 19 - 20 अभिनव अपार्ट. फलेट नं. 3 -पांजरपोल समोर कॉठवा खुर्द पुणे 48 साळुंके विहार कॉलनी भोसरी, पुणे 41	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
	32	श्री भास्कर गिरी महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ स.नं. 98/2 प्लॉट नं. 19 - 20 अभिनव अपार्ट. फलेट नं. 3 -पांजरपोल समोर कॉठवा खुर्द पुणे 48 साळुंके विहार कॉलनी भोसरी, पुणे 40	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी
	33	नॉक्हेल इन्स्टिट्युट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट अँण्ड रिसर्च नॉक्हेल उच्च माध्यमिक विद्यालय,	बेकरी व कन्फेक्शनरी कुकरी	फुड प्रॉडक्शन फुड प्रॉडक्शन
एकूण पुणे	33			

1	2	3	4	5
सातारा	1	पंचक्रोशी शिक्षण मंडळ, रहिमतपूरचे ज्युनिअर कॉलेज ऑफ सायन्स, आर्ट्स अण्ड कॉमर्स, रहिमतपूर तालुका कोरेगांव जिल्हा सातारा	पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलॉजी	हॉटीकल्चर
	2	श्री..मुधाई शिक्षण संस्था, डेऊर संचालित श्री.मारुतराव माने कनिष्ठ महाविद्यालय, डेऊर तालुका कोरेगांव जिल्हा सातारा	क्रॉप सायन्स	क्रॉप सायन्स
	3	रयत शिक्षण संस्थेचे श्री.सदगुरु गाडगे महाराज कॉलेज, विधानगर कराड जिल्हा सातारा	अकौटिंग अण्ड ऑडिटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
	4	श्री.शिवाजी शिक्षण संस्थेचे वेणूताई चव्हाण कॉलेज, कराड जिल्हा सातारा	अकौटिंग अण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
	5	श्री.नृसिंह शिक्षण प्रसारक मंडळ, इंदोली संचालित न्यू इंगिलिश माध्यमिक व उच्च माध्यमिक	एम.आर.ई.डी.ए. कॉम्प्युटर टेक्निक्स	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	6	कराड जनता चॉरिटेबल एज्युकेशनल अण्ड सायंटिफिक रिचर्स सेंटर संचालित सिटी मेडिकल	एक्स-रे टेक्निशियन मेडिकल लॉब टेक्निशियन	रेडिओलॉजी टेक्निशियन मेडिकल लॉब टेक्निशियन
	7	महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था, पुणेची कन्यााा शाळा, वाई जिल्हा सातारा	अकौटिंग अण्ड ऑडिटिंग ऑफिस मॅनेजमेंट मेडिकल लॉब टेक्निशियन	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट मेडिकल लॉब टेक्निशियन
	8	सुरभि कॉम्प्युटर एज्युकेशन सोसायटीचे सुरभि कॉलेज ऑफ एंडव्हान्सड टेक्नॉलॉजी, 664/अ, किसनवीर चौक, वाई जिल्हा सातारा	कॉम्प्युटर टेक्निक्स अकौटिंग अण्ड ऑडिटिंग ऑफिस मॅनेजमेंट	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
	9	ज्ञानसंवर्धनी शिक्षण संस्था संचालित ज्ञानवर्धनी माध्यमिक विद्यालय, शिरवळ तालुका खंडाळा जिल्हा सातारा	मेडिकल लॉब टेक्निशियन कॉम्प्युटर टेक्निक्स ऑफिस मॅनेजमेंट	मेडिकल लॉब टेक्निशियन कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
	10	साखरवाडी शिक्षण संस्था संचालित साखरवाडी ज्यू.कॉलेज, साखरवाडी तालुका फलटण जिल्हा	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डी.ए.	आंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
	11	कै.नारायण गेंदू आवळे शिक्षण संस्था, संचालित श्री.डी.एस.आवळे कनिष्ठ महाविद्यालय, मु.पो. पंतागरी तालुका माण जिल्हा सातारा	क्रेच अण्ड प्री स्कूल मॅनेजमेंट क्रॉप सायन्स	चाईल्ड, ओल्ड ऐज अण्ड हेल्थ केअर सर्किंस क्रॉप सायन्स
	12	यशोदा शिक्षण संस्था संचालित ज्यू.कॉलेज, सातारा	अकौटिंग अण्ड ऑडिटिंग बॉकिंग कॉम्प्युटर टेक्निक्स	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंस, इन्शुरन्स कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	13	श्री.शाहू छत्रपती शिक्षण संस्था, अतीत जिल्हा सातारा	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डी.ए. कॉम्प्युटर टेक्निक्स मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी
	14	गौरीशंकर एज्युकेशनल अण्ड चॉरिटेबल ट्रस्टचे कनिष्ठ महाविद्यालय, लिंब तालुका जिल्हा सातारा	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन बिल्डिंग मेन्टेनन्स मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी
एकूण सातारा	14			

1	2	3	4	5
सांगली	1	इन्सिट्यूट आफ पॉरमेडिकल कॉलेज जत	मेडिकल लैंब टेक्निशियन मेडिकल लैंब टेक्निशियन ऑप्थोल्मिक टेक्निशियन क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मॅनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्निक्स एक्स-रे टेक्निशियन	मेडिकल लैंब टेक्निशियन मेडिकल लैंब टेक्निशियन ऑप्थोल्मिक टेक्निशियन चाईल्ड,ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ के अर सर्क्स कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी रेडिओलॉजी टेक्निशियन
	2	कन्या प्रशाला व ज्यूनि कॉलेज कवठेमहांकाळ	बॉकिंग	बॉकिंग, फायनन्शियल सर्क्स, इन्शुरन्स
	3	विद्यानिकेतन ज्युनियर कॉलेज तासगांव	आर.एम.आर.ई.एम.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
	4	न्यू इंगिलिश स्कूल, कुमठे	बॉकिंग अॅटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डी.ए.	बॉकिंग, फायनन्शियल सर्क्स, इन्शुरन्स
	5	मिरज महाविद्यालय, मिरज	एम.आर.ई.डी.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
	6	श्रीमती चंपाबेन बालचंद शाह महिला महाविद्यालय, सांगली	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
एकूण सांगली	6			
सोलापूर	1	अहिल्याबाई प्रशाला अँण्ड ज्यु.कॉलेज68, आदर्शनगर, कुमठेनाका, सोलापूर- 413 006	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डी.ए.	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
	2	न्यू इंगिलिश स्कूल, मु.उंदरगांव-413 209,ता.माढा, जि.सोलापूर	कॉम्प्युटर टेक्निक्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अॅटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अॅटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
	3	शिवणे माध्य. व उच्च माध्यमिक विद्यालय, शिवणे, ता.सांगोला	कॉम्प्युटर टेक्निक्स अॅटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन ऑफिस मॅनेजमेंट	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी अॅटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी अकौटिग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
	4	श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ, बार्शी बी.पी.सुलाखे कॉमर्स कॉलेज, शिवाजीनगर, बार्शी-	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	5	मराठा समाज सेवा मंडळ, सोलापूर छत्रपती शिवाजी प्रशाला व ज्यु. कॉलेज, मराठी समाज मंदिर हरिभाई देवकरण प्रशालेचे	मेडिकल लैंब टेक्निशियन	मेडिकल लैंब टेक्निशियन
	6	रयत शिक्षण संस्था, सातारा कर्मवार भाऊराव पाटील महाविद्यालय पंढरपूर	डेअरी टेक्नॉलॉजी	अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी
एकूण सोलापूर	6			
कोल्हापूर	1	परशुराम बाळाजी पाटील मा.वि.व क.म.वि.मुदाळ, ता.भुदरगड	एम.आर.ई.डी.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स अॅटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अॅटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
	2	मोहरे हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज, मोहरे ता.पन्हाळा	बिल्डिंग मेन्टेनन्स	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
	3	एस. एम. लोहिया ज्युनियर कॉलेज, पेटाळा, कोल्हापूर ता. करवीर	बिल्डिंग मेन्टेनन्स	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
	4	डी.आर. माने ज्युनियर कॉलेज, कागल ता. कागल	ऑप्थोल्मिक टेक्निशियन	ऑप्थोल्मिक टेक्निशियन
	5	शिवराज विद्यालय व ज्यु.कॉलेज, मुरगूड,ता.कागल	पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किर्पांग	लॉजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट
	6	धनंजय विद्यालय, नागनवाडी, ता. चंदगड	एम.आर.ई.डी.ए. बिल्डिंग मेन्टेनन्स अॅटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अॅटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
	7	ओम फॉरमेडिकल कॉलेज, आजरा , ता. आजरा	मेडिकल लैंब टेक्निशियन	मेडिकल लैंब टेक्निशियन

1	2	3	4	5
			एम.आर.ई.डी.ए. एक्स.रे टेक्निशिअन ऑप्थोलिमिक टेक्निशियन कॉम्प्युटर टेक्निक्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी रेडिओलॉजी टेक्निशियन ऑप्थोलिमिक टेक्निशियन कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी अंटोमोबाईल टेक्नालॉजी
	8	साधना ज्युनियर कॉलेज, गडहिंगलज , ता. गडहिंगलज	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
	एकूणकोल्हापूर	8		
एकूण पुणे विभाग	67			
अमरावती	1	कै.द्रौपदाबाई देशमुख क.महा.बेलोरा (विनाअनुदानीत)	पोल्ट्री प्रोडक्शन आर.एम.आर.ई.एम. बिल्डिंग मेन्टेनन्स अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेरी टेक्नालॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी कर्स्ट्रक्शन टेक्नालॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
	2	राष्ट्रीय ज्यु.कनिष्ठ पिंप्रीगवळी	पोल्ट्री प्रोडक्शन एम.आर.ई.डी.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेरी टेक्नालॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी आंटोमोबाईल टेक्नालॉजी
	3	विक्रमराव बापूसाहेब क. महा. निवाण ता सांग्रामपूर	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नालॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स	अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड टेक्नालॉजी कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी
	4	बाबुराव पाटील कनिष्ठ महा सांग्रामपूर	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी एम.आर.ई.डी.ए.	आंटोमोबाईल टेक्नालॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी
	5	म.वा पातुरकर विद्यालय डोणगांव	मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नालॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी	कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी
	6	विवेकानंद कनिष्ठ महा एकलारा.	मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नालॉजी	कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी
	7	तांबट कनिष्ठ महा.मंगरुळ नवघरे ता.चिखली	एम.आर.ई.डी.ए. अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग कॉम्प्युटर टेक्निक्स	इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी
	8	विवेकानंद कनिष्ठ महा एकलारा.	डेरी टेक्नालॉजी क्रॉप सायन्स	अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेरी टेक्नालॉजी क्रॉप सायन्स
	9	नाराणराव जगन्नथराव जाधव क.महा. मलकापूर	ऑफिस मैनेजमेंट बॉकिंग कॉम्प्युटर टेक्निक्स	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किसेस, इन्शुरन्स कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी
	10	डि.ई.एस. कनिष्ठ महा. धरणगांव	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी
	11	विद्या विकास. कनिष्ठ महा.कोलवड.	क्रॉप सायन्स	क्रॉप सायन्स
एकूण अमरावती	11			
बुलढाणा	1	नाराणराव जगन्नथराव जाधव क.महा. मलकापूर	ऑफिस मैनेजमेंट बॉकिंग कॉम्प्युटर टेक्निक्स	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किसेस, इन्शुरन्स कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी
	2	सानिया कनिष्ठ महा. चिखली	एम.आर.ई.डी.ए.	इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी

1	2	3	4	5
			अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग कॉम्प्युटर टेक्निक्स	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	3	अमर कनि. महा अमडापूर ता.चिखली	मेडिकल लैंब टेक्निशियन हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स	मेडिकल लैंब टेक्निशियन हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स
	4	ग्लोबल कनिष्ठ महा. नांदुरा	मेडिकल लैंब टेक्निशियन	मेडिकल लैंब टेक्निशियन
	5	गोविदराव जाधव कनिष्ठ महा. सुंदरखेड ता.जि.बुलडाणा	एम.आर.ई.डी.ए. कॉम्प्युटर टेक्निक्स	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
एकूण बुलडाणा	5			
अकोला	1	न्यु.इंगिलश कनिष्ठ महाविद्यालय,अकोला	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
	2	सम्यक कनिष्ठ महाविद्यालय,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नगर,शिवानी ता.जि.अकोला	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग एम.आर.ई.डी.ए.	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
एकूण अकोला	2			
वाशिम		नि रं क		
एकूण वाशिम	0			
यवतमाळ	1	हरिकमल माध्यमिक विद्यालय खरडगाव	एम.आर.ई.डी.ए. अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
	2	मारोतराव वानखडे एम.सी.क्षि.सी. क महा विद्या मरसुळ	हॉटीकल्चर	हॉटीकल्चर
	3	स्व.सिराजोदीन माध्यमिक विद्यालय,राजूर वणी	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	4	स्व. गणपतराव पाटील माध्यमिक विद्यालय, बोरगडी ता. पुसद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	5	मयुर टेक्नीकल इन्स्टीट्युट, मारेगाव	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
	6	इंदिरा गांधी कनिष्ठ महाविद्यालय दारव्हा	मेडिकल लैंब टेक्निशियन	मेडिकल लैंब टेक्निशियन
	7	म.ज्योतीबा फुले क.महा खोपडी	डेअरी टेक्नॉलॉजी	अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी
एकूण यवतमाळ	7			
एकूण अमरावती विभाग	25			
औरंगाबाद	1	एम.आय.टी.कनिष्ठ महाविद्यालय, सिडको एन-4 औरंगाबाद	एम.आर.ई.डी.ए. कॉम्प्युटर टेक्निक्स आर.एम.आर.ई.एम.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
	2	देवगिरी कला महाविद्यालय, रेल्वेस्टेशन रोड, औरंगाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मेन्टेनन्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
	3	श्री.स.भु.कला व वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालय, औरंगपुरा, औरंगाबाद	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
	4	विवेकानंद कनिष्ठ महाविद्यालय, समर्थनगर, औरंगाबाद	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	5	वसंतराव नाईक कनिष्ठ महाविद्यालय, चिकलठाणा रोड, औरंगाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	6	भगवान पॅरा मेडिकल कनिष्ठ महाविद्यालय, सिडको एन-6, औरंगाबाद	मेडिकल लैंब टेक्निशियन एक्स-रे टेक्निशियन ऑप्थोल्मिक टेक्निशियन	मेडिकल लैंब टेक्निशियन रेडिओलॉजी टेक्निशियन ऑप्थोल्मिक टेक्निशियन
	7	श्री.शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालय,	एम.आर.ई.डी.ए.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी

1	2	3	4	5
		खोकडपुरा, औरंगाबाद	ऑफिस मैनेजमेंट अँटोइंजिनिअरिंग टेक्निशियन	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
8	अंबर पेरा मेडिकल कन्सिल्ट महाविद्यालय, हर्सूल रोड , औरंगाबाद		मेडिकल लॉब टेक्निशियन एक्स-रे टेक्निशियन अॉथोल्मिक टेक्निशियन	मेडिकल लॉब टेक्निशियन रेडिओलॉजी टेक्निशियन अॉथोल्मिक टेक्निशियन
9	फोस्टर डेक्लोपमेंट क. महा. सिडको-एन-6, औरंगाबाद		मेडिकल लॉब टेक्निशियन	मेडिकल लॉब टेक्निशियन
10	गोदावरी कन्सिल्ट महाविद्यालय, हडको, एन-12, औरंगाबाद		इन्शुरन्स मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप कॉम्प्युटर टेक्निक्स	बैंकिंग, फायनन्शियल सर्किल्स, इन्शुरन्स मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
11	अराधना तंत्र शिक्षण कन्सिल्ट महाविद्यालय, छावणी, औरंगाबाद		मेडिकल लॉब टेक्निशियन एक्स-रे टेक्निशियन अॉथोल्मिक टेक्निशियन	मेडिकल लॉब टेक्निशियन रेडिओलॉजी टेक्निशियन अॉथोल्मिक टेक्निशियन
12	कलावती देवी पेरा मेडिकल कन्सिल्ट महाविद्यालय, गारखेडा परिसर, औरंगाबाद		मेडिकल लॉब टेक्निशियन अॉथोल्मिक टेक्निशियन अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग बिल्डिंग मेन्टेनन्स कॉम्प्युटर टेक्निक्स एम.आर.ई.डी.ए.	मेडिकल लॉब टेक्निशियन अॉथोल्मिक टेक्निशियन अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
13	भारतीय ग्रामीण पुनर्रचना संस्था संचलित राजा शिवाजी कन्सिल्ट महाविद्यालय, बजाज नगर, वाळुज, औरंगाबाद		आर.एम.आर.ई.एम. अँटोइंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स मेक्निकल टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डी.ए.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी ऑटोमोबाइल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
14	देवगिरी तंत्र शिक्षण कन्सिल्ट महाविद्यालय, पैठणगेट जवळ शारदाश्रम कॉलनी, औरंगाबाद		अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप कॉम्प्युटर टेक्निक्स पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपींग ऑफिस मैनेजमेंट मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नॉलॉजी	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
15	श्री.साईनाथ कन्सिल्ट महाविद्यालय, वाळुज, औरंगाबाद		एम.आर.ई.डी.ए. अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपींग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नॉलॉजी आर.एम.आर.ई.एम.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
16	सुयोग कन्सिल्ट महाविद्यालय, गिरनेरा तांडा, गिरनेरा, औरंगाबाद		मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप बिल्डिंग मेन्टेनन्स एम.आर.ई.डी.ए. अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
17	विश्वभारती तंत्र शिक्षण कन्सिल्ट महाविद्यालय शिवाजीनगर, औरंगाबाद		ऑफिस मैनेजमेंट	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट

1	2	3	4	5
			एम.आर.ई.डी.ए. अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन बॉकिंग पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपोर्ग मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नालॉजी	इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी ऑटोमोबाईल टेक्नालॉजी बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी
18	श्री. गणेश तांत्रिककनिष्ठ महाविद्यालय, शिवाजीनगर, औरंगाबाद		अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी बिल्डिंग मेन्टेनेशन्स	ऑटोमोबाईल टेक्नालॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नालॉजी
19	ग्रामिण लोककल्याण कनिष्ठमहावि.पन्नालालनगर,नुतन कॉलनी औरंगाबाद		अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नालॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी
20	ज्ञानसरिता शि.प्र.मं. संचालीत सर्वोदय क.महाविद्यालय, शिवाजीनगर, औरंगाबाद		कॉम्प्युटर टेक्निक्स मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप इन्शुरन्स	कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स
21	विश्वभारती तंत्र शिक्षण कनिष्ठ महाविद्यालय शिवाजीनगर, औरंगाबाद		बॉकिंग पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपोर्ग मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नालॉजी	बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी
22	म. शि. प्र. मं. औ बाद सं. शिवछत्रपती कनिष्ठ महाविद्यालय सिडको एन-3,औरंगाबाद		इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नालॉजी अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग कुकरी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट फुड प्रॉडक्शन
23	राधाई क.महा.कॉनॉट गार्डन एअरलाईन्स ऑफीसजवल जालना रोड, औरंगाबाद		कॉम्प्युटर टेक्निक्स मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नालॉजी	कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी
24	इस्टिट्युट ऑफ पेरामेडीकल सायन्सेस सोनिया चेबर्स सेक्हनहील उडडाणपुलाच्या बाजुला जोलना रोड औरंगाबाद		ऑप्थोलिमिक टेक्निशियन एक्स-रे टेक्निशिअन मेडिकल लॅब टेक्निशियन	ऑप्थोलिमिक टेक्निशियन रेडिओलॉजी टेक्निशियन मेडिकल लॅब टेक्निशियन
25	श्रीमती कलाबाई क.महाविद्यालय रंजवन गृहनिर्माण संस्था,प्लॉट क्र 02,एम-2,सिडको, औरंगाबाद		कॉम्प्युटर टेक्निक्स ऑफिस मॅनेजमेंट अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
26	अलविरा एज्यु. इकरा स्कुल परिसर, न्यु एस.टी. कॉलनी, औरंगाबाद		अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी टुरिझम अँण्ड ट्रूल टेक्निक्स	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी टुरिझम अँण्ड हॉस्पिटलिटी मॅनेजमेंट
27	ज्ञानेश कनिष्ठ महाविद्यालय, मुकुंद हौसिंग सोसायटी, एन-2, 41, महाजन कॉलनी सिडको.		कॉम्प्युटर टेक्निक्स मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नालॉजी	कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी

1	2	3	4	5
			दुरिझम अँण्ड ट्रॉहल टेक्निक्स	दुरिझम अँण्ड हॉस्पिटेलीटी मॅनेजमेंट
	28	एकता कनिष्ठ महाविद्यालय, एन-11, ई- 11/3, मयुरानगर, हडको, औरंगाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किर्पिंग ऑफिस मॅनेजमेंट	कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
	29	द्वारका कनिष्ठ महाविद्यालय, एन-11, एच-17/8, नवनाथनगर, हडको, औरंगाबाद	मेडिकल लॉब टेक्निशियन	मेडिकल लॉब टेक्निशियन
	30	सिध्दिविनायक कनिष्ठ महाविद्या. प्लॉट क्र. 2 एकता हैसिंग सोसायटी मयुर पार्क रोड औरंगाबाद	मेडिकल लॉब टेक्निशियन	मेडिकल लॉब टेक्निशियन
	31	आँलम पैरा मेडीकल, क. महा. भाऊसिंगपूरा, औरंगाबाद	आँथ्रॉलिमिक टेक्निशियन एक्स-रे टेक्निशियन मेडिकल लॉब टेक्निशियन	आँथ्रॉलिमिक टेक्निशियन रेडिओलॉजी टेक्निशियन मेडिकल लॉब टेक्निशियन
	32	रेणूका उच्च व माध्य. विद्यालय, बाजीराव पेशवेनगर, सातारा परिसर, औरंगाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स ऑफिस मॅनेजमेंट इन्शुरन्स मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नालॉजी	कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्क्हिसेस, इन्शुरन्स कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी
	33	कै.कमलसिंग नाईक उच्च व माध्यमिक विद्यालय, ढवळापुरी, ता. जिल्हा औरंगाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स ऑफिस मॅनेजमेंट बॉकिंग	कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्क्हिसेस, इन्शुरन्स
	34	प्रियंका व्यावसायीक कनिष्ठ महा. सावंगी हर्सूल, आय-1, शिवशंकर कॉलनी, औरंगाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी
	35	मा.सौ.पुष्पाबाई कासलीबाल पैरा मंडीकल कॉलेज ऑफ टेक्निकल इन्स्टिट्युट मेड रोड, पुंडलीनगर, औरंगाबाद	मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नालॉजी	कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी
	36	श्रीमती वेणूताई चव्हाण, कन्या विद्यालय, एन-8, सिडको, औरंगाबाद	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग कॉम्प्युटर टेक्निक्स बॉकिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी बॉकिंग, फायनन्शियल सर्क्हिसेस, इन्शुरन्स
	37	सुभेदार रामजी अंबेडकर, हायस्कूल बनसोडे नगर, निसारवाडी एन-12, सिडको, औरंगाबाद.	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
	38	सत्यविष्णु व्यावसायीक कनिष्ठ महाविद्यालय, एन-12, सिडको, औरंगाबाद	एक्स-रे टेक्निशियन मेडिकल लॉब टेक्निशियन	रेडिओलॉजी टेक्निशियन मेडिकल लॉब टेक्निशियन
	39	भास्कराचार्य हायर सेकंडरी स्कूल, गट क्रमांक 98, सातारा परिसर औरंगाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नालॉजी अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
	40	विद्यालंकार ज्यु. कॉलेज ऑफ सायन्स, लेबर कॉलनी, औरंगाबाद	आँथ्रॉलिमिक टेक्निशियन मेडिकल लॉब टेक्निशियन	आँथ्रॉलिमिक टेक्निशियन मेडिकल लॉब टेक्निशियन
	41	सईद अहमद खान (ऊर्दु) MCVC, क.महा. बायजीपूरा संजयन. बी-12, औरंगाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी
	42	कामधेनू कनिष्ठ महाविद्यालय, एन-13, सी-29/4 हडको औरंगाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नालॉजी	कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी

1	2	3	4	5
			अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
43	श्री मोहटादेवी माध्यमिक विद्यालय निपाणी, ता. जि. औरंगाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
44	राष्ट्रीय विद्यालय, एन-2, सिडको औरंगाबाद	ऑफिस मैनेजमेंट	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
45	न्यू हायस्कूल माध्य. व उच्च माध्य विद्यालय, करमाड ता.जि.औरंगाबाद	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स मल्टीमीडिया इंटरनेट टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी	
46	यंत्रशंखवंत माध्यमिक व उच्च माध्य.विद्यालय बोरगांव (अर्ज) तालूकाफुलंब्री ता. जि. आैरंगाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी	
47	श्री. मानसिंग भाऊ पवार कॉलेज ऑफ एंग्रीकल्चर (व्होकेशनल), गोवराई (बुकबॉड) ता.जि.आैरंगाबाद	क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर डेअरी टेक्नॉलॉजी	क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर <sup>र</sup> अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी	
48	श्री. शिवछत्रपती एम.सी.व्हि.सी कनिष्ठ महा. सुंदरवाडी, झाल्टा, औरंगाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी	
49	पर्दीत जवाहरलाल नेहरु मा. विद्यालय, शिवाजीनगर, औरंगाबाद जि.आैरंगाबाद.	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी	
50	एम.सी.व्हि.सी. कनि. महाविद्यालय हमीद कॉलनी, बीड बाय पास रोड रेल्वे स्टेशन जवळ, औरंगाबाद	पर्चसिंग अँण्ड स्टोअर किर्पांग	लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट	
51	वीर भद्रेशवृंदेंग क. महा, प्लॉ. नं-16 बौ शिवाराज कॉलनी, शहानुरवाडी, औरंगाबाद.	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
52	अमृतवेल मल्टी पर्ज चैरिटेबल ट्रस्ट औरंगाबाद संचलीत कनिष्ठ महा. विद्या. प्लॉट नं 24 संकल्प	कॉम्प्युटर टेक्निक्स मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट	
53	जैदी पॅरा मेडीकल कनिष्ठ महा. विद्या., सीटी चौक बुढी लेन, औरंगाबाद जि.आैरंगाबाद	ऑप्थोल्मिक टेक्निशियन	ऑप्थोल्मिक टेक्निशियन	
54	सुयोग काळूलेज ऑफ अंग्रीकल्चर, पाटोदा ता.जि.आैरंगाबाद	क्रॉप सायन्स	क्रॉप सायन्स	
55	श्री धनेश्वरी मानव विकास मंडळ, औरंगाबाद संचलीत क.महाविद्यालय,बी101 तुलसी आर्केट,सिडको कॅनाट ल्पेस, जि.आैरंगाबाद	एम.आर.ई.डी.ए. आर.एम.आर.ई.एम. मल्टीमीडिया इंटरनेट टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी	
56	कॉलेज ऑफ आयटी अँण्ड मैनेजमेन्ट,15 समर्थनगर, एस.टी कार्यशाळेमाग, जि.आैरंगाबाद.	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी	
57	कै.सु.कि. पडुल, कनिष्ठ महा. लाडसावंगी, जि. औरंगाबाद.	कॉम्प्युटर टेक्निक्स अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग अटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी	
58	तंत्रशिक्षण कनिष्ठ महाविद्यालय. शिवाजीनगर. जि. औरंगाबाद	एम.आर.ई.डी.ए. अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
59	श्री. मत्सोदरी एमसीव्हि.सी कनिष्ठ महा. औरंगाबाद. जि. औरंगाबाद	बिल्डिंग मैनेजमेंट मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप डेअरी टेक्नॉलॉजी मेडिकल लैब टेक्निशियन	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अॅनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी मेडिकल लैब टेक्निशियन	

1	2	3	4	5
			दुरिझम अँण्ड ट्रॅक्ल टेक्निक्स फिश प्रोसेस टेक्निकल	दुरिझम अँण्ड हॉस्पिटेलिटी मॅनेजमेंट फिशरी टेक्नालॉजी
60	शांताई कनिष्ठ (एमसीक्षिसी) महाविद्यालय. बेगमपुरा रोड, घाटी, जि. औरंगाबाद		बिल्डिंग मेन्टेनन्स अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	कन्स्ट्रक्शन टेक्नालॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट
61	ज्ञानकुंज व्यावसायिक कनिष्ठ महाविद्यालय, वरझडी, ता. जि. औरंगाबाद		इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी बिल्डिंग मेन्टेनन्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नालॉजी
62	शंकरबाबा (एमसीक्षिसी) कनिष्ठ महाविद्यालय. पी.107, बजाजनगर, त्रिमुर्ती रोड, जि. औरंगाबाद		पर्चांसिंग अँण्ड स्टोअर किपींग कॉम्प्युटर टेक्निक्स	लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी
63	महात्मा गांधी (एमसीक्षिसी) कनिष्ठ महाविद्यालय. 26, समर्थनगर, वरद गणेश मंदिरा मागे, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद		कॉम्प्युटर टेक्निक्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नालॉजी अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
64	मायर्नरिटी एज्युकेशन अँण्ड वेलफेअर न्यु फाऊंडेशन, औरंगाबाद पहाड़सिंगपुरा, इब्राहिमशाह कॉलनी, बेगमपुरा, औरंगाबाद.		कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी
65	भिमाबाई आंबेडकर शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद, 1 पारमिता संगिता कॉलनी, भावसिंगपुरा रोड ता. जि. औरंगाबाद.		इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नालॉजी अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
66	सर्वोदय गोलटगाव उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोलटगाव ता. जि. औरंगाबाद.		ए.म.आर.ई.डी.ए. अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन कॉम्प्युटर टेक्निक्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी ऑटोमोबाइल टेक्नालॉजी कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी
67	कॉलेज ऑफ टेक्नालॉजी, राजयोग, विद्यानगर, 7 हिल्स फलाय ओव्हर जवळ, जालना रोड, औरंगाबादे, जि.औरंगाबाद.		कॉम्प्युटर टेक्निक्स मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नालॉजी अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
68	विद्याप्रबोधनी तंत्रशिक्षण एमसी क्षि सी कनिष्ठ महा. नारळी बाग. खडकेश्वर, जि. औरंगाबाद		बॉकिंग ऑफिस मॅनेजमेंट	बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किसेस, इन्शुरन्स अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
69	आदर्श व्यवसाय कनिष्ठ महा. प्लॉट नं. 15, एन- 11, ए सेव्टर, दर्शन नगर, हडको, जि. औरंगाबाद.		कॉम्प्युटर टेक्निक्स अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग ऑफिस मॅनेजमेंट	कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
70	एच.एस.ए एमसीक्षिसी कनिष्ठ महा. विशालनगर.फजल कॉम्प्लेस , गारखेडा परीसर, जि. औरंगाबाद		इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
71	वेदांत कनिष्ठ (एमसीक्षिसी ) महा. हडको कॉर्नर, हर्सुल, जि औरंगाबाद.		बॉकिंग अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नालॉजी	बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किसेस, इन्शुरन्स अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी

1	2	3	4	5
	72	एम.सी.व्हि.सी. उच्च माध्य. विद्यालय, सातारा परीसर, बोड बाय पास , औरंगाबाद	ऑफिस मैनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्निक्स बॉकिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स
	73	पटमश्री वसंतदादा पाटील एम.सी.व्हि.सी. कनिष्ठ महा. सिडको.एन-2 , ता. जि. औरंगाबाद (श्री तिरुपती शिक्षण संस्था, औरंगाबाद)	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	74	राजीव गांधी महाविद्यालय करमाड, ता. जि. औरंगाबाद.	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप इन्शुरन्स	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स
	75	विद्याप्रबोधनी तंत्रशिक्षण एमसीव्हिसी कनिष्ठ महा. पडेगाव,ता. जि. औरंगाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स मल्टीमीडिया इंटरनेट टेक्नॉलॉजी ऑफिस मैनेजमेंट अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
	76	जगदंबा एम.सी.व्हि.सी. कनिष्ठ महा. नायगढ़ाण ,	कॉम्प्युटर टेक्निक्स अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
	77	डॉ. सी. व्हि. रमन टेक्नीकल इन्स्टिट्युट, करमाड,	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स बॉकिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स
	78	सहयोग क्रांती बहुउद्देशिय एम.सी.व्हि.सी. कनिष्ठ महा. कचनेर, जि. औरंगाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किर्पोग	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
	79	श्री. बालाजी एम.सी.व्हि.सी. कनिष्ठ महा. चिकलठाणा, जि. औरंगाबाद	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
	80	सिबॉयसिस कनिष्ठ महाविद्यालय, एम.सी.व्हि.सी. भिमनगर, भावसिंगपुरा, जि. औरंगाबाद.	पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किर्पोग अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग ऑफिस मैनेजमेंट इन्शुरन्स बॉकिंग	लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स
	81	लोकहितवादी न्यायहक्क समिती , प्रज्ञानगर, लक्ष्मी कॉलनी, जि. औरंगाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	82	श्री. गोरक्ष फ्रेग्रीकल्चर एम.सी.व्हि.सी. कनिष्ठ महा. खामगाव, ता.फुलंब्री जि. औरंगाबाद	डेअरी टेक्नॉलॉजी	अँनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी
	83	श्री.कानिफनाथ शिक्षण प्रसारक मंडळ,काचीवाडा, औरंगाबाद संचलीत पार्वती कन्या व्यवसाय शिक्षण कनिष्ठ महाविद्यालय,एन-9 जि. औरंगाबाद	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
	84	जयभगवती शिक्षण प्रसारक मंडळ,औरंगाबाद संचलीत ऐपेक्स व्यवसाय कनिष्ठ महावि., टावन	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट

1	2	3	4	5
		सेंटर सिडको जि. औरंगाबाद.	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	85	सौ. गंधारीबाई प्रतिष्ठाण, औरंगाबाद संचलीत मेडीकेर पैरामेडीकल कॉलेज, घृष्णश्वर कॉलनी, पो. हार्सुल जाधववाडी, औरंगाबाद.	आँप्थाल्मिक टेक्निशियन एक्स-रे टेक्निशियन मेडिकल लॉब टेक्निशियन अकौटिंग अँण्ड आँडिंग	आँप्थाल्मिक टेक्निशियन रेडीओलॉजी टेक्निशियन मेडिकल लॉब टेक्निशियन अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
	86	श्री. चिंतामणी पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अनिशय क्षेत्र कचनेर ट्रस्ट ता.जि. औरंगाबाद संचलीत श्रीमती.ध.दि. गंगवाल व्यवसाय शिक्षण कनिष्ठ	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी आर.एम.आर.ई.एम. कॉम्प्युटर टेक्निक्स	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	87	हितचिंतक बहुउद्योगिय प्रतिष्ठाण औरंगाबाद संचलीत हितचिंतक व्यवसाय शिक्षण कनिष्ठ महाविद्यालय, संजयनगर बायजीपुरा, औरंगाबाद.	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	88	नॅशनल सोसायटी फॉर हयुमन रिसोर्सेस अँण्ड कॅरिअर डेव्हलपमेन्ट, औरंगाबाद संचलीत सहयाद्री व्यवसाय शिक्षण कनिष्ठ महाविद्यालय, सहयाद्रीनगर एन-2 सिडको, औरंगाबाद.	एम.आर.ई.डी.ए. आर.एम.आर.ई.एम. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकौटिंग अँण्ड आँडिंग कॉम्प्युटर टेक्निक्स ऑफिस मैनेजमेंट	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
	89	ग्रामीण शिक्षण प्रसारक मंडळ अमदाबाद ता.कन्नड जि. औरंगाबाद संचलीत पद्यावती	सोड प्रॉडक्शन मेडिकल लॉब टेक्निशियन	क्रॉप सायन्स मेडिकल लॉब टेक्निशियन
	90	स्व.भैरोमल तनवाणी कनिष्ठ महा. आयोध्या नंगर, बजाजनगर, एमआयडीसी एरिया, वाळुज,	कॉम्प्युटर टेक्निक्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
	91	सव्यद अहेमद खान (MCVC)ज्यु. कॉलेज, बायजीपुरा, औरंगाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	92	सहारा एज्युकेशन व वैद्यकीय सेवा मंडळ, औरंगाबाद संचलित महाराष्ट्र ज्युनियर कॉलेज, गणेशनगर, रामराई रोड, वाळुज,	बिल्डिंग मेन्टेनन्स अकौटिंग अँण्ड आँडिंग	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
	93	अर्जिता मेडिकल अँण्ड एज्युकेशन संस्था संचलित भगवान महाविर फरा मेडिकल व वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालय अ-65, एन-4, सिडको, औरंगाबाद	अकौटिंग अँण्ड आँडिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
	94	गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब अँण्ड हेल्थ क्लब, औरंगाबाद संचलित पटेल ज्युनियर कॉलेज आँफ बॉकिंग एम सी व्ही सी औरंगाबाद एन-11, एल-32, कोहिनुर मजीत जवळ, हडको कॉर्नर, औरंगाबाद	बॉकिंग	बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किसेस, इन्शुरन्स
	95	कृषी उद्योग प्रतिष्ठाण औरंगाबाद संचलित संचलित शिवछत्रपती कनिष्ठ महाविद्यालय, प्लॉट न-62, एल सेक्टर एन-11, सिडको, औरंगाबाद	बिल्डिंग मेन्टेनन्स	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
	96	भैरवनाथ शिक्षण क्रिडा व समाजसेवा मंडळ संचलीत शिवछत्रपती कनिष्ठ महाविद्यालय,	मेडिकल लॉब टेक्निशियन कॉम्प्युटर टेक्निक्स	मेडिकल लॉब टेक्निशियन कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	97	प्राईम एज्युकेशन आणि वेलफेर संस्था संचलितप्राईम ज्युनियर कॉलेज, कटकट गेट रोड यनुस कॉलनी, औरंगाबाद	क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मैनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्निक्स	चाईल्ड, ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ केर सर्किस कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	98	राजश्री शाहू उच्च व माध्यमिक, विद्यालय, पाश्ची, ता.फुलब्री जि. औरंगाबाद	एम.आर.ई.डी.ए. आर.एम.आर.ई.एम. हॉर्टिकल्चर	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी हॉर्टिकल्चर
	99	राजे छत्रपती माध्यमीक विद्यालय, डॉगरगाव (कवाड) ता.फुलब्री. जि. औरंगाबाद.	कॉम्प्युटर टेक्निक्स टुरिझम अँण्ड ट्रक्हल टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी टुरिझम अँण्ड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट

1	2	3	4	5
		100 हिराफैय्याज क.महा. (एम.सी.की.सी) जामडी (ज) ता. कन्नड	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
		101 जयभवनी कनिष्ठ महाविद्यालय, वाकोद फाटा, ता. कन्नड जिल्हा औरंगाबाद	क्रॉप सायन्स अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	क्रॉप सायन्स अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		102 न्यु हायस्कूल व उच्च माध्यमिक विद्यालय, औराळा ता. कन्नड	एम.आर.ई.डी.ए. कॉम्प्युटर टेक्निक्स	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
		103 राष्ट्रीय उच्च व माध्यमिक विद्यालय, जैतापूर ता. कन्नड	ऑफिस मैनेजमेंट	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		104 राष्ट्रीय उच्च व माध्यमिक विद्यालय, नागद ता. कन्नड	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
		105 मथुरमाता कन्या विद्यालय, चिंचोली ता. कन्नड	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग कॉम्प्युटर टेक्निक्स	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
		106 समता कन्या प्रशाला, पिशोर ता. कन्नड जि. औरंगाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		107 श्री गणेश माध्यमिक व उच्च माध्यमिक देवगांव रंगारी	कॉम्प्युटर टेक्निक्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मल्टीमीडिया इंटरनेट टेक्नॉलॉजी	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
		108 श्रीमती राधाबाई शिंदे माध्यमि.विद्यालय, हस्ता, ता. कन्नड	कॉम्प्युटर टेक्निक्स एम.आर.ई.डी.ए. पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किर्पिंग	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी लॉजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		109 औरंगाबाद कला महाविद्यालय, कन्नड जिल्हा औरंगाबाद	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग कॉम्प्युटर टेक्निक्स बॉकिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी बॉकिंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
		110 श्री रेवणनाथ सेवाभावी. संस्था, विटा ता. कन्नड जि. औरंगाबाद	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स आर.एम.आर.ई.एम.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		111 डॉ.भिमराव ऑबेडकर कनिष्ठ महाविद्यालय, कन्नड, ता.कन्नड, जि.औरंगाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स मल्टीमीडिया इंटरनेट टेक्नॉलॉजी अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
		112 म्हाळसाई माध्यमिक विद्यालय, निपाणी, ता.कन्नड, जि. औरंगाबाद.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
		113 विनायकराव पाटिल कनिष्ठ महाविद्यालय, वैजापूर, ता.वैजापूर, जि.औरंगाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स मल्टीमीडिया इंटरनेट टेक्नॉलॉजी	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
		114 स्पदंन ईस्टिट्युट ऑफ पॉरा मेडीकलसायन्स, निवासनगरी, वैजापूर जि. औरंगाबाद	ऑप्थोलॉमिक टेक्निशियन एक्स-रे टेक्निशिअन मेडिकल लॉब टेक्निशियन	ऑप्थोलॉमिक टेक्निशियन रेडिओलॉजी टेक्निशियन मेडिकल लॉब टेक्निशियन
		115 स्वामी विवेकानंद माध्य. विद्यालय, गारज ता. वैजापूर जि. औरंगाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किर्पिंग	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी लॉजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
		116 कैलास पाटील माध्यमिक विद्यालय, एनएमसी कॉलनी, वैजापूर, जि.औरंगाबाद.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट

1	2	3	4	5
		117 स्वप्नपुर्ती तंत्र शिक्षण कनिष्ठ महाविगवळी हिवरा ता. गंगापूर	इन्शुरन्स अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	बैंकोंग, फायनेशियल सर्विसेस, इन्शुरन्स अकौटिंग, फायनेशियल ऑफिस मॅनेजमेंट
		118 श्री मुक्तानंद महाविद्यालय, गंगापूरजिल्हा औरंगाबाद.	हॉटेकल्चर क्रॉप सायन्स बैंकिंग	हॉटेकल्चर क्रॉप सायन्स बैंकोंग, फायनेशियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
		119 श्री छत्रपती शाह महाविद्यालय, लासूर स्टेशन ता. गंगापूर	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन आर.एम.आर.ई.एम. अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग आर.एम.आर.ई.एम. पर्चेंसिंग अँण्ड स्टोअर किर्पींग मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	आंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनेशियल ऑफिस मॅनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट मेक्निकल टेक्नॉलॉजी
		120 नेहरु कनिष्ठ महाविद्यालय, सावखडा ता.गंगापुर, जि.औरंगाबाद	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग डेअरी टेक्नॉलॉजी ऑफिस मॅनेजमेंट	अकौटिंग, फायनेशियल ऑफिस मॅनेजमेंट अंनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनेशियल ऑफिस मॅनेजमेंट
		121 सावित्रीबाई फुले (एमसीक्षिसी) कनिष्ठ महा. ता.गंगापुर जि. औरंगाबाद.	पर्चेंसिंग अँण्ड स्टोअर किर्पींग अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग एम.आर.ई.डी.ए.	लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट अकौटिंग, फायनेशियल ऑफिस मॅनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
		122 जीजामाता एमसीक्षिसी कनिष्ठ महा.औद्योगिक परीसर, धाणेगाव, ता.गंगापुर जि. औरंगाबाद.	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन पर्चेंसिंग अँण्ड स्टोअर किर्पींग बिल्डिंग मेन्टेनन्स	आंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
		123 छत्रपती शिवाजी प्रिप्रेटरी एमसीक्षिसी कनिष्ठ महा. लासूर स्टेशन. ता. गंगापुर, जि. औरंगाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स बैंकिंग ऑफिस मॅनेजमेंट	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी बैंकोंग, फायनेशियल सर्विसेस, इन्शुरन्स अकौटिंग, फायनेशियल ऑफिस मॅनेजमेंट
		124 छत्रपती शिवाजी प्रिप्रेटरी तंत्रशिक्षण एमसीक्षिसी कनिष्ठ महा. शहापुर बंजर. ता. गंगापुर, जि. औरंगाबाद	हॉटेकल्चर क्रॉप सायन्स ऑफिस मॅनेजमेंट	हॉटेकल्चर क्रॉप सायन्स अकौटिंग, फायनेशियल ऑफिस मॅनेजमेंट
		125 कै. शंकररावजी घनवट शिक्षण संस्था औरंगाबाद संचलित नि. श्रीराम व्यवसाय कनिष्ठ महाविद्यालय, जी 18 द्वारा सचिन इंजिनिअरिंग वाळुंज, औद्योगिक परीसर, गंगापुर जि. औरंगाबाद.	ऑफिस मॅनेजमेंट	अकौटिंग, फायनेशियल ऑफिस मॅनेजमेंट
		126 सहारा एज्युकेशन व बैद्यकीय सेवा मंडळ, औरंगाबाद संचलित महाराष्ट्र ज्युनियर कॉलेज, पंढरपुर, बजाजनगर, ता.गंगापुर,	बिल्डिंग मेन्टेनन्स अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनेशियल ऑफिस मॅनेजमेंट
		127 महाराष्ट्र विद्यार्थी विकास असोशिएशन द्वारा- संचलित पुंजराम महाराज ज्ञानपंदिर राजनांगाव(शे.जु.)धानेगांगाव रोड,वाळुंज, एमआयडीसी, तांा.गंगापुर, जि.औबाद	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डी.ए. अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनेशियल ऑफिस मॅनेजमेंट

1	2	3	4	5
			बॉकिंग कॉम्प्युटर टेक्निक्स	बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
128	शिवाजी उच्च व माध्यमिक विद्यालय, सावळदबारा ता. सोयगांव जिल्हा. औरंगाबाद		हॉटेकल्चर क्रॉप सायन्स कॉम्प्युटर टेक्निक्स	हॉटेकल्चर क्रॉप सायन्स कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
129	एम.सी.व्ही.सी. ज्यु कॉलेज, सोयगांव जिल्हा औरंगाबाद		पर्चासिंग अँण्ड स्टोअर किपोंग कॉम्प्युटर टेक्निक्स अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	लॉजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
130	संत ज्ञानेश्वर कनिष्ठ महाविद्यालय, सोयगांव,		अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
131	एम.सी.व्ही.सी. कनिष्ठ महाविद्यालय, धूप खेडा ता. पैठण जि. औरंगाबाद		कॉम्प्युटर टेक्निक्स अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
132	प्रेरणा कॉलेज ऑफ एंग्रीकल्चर निलजगंगाव ता. पैठण जि. औरंगाबाद		हॉटेकल्चर क्रॉप सायन्स	हॉटेकल्चर क्रॉप सायन्स
133	कै.केशरबाई माध्यमीक व उच्च माध्यमीक विद्यालय, पोरगाव, ता. पैठण जि. औरंगाबाद.		कॉम्प्युटर टेक्निक्स अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग ऑफिस मैनेजमेंट	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
134	पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा, बोकुड जळगाव, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद.		इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी आर.एम.आर.ई.एम.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
135	महात्मा फुले कनिष्ठ. (एमसीव्हीसी) महा. बिडकिन, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद		पर्चासिंग अँण्ड स्टोअर किपोंग अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग ए.म.आर.ई.डी.ए.	लॉजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
136	संत एकनाथ कनिष्ठ (एमसीव्हीसी) महा, पैठण, जि. औरंगाबाद		इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी ऑफिस मैनेजमेंट बॉकिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल मर्किंग इन्शुरन्स
137	श्री. धनेश वळेंगाव (एमसीव्हीसी) कनिष्ठ महाविद्यालय. बिडकिन, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद		कॉम्प्युटर टेक्निक्स अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
138	संत एकनाथ तत्रशिक्षण कनिष्ठ महाविद्यालय. (एमसीव्हीसी) चित्तेगाव, ता. पैठण		ऑफिस मैनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्निक्स	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
139	गिताई इन्स्टिट्युट ऑफ मैनेजमेंट, बिडकीन, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद		कॉम्प्युटर टेक्निक्स मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
140	एच.पी.एल. उच्च माध्यमीक विद्यालय, कृष्णापुर, बिडकीन, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद.		इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
141	इंदिरा शिक्षण क्रिडा प्रसारक मंडळ, आडुळ बळु.ता.पैठण संचलीत इंदिरा व्यवसाय शिक्षण कनिष्ठ महाविद्यालय, नांदर ता.पैठण		बॉकिंग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
142	पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शिक्षण प्रसारक मंडळ औरंगाबाद (पैठण)संचलित वसंतराव नाईकमाध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, आवडे उंचेगंगाव ता.पैठण जि. औरंगाबाद		अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
143	ज्ञानकुंज कनिष्ठ महाविद्यालय, बाजारसांवगी, सिडको, तालुका खंडुलदाबाद जिल्हा औरंगाबाद		अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट

1	2	3	4	5
			पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपींग	लॉजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
144	कमला नेहरु कन्या विद्यालय, खुलदाबाद जिल्हा औरंगाबाद	क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मैनेजमेंट	चाईल्ड,ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ केर सर्किंस	
145	ऊदू माध्यमिक विद्यालय, टाकळी रा. खुलदाबाद जिल्हा औरंगाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
146	काशीगिरी महाराज कला कनिष्ठ महाविद्यालय, गल्ले बोरगांव ता.खुलदाबाद जिल्हा ओरंगाबाद	क्रेच अँण्ड प्री स्कूल मैनेजमेंट	चाईल्ड,ओल्ड ऐज अँण्ड हेल्थ केर सर्किंस	
147	श्री सद्गुरु योगिराज दयानंद महाराजकला कनिष्ठ आहाविद्यालय, बाजार सावगी ता. खुलदाबाद जि.औरंगाबाद	ऑफिस मैनेजमेंट	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
148	राजीव गांधी कनिष्ठ एमसीक्सी महा. घोडेगाव, ता.खुलताबाद,	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग ऑफिस मैनेजमेंट	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
149	कै.सौ.चंद्रकला माध्यमिक विद्यालय, खांडी पिंपळगाव, ता.खुलताबाद, जि. औरंगाबाद.	कॉम्प्युटर टेक्निक्स मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
150	तांबट शैक्षणिक बहुउद्योगिय संस्था, औरंगाबाद संचलित तांबट उच्च माध्यमिक विद्यालय, नांद्राबाद ता.खुलताबाद जि.औरंगाबाद.	एम.आर.ई.डी.ए. अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग कॉम्प्युटर टेक्निक्स	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी	
151	मुक्ताराम तुपे पाटील बहु उद्योगिय सेवा भावी संस्था, संचलित मुक्ताराम तुपे पाटील कनिष्ठ महाविद्यालय (द्वोकेशलन) मु.बोरवाडी,	एम.आर.ई.डी.ए. अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
152	स्वराज्य शिक्षण संस्था,औरंगाबाद संचलित महाराजा सयाजीराव गायकवाड कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, बाजार सावगी ता.खुलताबाद, जि.औरंगाबाद	बैंकिंग	बैंकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स	
153	सहारा एज्युकेशन व वैद्यकीय सेवा मंडळ, औरंगाबाद संचलित शेख महेबुब पटेल ज्युनिअर कॉलेज कसाबखेडा, ता.खुलताबाद जि.औरंगाबाद	बिलिंग मेन्टेनन्स अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
154	एम.सी.की.सी. कनिष्ठ महाविद्याल,जयभवानी नगर ता. सिल्लोड,जिल्हा औरंगाबाद	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किपींग अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी लॉजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट	
155	यशंवत चळाण कनिष्ठ महाविद्याल सिल्लोड जिल्हा औरंगाबाद.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग क्रॉप सायन्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट क्रॉप सायन्स	
156	तेजोदित्य ज्यु कॉलेज, शिक्षक कॉलनी, शिवाजीनगर, सिल्लोड जिल्हा औरंगाबाद	मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नॉलॉजी इन्शुरन्स कॉम्प्युटर टेक्निक्स अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी बैंकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी अॉटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी	
157	गिताई ज्यु कॉलेज, माणिकनगर भवन ता.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	

1	2	3	4	5
		सिल्लोड जि. औरंगाबाद	पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किर्पींग बॉकिंग एम.आर.ई.डी.ए.	लॉजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट बॉकिंग, फायनन्शियल सर्किंसेस, इन्शुरन्स इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी
	158	मंगळेश्वर क.महा.एचएससी व्होकेशनल (एमसीव्हीसी) मंगरुळ ता.सिल्लोड.	हॉटीकल्चर डेअरी टेक्नालॉजी	हॉटीकल्चर अँनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नालॉजी
	159	यशंवतं माध्यमिक व उच्च माध्य. विद्यालय, पालेद ता. सिल्लोड जि. औरंगाबाद	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी
	160	मुरदेश्वर एमसीव्हीसी कनिष्ठ महा. लिहाखेडी. ता.सिल्लोड , जि. औरंगाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
	161	भारतीय शिक्षण संस्था संचलित गजानन व्यवसाय कनिष्ठ महावि., गोळेगाव ता.सिल्लोड जि. औरंगाबाद	हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स वॉटर शेड मैनेजमेंट	हॉटीकल्चर क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर
	162	कृषी उद्योग प्रतिष्ठाण औरंगाबाद संचलित मंगळेश्वर व्यवसाय शिक्षण कनिष्ठ महाविद्यालय, मंगरुळ ता.सिल्लोड जि.औरंगाबाद.	हॉटीकल्चर डेअरी टेक्नालॉजी क्रॉप सायन्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी	हॉटीकल्चर अँनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नालॉजी क्रॉप सायन्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी
	163	कृषी उद्योग प्रतिष्ठाण औरंगाबाद संचलित मंगळेश्वर कनिष्ठ महाविद्यालय (एमसीव्हीसी) मंगरुळ ता.सिल्लोड	हॉटीकल्चर	हॉटीकल्चर
	164	आराधना तंत्राशिक्षण कनिष्ठ महाविद्यालय, औरंगाबाद	मेडिकल लॉब टेक्निशियन ओप्थोल्मिक टेक्निशियन एक्स-रे टेक्निशियन	मेडिकल लॉब टेक्निशियन ओप्थोल्मिक टेक्निशियन रेडिओलॉजी टेक्निशियन
	165	मुस्लिम एज्युकेशन कल्चर हेल्थ अँण्ड वेलफेर सोसायटी, औरंगाबाद	मेडिकल लॉब टेक्निशियन	मेडिकल लॉब टेक्निशियन
	166	ग्रामिण शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, पदमावती कनिष्ठ महाविद्यालय, औरंगाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स इंटरनेट मल्टिमीडीया मेडिकल लॉब टेक्निशियन	कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी मेडिकल लॉब टेक्निशियन
	167	पैठण तालुका ग्रामिण विकास शिक्षण संस्था (नविन कावसाज पैठण)	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी
	168	मुँदेश्वर शिक्षण संस्था संचलित, औरंगाबाद	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग कॉम्प्युटर टेक्निक्स	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी
	169	विरभद्रेश्वर शिक्षण संस्था संचलित विरभद्रेश्वर कनिष्ठ महाविद्यालय	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
	170	महात्माजी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे नेहरू कनिष्ठ महाविद्यालय, सावखेडा	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग ऑफिस मैनेजमेंट डेअरी टेक्नालॉजी	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट अँनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नालॉजी
	171	राजूरेश्वर कनिष्ठ महाविद्यालय एच.एस.सी. व्होकेशनल, सातारा परिसर औरंगाबाद	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किर्पींग	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी लॉजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
	172	यश कनिष्ठ महाविद्यालय एम.सी.व्ही.सी. राजनगर औरंगाबाद	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग कॉम्प्युटर टेक्निक्स	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट कॉम्प्युटर टेक्नालॉजी
एकूण औरंगाबाद	172			

1	2	3	4	5
जालना	1	श्री.छत्रपती शिवाजी महाराज शिक्षण संस्था संचलित श्री.शरदचंद्रजी पवार कृषी तंब महाविद्यालय भोकरदन जि.जालना.	क्रॉप सायन्स	क्रॉप सायन्स
	2	राजुरेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ टाकळी भोकरदन संचलित ओम शांती	क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर	क्रॉप सायन्स हॉटीकल्चर
	3	मत्स्योदरी एम.सी.व्ही.सी.कनिष्ठ महाविद्यालय,कुंभार पिंपळगांव ता.घनसावंगी जि.जालना	एम.आर.ई.डी.ए.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
	4	गुरुकृपा ग्रामिण सेवाभावी संस्था, सायखेडा ता.सोनपेठ जि.परभणी संचलित जोगाई व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण कनिष्ठ महाविद्यालय परतुर जिजाऊनगर ता.परतुर जि.जालना	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
	5	निर्मल क्रीडा व समाज प्रबोधन ट्रस्ट, औरंगाबाद, कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, सेलगाव,जिल्हा जालना	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
एकूण जालना	5			
परभणी	1	ममता कनिष्ठ महाविद्यालय, पालम ता.पालम जि.परभणी	एम.आर.ई.डी.ए.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
			क्रॉप सायन्स	क्रॉप सायन्स
			अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
	2	श्री.गुरु बुधी स्वामी कनिष्ठ महाविद्यालय, पुर्णा ता.पुर्ण जि.परभणी	क्रॉप सायन्स	क्रॉप सायन्स
एकूण परभणी	2			
हिंगोली	1	धनसिंग नाईक कनिष्ठ महा.पेडगाव ता.जि.हिंगोली	पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किर्पीग	लॉजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
			अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
			बिल्डिंग मेन्टेनन्स	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी
	2	आदर्श कनिष्ठ महाविद्यालय, हिंगोली	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	3	महमद इसाक पटेल मेमोरियल जवळा बाजार ता.औढा ( ना ) जि.हिंगोली	डेअरी टेक्नॉलॉजी	अँनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी
			सीड प्रॉडक्शन	क्रॉप सायन्स
			पोल्ट्री प्रोडक्शन	अँनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी
एकूण हिंगोली	3			
बीड	1	प्रभाकरराव शिक्षण प्रसारक मंडळाचे न्यु. स्वामी समर्थ बीड	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
			अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
			पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किर्पीग	लॉजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
	2	लिटल पलॉवर परळी ता.बीड	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	3	आकार निष्ठ दिद्रुड ता. वडवणी जि. बीड	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट
			अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
			इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
	4	छत्रपती शाहु महाराज वडवणी	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
	5	श्री. महात्मा बसवेश्वर क.म.धारुर जि. बीड	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
			पर्चेसिंग अँण्ड स्टोअर किर्पीग	लॉजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
			इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
			आर.एम.आर.ई.एम.	इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी

1	2	3	4	5
			अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन बॉकिंग	ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी बॉर्किंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
	6	शाहू महाराज डोईठाण ता. आष्टी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स आर.एम.आर.ई.एम.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
	7	योगेश्वरी अंबाजोगाई जि. बोड	कॉम्प्युटर टेक्निक्स आर.एम.आर.ई.एम. डेरी टेक्नॉलॉजी	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी अॅनीमल हसबन्डरी अण्ड डेरी टेक्नॉलॉजी
	8	खोलेश्वर अंबाजोगाई जि. बोड	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
एकूण बोड	8			
नांदेड	1	ग्रामीण कनिष्ठ महा.नेहरुनगर नागलगाव ता.कंधार	बिल्डिंग मेन्टेनन्स मेडिकल लॉब टेक्निशियन कॉम्प्युटर टेक्निक्स हॉटेकल्चर डेरी टेक्नॉलॉजी सोड प्रॉडक्शन	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी मेडिकल लॉब टेक्निशियन कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी हॉटेकल्चर अॅनीमल हसबन्डरी अण्ड डेरी टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स
	2	महात्मा फुले कनिष्ठ महा.गोकुंदा ता.किनवट	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी बिल्डिंग मेन्टेनन्स कॉम्प्युटर टेक्निक्स	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	3	कै.जर्नादन पाटील गोरे कनिष्ठ महा.मुखेड	हॉटेकल्चर एक्स-रे टेक्निशिअन मेडिकल लॉब टेक्निशियन क्रॉप सायन्स	हॉटेकल्चर रेडिओलॉजी टेक्निशियन मेडिकल लॉब टेक्निशियन क्रॉप सायन्स
	4	छ.शिवाजी महाविद्यालय सगरोळी ता.बिलोली	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी
एकूण नांदेड	4			
उस्मानाबाद	1	व्होकेशनल कनिष्ठ महा. उस्मानाबाद	एक्स-रे टेक्निशिअन अकौटिंग अण्ड ऑडिटिंग मेडिकल लॉब टेक्निशियन अँटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	रेडिओलॉजी टेक्निशियन अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट मेडिकल लॉब टेक्निशियन ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
	2	श्री सरस्वती माध्यमिक व उच्च माध्य. विद्यालय, बेंवढी जि.उस्मानाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	3	बील गेट्स इन्स्टिट्युट, ऑफ कॉम्प्युटर सायन्स अण्ड मॅनेजमेंट, उस्मानाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स बॉकिंग	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी बॉर्किंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
	4	श्री सुभाषदादा काळेगे व्होकेशनल कनिष्ठ महाविद्यालय, बामणी (धारुर) ता. जि.उस्मानाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	5	श्री शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालय, परांडा जि.उस्मानाबाद	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
एकूण उस्मानाबाद	5			
लातूर	1	अंबर पॉरा मेडि. महा. खाडगांव रोड, लातूर	एक्स-रे टेक्निशिअन ओप्पोलिमिक टेक्निशियन मेडिकल लॉब टेक्निशियन	रेडिओलॉजी टेक्निशियन ओप्पोलिमिक टेक्निशियन मेडिकल लॉब टेक्निशियन
	2	महात्मा गांधी कनिष्ठ महा.अंबेजोगाई रोड, लातूर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नॉलॉजी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	3	बाबासाहेब अंबेडकर प.मे.सा. एज्यू अण्ड रि.	मेडिकल लॉब टेक्निशियन	मेडिकल लॉब टेक्निशियन

1	2	3	4	5
		लातूर	ऑप्थोलिमिक टेक्निशियन बिल्डिंग मेन्टेनन्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	ऑप्थोलिमिक टेक्निशियन कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
	4	जवाहर माध्य. व उच्च माध्य. विद्यालय, आशिव	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप पर्चासिंग अँण्ड स्टोअर किर्पोंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट लांजीस्टीक अँण्ड सप्लाय चेन मैनेजमेंट
	5	आजिम कनिष्ठ महाविद्यालय, औसा	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	6	श्री महादेव कनिष्ठ महा. धनेगांव ता.देवणी	मेडिकल लैंब टेक्निशियन	मेडिकल लैंब टेक्निशियन
	7	योगेश्वरीदेवी कनिष्ठ महाविद्यालय देवणी	इन्शुरन्स मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप एम.आर.ई.डी.ए. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन बॉकिंग	बॉर्किंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी बॉर्किंग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
	8	नेशनल कनिष्ठ महा. देगलूर रोड, उदगीर.	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स डेअरी टेक्नॉलॉजी	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स अनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी
	9	रेणूकादेवी कनिष्ठ महाविद्यालय, रेणापूर, लातूर	एक्स-रे टेक्निशियन मेडिकल लैंब टेक्निशियन अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन एम.आर.ई.डी.ए.	रेडिओलॉजी टेक्निशियन मेडिकल लैंब टेक्निशियन अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
	10	कै. रत्नबाई कनिष्ठ महाविद्यालय, उदगीर	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मल्टीमिडिया इंटरनेट टेक्नॉलॉजी एम.आर.ई.डी.ए. मेक्निकल टेक्नॉलॉजी अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन क्रॉप सायन्स सीड प्रॉडक्शन डेअरी टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी मेक्निकल टेक्नॉलॉजी अंटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी क्रॉप सायन्स क्रॉप सायन्स अनीमल हसबन्डरी अँण्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
	11	कमला नेहरु कनिष्ठ महा.बोरी	बिल्डिंग मेन्टेनन्स आर.एम.आर.ई.एम. अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट
एकूण लातूर	11			
एकूण औरंगाबाद विभाग	210			
नागपुर	1	निराला विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, हंसापुरी जि.नागपुर	अकौटिंग अँण्ड ऑडिटिंग	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मैनेजमेंट

1	2	3	4	5
			बॉकिंग	बॉकींग, फायनन्शियल सर्विसेस, इन्शुरन्स
	2	डॉ.बॉवर आपोस्टोलिक ज्युनिअर कॉलेज, कुकडे ले आउट नागपुर	ऑप्थोल्मिक टेक्निशियन एक्स-रे टेक्निशियन	ऑप्थोल्मिक टेक्निशियन रेडिओलॉजी टेक्निशियन
	3	सेंटपॉल विज्ञान व वाणिज्य क.महा. नागपुर जि.नागपुर	ऑप्थोल्मिक टेक्निशियन	ऑप्थोल्मिक टेक्निशियन
	4	आदर्श संस्कार कनिष्ठ महाविद्यालय, वंदावन हसनबाग रोड नागपुर जि.नागपुर	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्निक्स फिश प्रोसेस टेक्निकल	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी फिशरी टेक्नॉलॉजी
	5	प्रतिक प्रणव टेक्निकल अँण्ड एज्युकेशन सोसायटीचे कनिष्ठ महा.मानेवाडा रोड नागपुर	पर्चीसिंग अँण्ड स्टोअर किपींग ऑफिस मॅनेजमेंट	लॉजीस्टिक अँण्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
	6	श्री कनिष्ठ महा.घोराड ता.कळमेश्वर जि.नागपुर	मार्केटिंग अँण्ड सेल्समनशिप	मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट
एकूण नागपूर	6			
भंडारा	1	विवर्ध कला व वाणिज्य महा.लाखनी जि.भंडारा	क्रॉप सायन्स	क्रॉप सायन्स
	2	इंदुताई मेमोरिअल क.महा.तुमसर जि.भंडारा	मेडिकल लॅब टेक्निशियन	मेडिकल लॅब टेक्निशियन
एकूण भंडारा	2			
गोंदिया	1	गणेश पंढरीबाबु देशमुख कनिष्ठ महाविद्यालय, येरंडी, अर्जुनी मोरगांव	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन	ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी
	2	इसापूर इटखेडा कनिष्ठ महाविद्यालय, अर्जुनी	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
एकूण गोंदिया	2			
वर्धा	1	यशवंत कनि. महा. विजयगोपाल 07152 280031	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी आर.एम.आर.ई.एम.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी
एकूण वर्धा	1			
चंद्रपुर	1	डॉ. पंजाबराव देशमुख कन्या कनिष्ठ महाविद्यालय, ब्रह्मपुरी	ऑफिस मॅनेजमेंट	अकौटिंग, फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट
	2	आकाश कनिष्ठ महाविद्यालय, मेंढा (खडकी), ता. नागभिड	अंटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन हॉर्टीकल्चर	ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी हॉर्टीकल्चर
			मेडिकल लॅब टेक्निशियन	मेडिकल लॅब टेक्निशियन
एकूण चंद्रपूर	2			
गडचिरोली	1	कुथे पाटील क.महा.मौजा उराडी ता.कुरखेडा जि.गडचिरोली	कॉम्प्युटर टेक्निक्स	कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
एकूण गडचिरोली	1			
एकूण नागपूर विभाग	14			
एकूण महाराष्ट्र	399			